



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



PATRIOTIC IAS

THE HINDU NEWSPAPER

DAILY CURRENT AFFAIRS

16 MAY 2025

To watch an in-depth discussion on the topic, click on the YouTube link below: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

For regular updates on UPSC and PCS preparation, join our Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>

16_05_2025 DAILY CURRENT AFFAIRS

TOPICS COVERED (GS Paper I: History, Society and Geography)

1. Mahadayi River Diversion: Protests Over Study Claiming Its Limited Impact on Goa

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : **9971932488**
Website : patrioticias.in



महादयी नदी मोड़ने पर अध्ययन के दावे को लेकर गोवा में विरोध प्रदर्शन

2. India's Talks with Pakistan will be 'Strictly Bilateral', says Jaishankar

भारत-पाकिस्तान बातचीत 'सिर्फ द्विपक्षीय' होगी, जयशंकर ने कहा

3. Is Bihar's high replacement rate a consequence of poverty?

क्या बिहार की अधिक जनसंख्या पुनःस्थापन दर गरीबी का परिणाम है?

Temple tour



GS Paper I: A&C

Traditional stride: Miss World 2025 contestants representing the Caribbean and American regions visit the Yadagirigutta Temple in Yadadri Bhongir as part of a cultural tour on Thursday. A special puja was performed in their honour in the temple. SPECIAL ARRANGEMENT



Yadagirigutta Temple (Yadadri)

यदगिरीगुट्टा मंदिर (यदाद्री)

- The **Sri Lakshmi Narasimha Swamy Temple**, popularly known as **Yadagirigutta or Yadadri**, is a revered **Hindu temple** situated on a **hillock** in the town of Yadagirigutta, approximately **60 km from Hyderabad** in the state of **Telangana**, India.
- श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर, जिसे लोकप्रिय रूप से यदगिरीगुट्टा या यदाद्री कहा जाता है, एक प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है जो तेलंगाना राज्य के हैदराबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर यदगिरीगुट्टा नगर में एक पहाड़ी पर स्थित है।
- Dedicated to Lord Narasimha, an **incarnation** of Lord Vishnu, the temple holds immense **religious significance** and is a prominent **pilgrimage destination** in the region.
- यह मंदिर भगवान विष्णु के **अवतार** भगवान नरसिंह को समर्पित है और क्षेत्र में एक प्रमुख धार्मिक महत्त्व तथा तीर्थस्थल के रूप में प्रसिद्ध है।

Mythological Origins

पौराणिक उत्पत्ति

- According to legend, the temple's origins trace back to the **Treta Yuga**, where a sage named **Yadarishi**, son of the great sage **Rishyasrunga** and **Santa Devi**, performed penance in a **cave on this hill** with the blessings of **Lord Hanuman**.
- कथा के अनुसार, इस मंदिर की उत्पत्ति त्रेता युग में मानी जाती है, जहाँ ऋष्यश्रृंग और संता देवी के पुत्र यदऋषि ने इस पहाड़ी की गुफा में हनुमान जी के आशीर्वाद से तपस्या की थी।
- Pleased with his devotion, Lord Narasimha appeared before him in **five different forms**:
 - Jwala Narasimha,
 - Gandabherunda Narasimha,
 - Yogananda Narasimha,
 - Ugra Narasimha,
 - Lakshmi Narasimha.
- उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर, भगवान नरसिंह ने उन्हें पाँच रूपों में दर्शन दिए:
 - ज्वाला नरसिंह,
 - गंडभेरुंड नरसिंह,
 - योगानंद नरसिंह,
 - उग्र नरसिंह,



- लक्ष्मी नरसिंह।

Mahadayi river diversion: protests over study claiming its limited impact on Goa

GS Paper I: Rivers

Purnima Sah

MUMBAI

A protest has erupted in Goa following the publication of a scientific paper on Mahadayi river by the CSIR- National Institute of Oceanography (NIO), Goa and the Indian National Centre for Ocean Information Services, Ministry of Earth Sciences, Hyderabad.

The legal dispute between Karnataka and Goa over the water-sharing agreement arising from Mahadayi river has lasted over two decades. Despite the Mahadayi Water Disputes Tribunal's (MWDT)



The dispute between Karnataka and Goa over the water sharing pact from Mahadayi river has lasted over two decades. FILE PHOTO

order five years ago, the matter remains an emotional subject in both the States.

The paper "The water budget of the Mahadayi river and its implications for the inter-State dispute", published in the *Journal of Earth System Sciences* has assessed the water budget of the Mahadayi river by using rainfall mapping and rainfall run-off model to allow them to simulate the discharge at any point

along the Mahadayi.

The paper says Karnataka's plans for diversion of the river as approved by the MWDT would not have much impact on Goa.

The diversion from the Kalasa tributary could have "significant impact" but its impact is restricted to the northern part of the Mhadei Wildlife Sanctuary in Goa, it added.

Following the publication, members of the Mhadei Movement staged a protest outside the NIO complex near Goa's Dona Paula. Members of the Revolutionary Goans Party (RGP) also voiced out their concerns.

Mahadayi River Diversion: Protests Over Study Claiming Its Limited Impact on Goa

महादयी नदी मोड़ने पर अध्ययन के दावे को लेकर गोवा में विरोध प्रदर्शन

• A protest erupted in Goa after the publication of a scientific paper on the Mahadayi river by the CSIR-National Institute of Oceanography (NIO), Goa and the Indian National Centre for Ocean Information Services, Ministry of Earth Sciences, Hyderabad.

• गोवा में महादयी नदी पर वैज्ञानिक लेख प्रकाशित होने के बाद प्रदर्शन शुरू हो गया। यह लेख गोवा के सीएसआईआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) और भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, हैदराबाद द्वारा प्रकाशित किया गया था।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• The **legal dispute** between **Karnataka** and **Goa** over the **water-sharing agreement** from the **Mahadayi river** has lasted for **over two decades**.

• कर्नाटक और गोवा के बीच महादयी नदी के जल-बंटवारे के समझौते को लेकर कानूनी विवाद दो दशक से अधिक समय से जारी है।

• Despite the **Mahadayi Water Disputes Tribunal's (MWDT)** order issued **five years ago**, the issue remains an **emotional subject** in both states.

• हालांकि महादयी जल विवाद अधिकरण (MWDT) ने पांच वर्ष पहले आदेश जारी किया था, फिर भी यह मामला दोनों राज्यों में एक भावनात्मक विषय बना हुआ है।

• The paper titled '**The Water Budget of the Mahadayi River and Its Implications for the Inter-State Dispute**', published in the **Journal of Earth System Sciences**, assessed the **water budget** using **rainfall mapping** and a **rainfall run-off model**.

• 'महादयी नदी का जल बजट और अंतरराज्यीय विवाद के लिए इसके प्रभाव' शीर्षक वाला यह लेख **Journal of Earth System Sciences** में प्रकाशित हुआ था और इसमें वर्षा मैपिंग और वर्षा रन-ऑफ मॉडल का उपयोग कर जल बजट का मूल्यांकन किया गया था।

• The study allowed simulation of **discharge** at **any point** along the Mahadayi river.

• इस अध्ययन से महादयी नदी के किसी भी बिंदु पर पानी के बहाव का सिमुलेशन संभव हो सका।

• The paper stated that **Karnataka's diversion plans**, as approved by the **MWDT**, would **not significantly impact Goa**.

• इस लेख में कहा गया कि कर्नाटक की ओर से MWDT द्वारा स्वीकृत जल मोड़ने की योजना से गोवा पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

• However, the **diversion from the Kalasa tributary** could have a **significant impact**, but this would be **restricted** to the **northern part of the Mhadei Wildlife Sanctuary** in Goa.

• हालांकि, कलसा सहायक नदी से जल मोड़ने का महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, लेकिन यह प्रभाव केवल गोवा के म्हादेई वन्यजीव अभयारण्य के उत्तर भाग तक ही सीमित रहेगा।

• Following the publication, **members of the Mhadei Movement** staged a **protest** outside the **NIO complex** near **Goa's Dona Paula**.

• इस लेख के प्रकाशित होने के बाद, म्हादेई आंदोलन के सदस्यों ने गोवा के डोना पाउला के पास स्थित NIO परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

• Members of the **Revolutionary Goans Party (RGP)** also **voiced concerns** regarding the findings.

• रेवोल्यूशनरी गोवन्स पार्टी (RGP) के सदस्यों ने भी इन निष्कर्षों को लेकर चिंता व्यक्त की।



Mandovi River (Mahadayi/Mhadei)

मांडवी नदी (महादयी/म्हादेई)

- The **Mandovi River**, also known as **Mahadayi** or **Mhadei**, is a significant west-flowing river in India, often referred to as the **lifeline of Goa**.
- **मांडवी नदी**, जिसे **महादयी** या **म्हादेई** के नाम से भी जाना जाता है, भारत की एक प्रमुख पश्चिमवाहिनी नदी है, जिसे अक्सर **गोवा की जीवनरेखा** कहा जाता है।
- The river originates from a cluster of **30 springs at Bhimgad in the Western Ghats of Belagavi district**, Karnataka.
- यह नदी **कर्नाटक** के **बेलगावी जिले** के **पश्चिमी घाट** में स्थित **भीमगढ़** के **30 स्रोतों** से उत्पन्न होती है।
- It flows through **Karnataka**, briefly touches **Maharashtra**, and then traverses **Goa** before emptying into the **Arabian Sea** near **Panaji**.
- यह **कर्नाटक** से बहती हुई थोड़े समय के लिए **महाराष्ट्र** को छूती है, फिर **गोवा** से होकर **पणजी** के पास **अरब सागर** में मिलती है।

Length and Catchment Area

लंबाई और जलग्रहण क्षेत्र

- Total length: **81 km**
 - **1 km** in Maharashtra
 - **35 km** in Karnataka
 - **45 km** in Goa
- कुल लंबाई: **81 किमी**
 - **1 किमी** महाराष्ट्र में
 - **35 किमी** कर्नाटक में
 - **45 किमी** गोवा में
- Catchment area: **2,032 km²**
 - **1,580 km²** in Goa
 - **375 km²** in Karnataka
 - **77 km²** in Maharashtra
- जलग्रहण क्षेत्र: **2,032 किमी²**
 - **1,580 किमी²** गोवा में



- 375 किमी² कर्नाटक में
- 77 किमी² महाराष्ट्र में [Plan The Unplanned](#)

Major Tributaries

मुख्य सहायक नदियाँ

- Mapusa River
- Valvanti River
- Khandepar River
- Bicholim River
- Assonora River
- Sinquerim River
- Mapusa नदी
- वल्वंती नदी
- खंडेपर नदी
- बिचोलिम नदी
- अस्सोनोरा नदी
- सिंक्वेरिम नदी

Confluence and Outflow

संगम और प्रवाह

- The Mandovi merges with the Zuari River at Cabo Aguada, forming the Mormugao Harbour, a significant port in Goa.
- मांडवी नदी काबो अगुआडा में जुआरी नदी से मिलती है, जिससे मोरमुगाओ बंदरगाह बनता है, जो गोवा का एक प्रमुख बंदरगाह है।

Significant Waterfalls

प्रमुख जलप्रपात

- Dudhsagar Falls
 - Located on the Mandovi River in Goa.
 - Height: 310 meters (1,017 feet)
 - One of India's tallest waterfalls.



- Situated within the **Bhagwan Mahaveer Sanctuary and Mollem National Park.**
- **दूधसागर जलप्रपात**
 - गोवा में मांडवी नदी पर स्थित।
 - ऊँचाई: **310 मीटर** (1,017 फीट)
 - भारत के सबसे ऊँचे जलप्रपातों में से एक।
 - **भगवान महावीर अभयारण्य और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान** के भीतर स्थित।
- **Vajrapoha Falls**
 - Located in the **Belgaum district** of Karnataka.
 - Formed by the Mandovi River as it flows through the Western Ghats.
- **वज्रपोहा जलप्रपात**
 - कर्नाटक के **बेलगावी जिले** में स्थित।
 - पश्चिमी घाट से बहती हुई मांडवी नदी द्वारा निर्मित

PATRIOTIC IAS



India's talks with Pakistan will be 'strictly bilateral', says Jaishankar

GS Paper I: Mapping

Kallol Bhattacharjee

NEW DELHI

External Affairs Minister S. Jaishankar on Thursday reiterated that India's conversation with Pakistan will be conducted in a "strictly bilateral" format.

Speaking to presspersons after the launch of the new embassy of Honduras here, Mr. Jaishankar referred to the "national consensus" on conducting dialogue with Pakistan saying that there has been "absolutely" no change in that consensus. The remarks from Mr. Jaishankar came as U.S. President Donald Trump once again spoke about the role that he played in bringing the latest India-Pakistan conflict to a pause.

"To me things are fairly clear. Let me take this op-



Minister S. Jaishankar with Honduran Foreign Minister Enrique Reina during the inauguration of the Embassy of Honduras. PTI

portunity to spell out our position. Where Pakistan is concerned, our – relations – dealings with them will be bilateral and strictly bilateral – that is a national consensus for many years and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral," said Mr. Jaishankar speaking to

presspersons. He clarified that talks with Pakistan will be on India's concerns about Pakistan-based terror outfits.

"The Prime Minister made it very clear that the only talk with Pakistan will be on terror. Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the ter-

rorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what needs to be done on terrorism," said Mr. Jaishankar arguing, "Those are the talks that are feasible."

Mr. Jaishankar's emphatic remarks on the "bilateral framework" regarding Pakistan came even as President Trump, who is on a tour of the Gulf, referred to his reported role in bringing the Operation Sindoor to a pause. "I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week which was getting more and more hostile and all of a sudden, we started seeing missiles of a different type and we got it settled," he said while addressing U.S. troops stationed at the Al-Udaid air-base in Qatar.

India's Talks with Pakistan will be 'Strictly Bilateral', says Jaishankar

भारत-पाकिस्तान बातचीत 'सिर्फ द्विपक्षीय' होगी, जयशंकर ने कहा

• External Affairs Minister S. Jaishankar on Thursday reiterated that India's talks with Pakistan will be conducted in a "strictly bilateral" manner.

• विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को दोहराया कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत "सिर्फ द्विपक्षीय" रूप में ही की जाएगी।

• Speaking to journalists after the launch of the new embassy of Honduras, Mr. Jaishankar referred to the "national consensus" on dialogue with Pakistan and said there has been



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



“absolutely” no change in that position.

- हॉडुरास के नए दूतावास के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, श्री जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ वार्ता पर "राष्ट्रीय सहमति" का उल्लेख किया और कहा कि इस स्थिति में "बिल्कुल भी" बदलाव नहीं आया है।

- His remarks came after **U.S. President Donald Trump** claimed that he had played a role in **pausing the recent India-Pakistan conflict**.

- उनके ये बयान ऐसे समय आए जब **अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप** ने हालिया **भारत-पाकिस्तान टकराव को रोकने में** अपनी भूमिका का दावा किया।

- “To me things are fairly clear. Let me spell out our position. Where Pakistan is concerned, our relations and dealings will be **bilateral and strictly bilateral** – that is a **national consensus** for many years, and there is **absolutely no change** in that,” said Mr. Jaishankar.

- “मेरे लिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। मैं हमारी स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के संदर्भ में, हमारे संबंध और बातचीत **द्विपक्षीय और सिर्फ द्विपक्षीय** होंगे – यह वर्षों से **राष्ट्रीय सहमति** रही है और इसमें **कोई बदलाव नहीं है**,” श्री जयशंकर ने कहा।

- He clarified that the talks will only address **India’s concerns** about **Pakistan-based terror outfits**.

- उन्होंने स्पष्ट किया कि वार्ता केवल भारत की उन चिंताओं पर होगी जो **पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों** से जुड़ी हैं।

- “The Prime Minister made it very clear that the **only talk with Pakistan will be on terrorism**. Pakistan has a **list of terrorists** who must be handed over. They must **shut down terrorist infrastructure**. They know what needs to be done. We are prepared to talk only on **terrorism-related matters**,” Mr. Jaishankar said.

- “प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान से केवल **आतंकवाद** पर ही बात होगी। पाकिस्तान के पास **आतंकवादियों की सूची** है जिन्हें सौंपा जाना चाहिए। उन्हें **आतंकी ढांचा बंद** करना होगा। उन्हें पता है क्या करना है। हम केवल **आतंकवाद से जुड़ी बातों** पर चर्चा के लिए तैयार हैं,” श्री जयशंकर ने कहा।

- He emphasized that **those are the only feasible talks** that can happen.

- उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि **केवल यही वार्ताएँ संभव हैं**।

- Mr. Jaishankar’s strong statements on the **bilateral framework** with Pakistan came even as **President Trump**, while visiting the **Gulf region**, claimed he helped in ending **Operation Sindoor**.

- पाकिस्तान के साथ **द्विपक्षीय ढांचे** पर श्री जयशंकर के ये कड़े बयान तब आए जब **राष्ट्रपति ट्रंप**, जो **खाड़ी क्षेत्र** के दौर पर हैं, ने यह दावा किया कि उन्होंने **ऑपरेशन सिंदूर** को रोकने में मदद की।

- Trump said, “I sure as hell helped settle the problem between **Pakistan and India** last week, which was getting **more hostile**, and suddenly we started seeing **missiles of a different type**, and we got it settled.”

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



• ट्रंप ने कहा, "मैंने निश्चित रूप से पिछले सप्ताह पाकिस्तान और भारत के बीच समस्या को सुलझाने में मदद की, जो अधिक उग्र होती जा रही थी, और अचानक हमें विभिन्न प्रकार की मिसाइलें नजर आने लगीं, फिर हमने इसे सुलझाया।"

• He made these comments while addressing **U.S. troops** stationed at the **Al-Udaid airbase in Qatar**.

• उन्होंने ये बातें कतर के अल-उदईद एयरबेस पर तैनात अमेरिकी सैनिकों को संबोधित करते हुए कहीं।

Is Bihar's high replacement rate a consequence of poverty?



Saswata Ghosh
Associate Professor at the Institute of Development Studies, Kolkata



Prasenjit Bose
Economist and activist

GS Paper I: Society

PARLEY

According to the Sample Registration System report for 2021 released by the Registrar General of India on May 7, the Total Fertility Rate (TFR), which is the average number of children that a woman is expected to have in her childbearing years, in India was 2.0 in 2021, the same as in 2020. While Delhi and West Bengal reported the lowest TFR of 1.4, Bihar reported the highest at 3.0. Is Bihar's high replacement rate a consequence of poverty? Saswata Ghosh and Prasenjit Bose discuss the question in a conversation moderated by Shiv Sahay Singh. Edited excerpts:

What does a TFR rate of 3.0 mean for Bihar? Does it have any association with poverty?

Saswata Ghosh: The TFR has hovered around 3.0 for the last 6-7 years in Bihar. According to the Expert Committee on Population Projection, Bihar will achieve the replacement level of fertility (2.1) only in 2039. Bihar is the only lagged State in terms of the fertility transition.

Bihar's infant mortality rate has actually declined and stands at 27 per 1,000 live births from 42 in the past. Other indicators such as women's educational attainment have improved as well, but the State's TFR remains high. High TFR has some linkage with poverty. But poverty is not the only reason for it. In Bihar, there is a culture of high fertility. As per calculations made of unique level data of the National Family Health Survey of 2019-21, across the country, 67% of women said that the ideal number of children for them is two, whereas in Bihar, only 49.6% of women said so.

There are a number of government reports, including NITI Aayog's Multidimensional Poverty Index, which state that poverty in Bihar is also declining. But despite the improvement in the poverty rate, the fertility rate in Bihar continues to be high.

Prasenjit Bose: These are complex socio-economic questions and the multi-dimensional poverty estimates themselves are far from perfect. I agree with Saswata that cultural factors have an important causality in determining fertility rates. But I would also like to add that there are other economic factors in terms of urbanisation, employment opportunities, and livelihood opportunities, which are not really captured by the MDP (multidimensional poverty) estimates. Therefore, I would not read much into this divergence between TFR and MDP. It could be over simplistic in understanding a complex



A woman with her children in Patna. RAJJEET KUMAR

phenomenon. Ultimately both the estimates are moving in the same direction – poverty is coming down and so is the TFR.

The SRS figures make a distinction between urban and rural TFR. Across the country, the urban TFR is 1.6 and the rural TFR is 2.2. Is there a wide gap between the TFR in the urban areas of Bihar, which stands at 2.3, and in the rural areas, pegged at 3.0?

SG: If we see the gap between the TFR of rural areas and urban areas across the country, it is 0.6 percentage points, whereas in Bihar, the gap is 0.8 points. There isn't a big difference between 0.6 and 0.8. But what is startling is that the all-India urban TFR is 1.6, while in Bihar it is 2.3. That is puzzling. Why is the TFR so high in urban areas, where the affluent and educated sections of society live? Why is it above the replacement level of fertility?

The demographer Ansley J. Coale had said that human fertility behaviour is a 'calculus of conscious choice'. So if the fertility rate is higher than elsewhere, it is because of the conscious choice of the people. Even if the infant mortality rate has declined and there is higher use of contraception, if the fertility in urban areas continues to remain high, it is a conscious choice. Until and unless the people think that low fertility size is actually beneficial for them, the TFR will continue to be high in Bihar.

Do factors such as a preference for sons, the State being primarily an agricultural economy, and having a relatively small female workforce affect the TFR?

PB: Yes, significantly. In fact, poverty and lack of livelihood and income opportunities have a huge impact on cultural choices, including the number of children people have. Poor people



Poverty and lack of livelihood and income opportunities have a huge impact on cultural choices, including the number of children people have. Poor people tend to have a cultural preference not only for sons, but for more children. They want more labour, which will lead to more income.

PRASENJIT BOSE

tend to have a cultural preference not only for sons, but for more children. They want more labour, which will lead to more income. Poverty has been the reason why the fertility rate has historically been high everywhere. Cultural choices are intricately linked to the process of social and economic development. But in the case of Bihar, I would specifically point to a few economic factors. Despite being large, Bihar is among the least industrialised States. There is surplus labour and migration, which are related to the question of very high degrees of illiteracy and a dysfunctional primary education system.

The literacy rate in Bihar, particularly the female literacy rate, remains low. In the 2011 Census, female literacy was about 53%. Is there a direct correlation between female literacy and TFR or fertility?

SG: Chief Minister Nitish Kumar has consistently pointed out that if we educate women, the fertility rate will go down. He has announced many schemes for girl students, including providing bicycles for them. There is a positive correlation not only between education and TFR, but also between household affluence and higher educational attainment. Upper caste and somewhat affluent households generally send at least one son for higher education to better off regions. However, in affluent and landed households in rural areas, the parents prefer at least one son to stay back with them to take care of their property and support them. So, families ideally prefer two sons. If we look at the data more carefully, we will find that among those who say the ideal number of children is three, 88.2% want two sons. However, since the probability of having two sons successively is only about 26.4% according to a paper by Clark in 2000, a significant share of families ultimately end up with a large family size.

Professor Ghosh, in one of your papers, you had pointed out how mother-in-laws act as mediators between women of reproductive age and ASHA workers who visit them during pregnancy. Can you shed more light on this?

SG: Women are getting educated more and more. Several programmes in this regard are being implemented by the State government. Many of these women are first-generation learners. But they have low employability and their exposure to the outside world is limited. They have lower bargaining power and autonomy in the family, and social mobility. In our study, based on a primary survey of 2,250 women in six districts in Bihar, we found that women in the reproductive age group of 15-49 years were not allowed to directly interact with ASHA workers. These interactions were restricted by their mother-in-laws.

We have empirical evidence now that certain States in the north have a high fertility rate while the fertility rate is declining in the south. Where does this lead us to, particularly in the political context, and the question of delimitation looming large?

PB: I don't think that this problem should be discussed only in the context of Bihar, but also other States in what we call the Hindi heartland – Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Rajasthan. These States now account for a disproportionately large share of the country's overall population. We have a system of representative democracy where 'one person, one vote, one value' is a basic principle. As the delimitation debate opens up, which is likely to happen only after the next Census, we will come across a hugely disproportionate size of parliamentary and Assembly constituencies across the north and the south. We will come across parliamentary constituencies in States with a high TFR with a disproportionately large number of people (25 lakh to 30 lakh voters) being represented by a single MP, whereas the case will be different in States where the TFR is low or declining. The question is whether they (the States with low/declining TFR) are going to pay the price for bringing down the TFR rate. Will they get rewarded or punished for social and economic progress and policy successes? Because the allocation of resources by the Finance Commission is based on the population size. The onus is on policymakers to bring about some course correction and bring in a convergent trend. If the divergent trend (between States with a high TFR and low TFR) continues, we are looking at a disaster which could pose serious questions for our democracy.



To listen to the full interview
Scan the code or go to the link
www.thehindu.com

**Is Bihar's high replacement rate a consequence of poverty?
क्या बिहार की अधिक जनसंख्या पुनःस्थापन दर गरीबी का परिणाम है?**



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



Meaning and Implications of Bihar's TFR

बिहार की कुल प्रजनन दर (TFR) का अर्थ और प्रभाव

- The Total Fertility Rate (TFR) in India was 2.0 in 2021, the same as in 2020.
- भारत में कुल प्रजनन दर (TFR) 2021 में 2.0 थी, जो कि 2020 के समान थी।
- Delhi and West Bengal reported the lowest TFR at 1.4, while Bihar had the highest TFR at 3.0.
- दिल्ली और पश्चिम बंगाल की TFR सबसे कम 1.4 रही, जबकि बिहार में सबसे अधिक TFR 3.0 रही।
- Bihar's TFR has been around 3.0 for the last 6-7 years.
- पिछले 6-7 वर्षों से बिहार की TFR लगभग 3.0 बनी हुई है।
- The Expert Committee on Population Projection estimates that Bihar will reach replacement level (2.1) only by 2039.
- जनसंख्या प्रक्षेपण पर विशेषज्ञ समिति का अनुमान है कि बिहार केवल 2039 तक ही पुनःस्थापन स्तर (2.1) तक पहुँचेगा।
- Bihar is the only laggard state in terms of fertility transition.
- प्रजनन संक्रमण के मामले में बिहार एकमात्र पिछड़ा राज्य है।

Link between Poverty and Fertility

गरीबी और प्रजनन के बीच संबंध

- Bihar's infant mortality rate has dropped to 27 per 1,000 live births, down from 42 earlier.
- बिहार की शिशु मृत्यु दर पहले 42 थी, जो घटकर 27 प्रति 1,000 जीवित जन्म हो गई है।
- Women's educational attainment in Bihar has improved, but TFR remains high.
- बिहार में महिलाओं की शिक्षा स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन TFR अब भी उच्च बनी हुई है।
- Poverty contributes to high TFR, but it is not the only reason.
- गरीबी TFR अधिक होने का कारण है, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं है।
- In Bihar, there is a culture of high fertility.
- बिहार में अधिक बच्चों की परंपरा (संस्कृति) प्रचलित है।
- NFHS 2019-21 data shows that 67% women nationally prefer two children, but only 49.6% in Bihar agree with this.
- NFHS 2019-21 के अनुसार, देशभर में 67% महिलाएं दो बच्चों को आदर्श मानती हैं, जबकि बिहार में यह आंकड़ा केवल 49.6% है।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



Poverty Data vs Fertility Rate

गरीबी के आंकड़े बनाम प्रजनन दर

- Reports like **NITI Aayog's Multidimensional Poverty Index (MDP)** show that **poverty in Bihar is declining**.
- नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MDP) जैसे रिपोर्ट दिखाते हैं कि बिहार में गरीबी घट रही है।
- Despite the **decline in poverty**, the **TFR remains high** in Bihar.
- गरीबी में गिरावट के बावजूद, बिहार की TFR अधिक बनी हुई है।

Complex Socio-Economic Factors

जटिल सामाजिक-आर्थिक कारक

- **MDP estimates** are not perfect, and the **fertility issue involves complex socio-economic causes**.
- MDP के आंकड़े पूर्ण नहीं हैं, और प्रजनन दर का मामला जटिल सामाजिक-आर्थिक कारणों से जुड़ा है।
- Cultural factors are important, but so are **urbanisation, employment, and livelihood opportunities**, which MDP may not capture.
- सांस्कृतिक कारण महत्वपूर्ण हैं, लेकिन शहरीकरण, रोजगार, और जीविका के अवसर भी मायने रखते हैं, जिन्हें MDP नहीं दर्शा पाता।
- Both indicators — **poverty and TFR** — are moving **downward**, even if at **different rates**.
- गरीबी और TFR, दोनों संकेतक घट रहे हैं, भले ही अलग गति से घट रहे हों।

Urban-Rural TFR Gap in Bihar

बिहार में शहरी-ग्रामीण TFR का अंतर

- Nationwide, **urban TFR is 1.6** and **rural TFR is 2.2**.
- पूरे देश में शहरी TFR 1.6 और ग्रामीण TFR 2.2 है।
- In Bihar, **urban TFR is 2.3** and **rural TFR is 3.1** — a gap of **0.8** percentage points.
- बिहार में शहरी TFR 2.3 और ग्रामीण TFR 3.1 है — यह 0.8 प्रतिशत अंक का अंतर है।
- This rural-urban gap in Bihar (0.8) is **not significantly different** from the **national gap (0.6)**.
- बिहार में 0.8 का ग्रामीण-शहरी अंतर राष्ट्रीय अंतर (0.6) से बहुत अलग नहीं है।
- However, **urban TFR of 2.3 in Bihar is much higher than the national urban average of 1.6, which is puzzling**.
- हालांकि, बिहार में शहरी TFR 2.3 है, जो राष्ट्रीय शहरी औसत 1.6 से काफी अधिक है, जो चिंताजनक है।
- Urban areas are typically **more affluent and educated**, yet Bihar's urban TFR is **above the replacement level (2.1)**.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• शहरी क्षेत्र आमतौर पर समृद्ध और शिक्षित होते हैं, फिर भी बिहार की शहरी TFR पुनःस्थापन स्तर (2.1) से ऊपर है।

Conscious Choice and Fertility

सचेत विकल्प और प्रजनन दर

- Demographer **Ansley J. Coale** argued that **fertility is a result of conscious choice**.
- जनसांख्यिकीविद एंसली जे. कोल के अनुसार, प्रजनन एक सचेत विकल्प का परिणाम होता है।
- If TFR is high despite **declining infant mortality** and **increased contraception use**, it indicates a **deliberate preference** for more children.
- यदि शिशु मृत्यु दर घटने और गर्भनिरोधक उपयोग बढ़ने के बावजूद TFR अधिक है, तो यह अधिक बच्चों की सोच को दर्शाता है।
- **Unless people believe that smaller families are beneficial**, TFR will remain high in Bihar.
- जब तक लोग यह नहीं मानते कि छोटे परिवार लाभदायक हैं, तब तक बिहार में TFR उच्च बनी रहेगी।

Factors Influencing TFR in Bihar

बिहार में कुल प्रजनन दर (TFR) को प्रभावित करने वाले कारक

- **Poverty**, lack of **livelihood**, and **income opportunities** have a huge impact on **cultural choices**, including the **number of children** people have.
- गरीबी, रोजगार और आय के अवसरों की कमी का सांस्कृतिक विकल्पों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसमें लोगों के बच्चों की संख्या भी शामिल है।
- **Poor people often have a cultural preference for more children**, especially **sons**, as they want **more labour** to increase income.
- गरीब लोग सामान्यतः अधिक बच्चों, विशेषकर बेटों, को पसंद करते हैं क्योंकि वे अधिक श्रमबल चाहते हैं जिससे आय बढ़ सके।
- **Historically, high fertility rate has been associated with poverty** across regions.
- ऐतिहासिक रूप से उच्च प्रजनन दर को गरीबी से जोड़ा गया है।
- In Bihar, some **specific economic factors** also play a role — it is one of the **least industrialised States with surplus labour and high migration**.
- बिहार में कुछ विशिष्ट आर्थिक कारण भी हैं — यह भारत के कम औद्योगिकृत राज्यों में से एक है जहाँ अतिरिक्त श्रमबल और अधिक प्रवास होता है।
- There is a connection between **migration**, **illiteracy**, and a **dysfunctional primary education system**.
- प्रवास, अशिक्षा और अप्रभावी प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के बीच आपस में संबंध है।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- According to the **2011 Census, female literacy in Bihar was around 53%**.
- 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार में महिला साक्षरता दर लगभग 53% थी।

Female Education and Fertility Rate

महिला शिक्षा और प्रजनन दर

- Bihar CM Nitish Kumar has stressed that **educating women** helps in **lowering the fertility rate**.
- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बार-बार कहा है कि महिलाओं की शिक्षा से प्रजनन दर में कमी आती है।
- Schemes like **bicycles for girl students** have been announced to promote education.
- लड़कियों को साइकिल देने जैसी योजनाएं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई हैं।
- There is a **positive correlation** between **education, TFR, household affluence, and higher educational attainment**.
- शिक्षा, TFR, घरेलू संपन्नता, और उच्च शैक्षणिक उपलब्धियों के बीच सकारात्मक संबंध है।
- In **affluent rural households**, one son is often expected to stay back to manage **family property**, so families ideally want **two sons**.
- समृद्ध ग्रामीण परिवारों में एक बेटा आमतौर पर पारिवारिक संपत्ति देखने के लिए घर पर रहता है, इसलिए परिवार सामान्यतः दो बेटों की इच्छा रखते हैं।
- Among families preferring **three children**, around **88.2% want two sons**.
- तीन बच्चों की चाह रखने वाले परिवारों में लगभग 88.2% लोग दो बेटों की इच्छा रखते हैं।
- However, the **probability** of having **two sons successively** is only **26.4%** (as per Clark, 2000), which leads to **larger family sizes**.
- हालांकि लगातार दो बेटों के जन्म की संभावना केवल 26.4% है (Clark, 2000 के अनुसार), जिससे परिवार का आकार बढ़ा हो जाता है।

Mother-in-laws as Mediators in Reproductive Decisions

प्रजनन निर्णयों में सास की भूमिका

- Though women are becoming **more educated**, many are **first-generation learners** with **low employability** and **limited exposure** to the outside world.
- हालांकि महिलाएं अब अधिक शिक्षित हो रही हैं, परंतु अधिकांश पहली पीढ़ी की शिक्षार्थी हैं जिनकी रोजगार क्षमता और बाहरी दुनिया से संपर्क सीमित है।
- These women have **low bargaining power**, **limited autonomy**, and **restricted social mobility**.
- इन महिलाओं की बातचीत की ताकत, स्वतंत्रता, और सामाजिक गतिशीलता सीमित होती है।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• A study in six districts of Bihar involving 2,250 women (age 15–49) showed that many were **not allowed** to directly interact with **ASHA workers**; interactions were often **mediated by mother-in-laws**.

• बिहार के छह जिलों में 2,250 महिलाओं (आयु 15–49) पर आधारित एक अध्ययन में पाया गया कि कई महिलाओं को सीधे ASHA कार्यकर्ताओं से बात करने की अनुमति नहीं थी; यह बातचीत अक्सर सास के माध्यम से होती थी।

Fertility and Political Consequences (Delimitation Debate)

प्रजनन दर और राजनीतिक प्रभाव (सीमांकन बहस)

• States like Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Rajasthan have **high fertility rates** and thus form a **disproportionately large share** of India's **total population**.

• बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और राजस्थान जैसे राज्यों की प्रजनन दर अधिक है, जिससे वे भारत की कुल जनसंख्या में अनुपात से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं।

• India follows **representative democracy based on 'one person, one vote, one value' principle**.

• भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है जो 'एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य' सिद्धांत पर आधारित है।

• With **delimitation** likely after the next **Census**, there will be a **huge gap** in the size of **parliamentary and assembly constituencies** between **high TFR** states and **low TFR** states.

• अगले जनगणना के बाद संभावित सीमांकन के चलते, उच्च TFR और निम्न TFR वाले राज्यों के संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के आकार में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा।

• In high TFR states, one MP may represent **25–30 lakh voters**, whereas in low TFR states, the population per MP will be much **less**.

• उच्च TFR वाले राज्यों में एक सांसद को 25–30 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करना पड़ सकता है, जबकि निम्न TFR राज्यों में यह संख्या कम होगी।

• There is a concern whether **progressive states** with **low TFR** will be **penalised** for their **success** in **population control** and **development**.

• चिंता है कि क्या प्रगतिशील राज्यों को उनकी जनसंख्या नियंत्रण और विकास में सफलता के लिए दंडित किया जाएगा।

• **Finance Commission's** resource allocation is also based on **population size**, which may disadvantage **low TFR** states.

• वित्त आयोग का संसाधनों का आवंटन भी जनसंख्या आकार पर आधारित होता है, जिससे कम TFR वाले राज्यों को नुकसान हो सकता है।

• Policymakers need to ensure a **convergent trend** across states, else this **divergence** may lead to **democratic instability**.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : info@patrioticias.in

Contact Number : 9971932488

Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों के बीच एक एकरूप प्रवृत्ति हो, नहीं तो यह विभिन्नता लोकतंत्र के लिए संकट बन सकती है।

TOPICS COVERED GS Paper II: Polity, Governance, and International Relations)

- 1. Put Pakistan's Nuclear Arsenal Under Watch: India**
पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की निगरानी की मांग: भारत
- 2. T.N. CM slams Presidential Reference to top court on timeline to act on State Bills**
तमिलनाडु मुख्यमंत्री ने राज्य विधेयकों पर कार्रवाई की समयसीमा को लेकर राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई सिफारिश की आलोचना की
- 3. Experts debate if Reference is a ploy to bypass judicial review**
विशेषज्ञों में बहस कि क्या रेफरेंस न्यायिक समीक्षा से बचने की एक चाल है
- 4. No Radiation Leak from Any Nuclear Facility in Pakistan: IAEA**
पाकिस्तान की किसी भी परमाणु सुविधा से कोई विकिरण रिसाव नहीं: IAEA
- 5. Talks on Indus Waters Treaty May Restart**
सिंधु जल संधि पर वार्ता फिर से शुरू हो सकती है
- 6. Postponement of Credentials Ceremony for New Turkish Ambassador**
नए तुर्की राजदूत के लिए क्रेडेंशियल समारोह स्थगित
- 7. Jaishankar speaks with Taliban's Acting Foreign Minister**
जयशंकर ने तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री से बातचीत की



8. New Beginning

नया आरंभ

9. The yearly 'thank you' to nurses is not enough

नर्सों को सालाना 'धन्यवाद' देना पर्याप्त नहीं है

10. Right to Digital Access under Article 21

अनुच्छेद 21 के अंतर्गत डिजिटल पहुंच का अधिकार

11. Should NOTA be included in all elections compulsorily?

क्या NOTA को सभी चुनावों में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए?

12. Account Aggregators: Blueprint for Consent Managers under the DPDP Act

खाता संकलक: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के तहत सहमति प्रबंधकों के लिए खाका

13. Belgium Parliament Votes to Ditch Nuclear Power Phase-Out

बेल्जियम की संसद ने परमाणु ऊर्जा को समाप्त करने की योजना को रद्द किया

14. Harvard Discovers Its Stained, Faded Document Is Magna Carta from 1300

हार्वर्ड को पता चला कि उसका धुंधला और दागदार दस्तावेज़ 1300 का मैग्ना कार्टा है



Put Pak. nuclear arsenal under watch: India

Defence Minister Rajnath Singh cites concerns over the 'irresponsible' conduct of Pakistan

He questions the security of nuclear arsenal and calls for its supervision by the global watchdog

He underscores India's resolve to fight terrorism and lauds armed forces for Operation Sindoor

SS Paper II: India-Pakistan
Peerzada Ashiq
SRINAGAR

In his first visit to Jammu and Kashmir following the launch of Operation Sindoor, Defence Minister Rajnath Singh on Thursday questioned the security of Pakistan's nuclear arsenal and called for its supervision by the International Atomic Energy Agency (IAEA), citing concerns over what he described as "irresponsible" conduct by the neighbouring country.

Addressing soldiers at the Badami Bagh Cantonment in Srinagar, Mr. Singh said, "We will never yield to nuclear blackmail. Pakistan's reckless nuclear threats have not deterred India's resolve to eliminate terrorism. I ask the global community – are nuclear weapons safe in the hands of such an irresponsible and rogue nation? These

weapons must come under IAEA supervision."

The Minister reaffirmed India's evolving stance on national security and counter-terrorism, crediting Prime Minister Narendra Modi with redefining the country's policy framework. "Any attack on Indian soil is no longer viewed as an isolated act of violence – it is treated as an act of war," he said.

Mr. Singh described Operation Sindoor as the "largest and most decisive action against terrorism in Indian history". Referring to the Pahalgam terror attack, he added that the offensive was not only about retribution but also about asserting India's commitment to proactive defence. "Terrorists targeted Indians based on their 'dharma'; we targeted them based on their 'karma'. It was our dharma to eliminate them," he said.



High morale: Defence Minister Rajnath Singh meets troops at Badami Bagh Cantonment in Srinagar on Thursday. PTI

He asserted that the operation had sent an "unmistakable message" to terrorist outfits and their handlers across the border.

"Our forces have demonstrated precise targeting capabilities, and the task of counting casualties

is now left to the enemy," he said.

Indigenous capability

Highlighting the government's push for indigenous defence capability, the Minister noted that modern arms, missile systems, drones, and communica-

Probe nuclear 'black market' in India: Pak.

Agence France-Presse
ISLAMABAD

Responding to Defence Minister Rajnath Singh's remarks on its arsenal, Pakistan on Thursday called for an investigation into a nuclear "black market" in India. "The International Atomic Energy Agency should be

worried about the repeated illicit trafficking incidents involving radioactive material in India," Pakistan's Foreign Ministry claimed in a statement, adding that the incidents "suggest the existence of a black market for sensitive, dual-use materials inside India".

logue with Pakistan, he said, "Talks and terrorism cannot go hand in hand. If there are to be talks, they will focus solely on terrorism and Pakistan-Occupied Kashmir."

He also referred to Pakistan's previous commitments, including one

made over two decades ago during the tenure of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, promising to stop exporting terror. "Pakistan has deceived us consistently. It must dismantle terrorist infrastructure and ensure its territory is not used against India," he said.

In his address, Mr. Singh extended appreciation to the people of J&K for their resilience in the face of terrorism. "I salute the courage of the people of this region, who have withstood the scourge of terror with fortitude," he said. Accompanying the Defence Minister during the visit were J&K Lieutenant-Governor Manoj Sinha, Chief Minister Omar Abdullah, Chief of the Army Staff General Upenendra Dwivedi, and other senior officials.

RELATED REPORTS
» PAGE 5

Put Pakistan's Nuclear Arsenal Under Watch: India

पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की निगरानी की मांग: भारत

- Defence Minister Rajnath Singh questioned the security of Pakistan's nuclear arsenal during his visit to Jammu and Kashmir.
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू और कश्मीर के दौरे के दौरान पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की सुरक्षा पर सवाल उठाए।
- He called for **global supervision of Pakistan's nuclear weapons by the International Atomic Energy Agency (IAEA)**, citing Pakistan's "irresponsible" conduct.
- उन्होंने पाकिस्तान के "गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार" का हवाला देते हुए, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की वैश्विक निगरानी की मांग की।
- He made the statement while addressing soldiers at the **Badami Bagh Cantonment in Srinagar**.
- उन्होंने यह बयान श्रीनगर के बडामी बाग कैंटोनमेंट में सैनिकों को संबोधित करते हुए दिया।
- He declared that India would not yield to any "nuclear blackmail" from Pakistan.
- उन्होंने कहा कि भारत किसी भी "परमाणु ब्लैकमेल" के आगे नहीं झुकेगा।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• He asked the global community if such dangerous weapons were safe in the hands of a “rogue nation”.

• उन्होंने वैश्विक समुदाय से सवाल किया कि क्या इतने खतरनाक हथियार एक “दुष्ट राष्ट्र” के हाथों में सुरक्षित हैं?

• Singh emphasized that these weapons should come under the IAEA’s supervision.

• सिंह ने जोर देकर कहा कि इन हथियारों को IAEA की निगरानी में लाया जाना चाहिए।

India’s Policy on Terrorism and Security

भारत की आतंकवाद और सुरक्षा पर नीति

• The Defence Minister reaffirmed India’s evolving stance on national security and counter-terrorism.

• रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी नीति पर भारत की बदलती हुई रणनीति को दोहराया।

• He credited Prime Minister Narendra Modi for redefining India’s security framework.

• उन्होंने भारत की सुरक्षा रणनीति को फिर से परिभाषित करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया।

• He stated that any attack on Indian soil is now treated as an act of war, not as an isolated incident.

• उन्होंने कहा कि भारत की धरती पर किया गया कोई भी हमला अब केवल एक एकल घटना नहीं, बल्कि युद्ध की कार्यवाही माना जाता है।

Operation Sindoor: India’s Offensive Against Terrorism

ऑपरेशन सिंदूर: भारत की आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई

• Rajnath Singh described Operation Sindoor as the “largest and most decisive action against terrorism in Indian history.”

• राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के इतिहास में सबसे बड़ा और निर्णायक आतंकवाद विरोधी अभियान बताया।

• Referring to the Pahalgam terror attack, he said the offensive was not just about retaliation, but also about demonstrating proactive defence.

• पहलगाम आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह अभियान सिर्फ बदले की कार्रवाई नहीं, बल्कि सक्रिय रक्षा की नीति को दर्शाने वाला था।

• He said terrorists targeted Indians based on their ‘dharma’, and India targeted them based on their ‘karma’.

• उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने भारतीयों को उनके ‘धर्म’ के आधार पर निशाना बनाया, और भारत ने उन्हें उनके ‘कर्म’ के आधार पर जवाब दिया।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : info@patrioticias.in

Contact Number : 9971932488

Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- He emphasized it was India's dharma to eliminate terrorists.
 - उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवादियों को समाप्त करना भारत का धर्म था।
- Singh claimed the operation had sent an “unmistakable message” to terrorist groups and their handlers across the border.
 - सिंह ने कहा कि इस अभियान ने सीमा पार के आतंकी संगठनों और उनके समर्थकों को एक स्पष्ट संदेश दिया है।
- He highlighted the armed forces' capability for precise targeting, saying that the task of counting casualties is now “left to the enemy”.
 - उन्होंने सशस्त्र बलों की सटीक निशाना साधने की क्षमता को रेखांकित करते हुए कहा कि अब हताहतों की गिनती दुश्मन की जिम्मेदारी है।

Indigenous Capability and National Security Stance

स्वदेशी क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा रुख

- Highlighting the government's push for **indigenous defence capability**, the Defence Minister stated that **modern arms, missile systems, drones, and communication networks** are being rapidly developed within the country.
 - रक्षा मंत्री ने सरकार की स्वदेशी रक्षा क्षमता को बढ़ावा देने की बात करते हुए कहा कि देश में आधुनिक हथियार, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और संचार नेटवर्क तेजी से विकसित किए जा रहे हैं।
- He added that with **enhanced logistical connectivity across the Line of Control (LoC) and Line of Actual Control (LAC)**, Indian forces are better prepared than ever before.
 - उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा (LoC) और वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर लॉजिस्टिक संपर्क के बढ़ने से भारतीय सेना पहले से कहीं बेहतर तैयार है।

Dialogue with Pakistan

पाकिस्तान से वार्ता पर रुख

- Reiterating India's longstanding position, the Minister stated that “**Talks and terrorism cannot go hand in hand.**”
 - भारत की लंबे समय से चली आ रही नीति को दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि “वार्ता और आतंकवाद साथ-साथ नहीं चल सकते।”
- He asserted that if any talks were to happen with Pakistan, they would focus only on **terrorism** and **Pakistan-Occupied Kashmir (PoK)**.
 - उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर पाकिस्तान से कोई वार्ता होती है, तो वह केवल आतंकवाद और पाक-अधिकृत कश्मीर (PoK) पर केंद्रित होगी।



Pakistan's Past Commitments

पाकिस्तान की पूर्व प्रतिबद्धताएं

- The Minister referred to **Pakistan's promises**, including one made **over two decades ago** during the tenure of **former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee**, to stop the export of terrorism.
- मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान दो दशक पहले किए गए पाकिस्तान के वादों का उल्लेख किया, जिसमें आतंकवाद के निर्यात को रोकने का वादा किया गया था।
- He accused Pakistan of **consistently deceiving** India and said it must **dismantle terrorist infrastructure** and ensure its territory is **not used against India**.
- उन्होंने पाकिस्तान पर भारत को लगातार धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसे आतंकी ढांचे को खत्म करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी जमीन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल न हो।

Appreciation for the People of Jammu and Kashmir

जम्मू-कश्मीर की जनता की सराहना

- Mr. Singh appreciated the **resilience** of the people of **Jammu and Kashmir** in the face of prolonged terrorism.
- श्री सिंह ने जम्मू-कश्मीर की जनता की सहनशीलता की सराहना की, जिन्होंने लंबे समय से आतंकवाद का सामना किया है।
- He said, "I salute the **courage** of the people of this region, who have withstood the scourge of terror with fortitude."
- उन्होंने कहा, "मैं इस क्षेत्र की जनता के साहस को सलाम करता हूँ, जिन्होंने आतंक के प्रकोप को धैर्यपूर्वक सहा है।"

Accompanying Dignitaries

साथ में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति

- Defence Minister Rajnath Singh was accompanied by **J&K Lieutenant-Governor Manoj Sinha**, **former Chief Minister Omar Abdullah**, **Army Chief General Upendra Dwivedi**, and other **senior officials** during his visit.
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनके दौरे में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।



T.N. CM slams Presidential Reference to top court on timeline to act on State Bills

GS Paper II: State Legislature

The Hindu Bureau
NEW DELHI/CHENNAI

Strongly condemning a Presidential Reference to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution on the timeline imposed for Governors and the President to act on Bills, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin on Thursday said it was a desperate attempt to weaken democratically elected State governments by placing them under the control of Governors serving as agents of the Centre.

President Droupadi Murmu, in a rare move, had sought the opinion of the Supreme Court through a Presidential Reference on Tuesday, on whether the court can “impose” timelines and prescribe the manner of conduct of Governors and the President while dealing with State Bills sent to them for assent or reserved for consideration. Broadly, the Reference asked if judicial orders can dictate by what time and how the President and Governors should function under Articles 200 and 201 of the Constitution.

Mr. Stalin dubbed the move as “an attempt to subvert the Constitutional position” settled by the top court in the Tamil Nadu case against the Governor and other precedents.

The President’s move to seek clarity arose from an April 8 judgment of a Bench of Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan in a petition filed by the Tamil Nadu government challenging the Governor’s delay in clearing 10 re-passed Bills and his subsequent action to reserve them for

Question of clarity

President Droupadi Murmu has sought clarity from the Supreme Court on the ‘scope and contours’ of Article 142

Presidential Reference: Article 143 of the Constitution empowers the President to seek advice from the Supreme Court on questions of law or fact, present or future, of public importance

The President has raised 14 questions, which include:
■ Can SC impose timelines and dictate the manner of exercise of powers by Governors and the President under Article 200, 201, respectively?

■ Can deemed consent to Bills be given through a judicial order?
■ What are constitutional options before a Governor when a Bill is sent for his assent. Is he bound by the aid and advice of the Council of Ministers?



consideration by the President.

The Reference asked whether, in the absence of any constitutionally prescribed time limit for Governors and President, time limits could be imposed and manner of exercise of powers be prescribed through judicial orders. “Can the Constitutional powers of the President/Governors be substituted by a judicial order exercising Article 142? Is Article 142 limited to matters of procedural law or does it extend to issuing directions contrary to or inconsistent with existing substantive or procedural provisions of the Constitution?” it asked.

Indirectly questioning the validity of the “deemed” assent, the Reference has queried if a law made by a State Legislature could even “be considered a law in force without the assent of the Governor”. “Are decisions of the Governor and the President under Articles 200 and 201, respectively, justiciable at a stage prior to even the Bill in question becoming

ing a law?” it asked.

It said the “concept of deemed assent” of the President and the Governor, introduced in the judgment, was alien to the constitutional scheme.

The Reference has also raised questions about a two-judge Bench of the court pronouncing judgments on “substantial questions of law... without referring it to a minimum five-judge Bench as prescribed under Article 145 (3) of the Constitution.

The Reference further asked the court to clarify the constitutional options before a Governor when a Bill is presented to him under Article 200. It raised doubts as to whether the “constitutional discretion” of Governors and the President under Articles 200 and 201, respectively, was even justiciable. “Is Article 361 of the Constitution [immunity given to President and Governors from legal action while in office] an absolute bar to judicial review in relation to the actions of a Governor under Article 200?” the Presidential Reference sought.

T.N. CM slams Presidential Reference to top court on timeline to act on State Bills

तमिलनाडु मुख्यमंत्री ने राज्य

विधेयकों पर कार्रवाई की

समयसीमा को लेकर राष्ट्रपति की

सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई सिफारिश

की आलोचना की

• Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin strongly condemned the Presidential Reference to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution

regarding the timeline imposed for Governors and the President to act on State Bills.

• तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.

स्टालिन ने संविधान के अनुच्छेद 143

के तहत राज्य विधेयकों पर राज्यपालों

और राष्ट्रपति द्वारा कार्रवाई की

समयसीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट को

भेजी गई राष्ट्रपति की सिफारिश की

कड़ी निंदा की।

• Stalin said it was a desperate attempt to weaken democratically elected State governments by placing them under the control of Governors acting as agents of the Centre.

• स्टालिन ने कहा कि यह केंद्र के एजेंट के रूप में

कार्यरत राज्यपालों के नियंत्रण में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों को लाने का एक हताश प्रयास है।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• **President Droupadi Murmu**, in a rare move, had referred the matter to the **Supreme Court** on **Tuesday** seeking opinion under Article 143.

• राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को एक दुर्लभ कदम उठाते हुए यह मामला अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को विचार के लिए भेजा।

• The reference asked if the **court can impose timelines and prescribe conduct** for Governors and the President in dealing with State Bills sent for **assent or reserved for consideration**.

• सिफारिश में पूछा गया कि क्या न्यायालय राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकता है और विधेयकों की मंजूरी या विचार हेतु सुरक्षित रखने की प्रक्रिया तय कर सकता है?

• It broadly questioned **whether judicial orders can dictate when and how the President and Governors should act under Articles 200 and 201 of the Constitution**.

• इसने व्यापक रूप से यह सवाल उठाया कि क्या न्यायिक आदेश संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को कब और कैसे कार्य करना चाहिए, यह निर्देशित कर सकते हैं?

• Stalin described the move as an **attempt to subvert** the constitutional position already settled by the **Supreme Court** in the **Tamil Nadu Governor's case** and other precedents.

• स्टालिन ने इस कदम को तमिलनाडु राज्यपाल के मामले और अन्य नजीरों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई संवैधानिक स्थिति को कमजोर करने का प्रयास बताया।

Background of the Presidential Reference

राष्ट्रपति सिफारिश की पृष्ठभूमि

• The **President's move** came after the **April 8 judgment** by **Justices J.B. Pardiwala and R. Mahadevan**, in a case filed by the **Tamil Nadu government** challenging the **Governor's delay** in clearing **10 re-passed Bills**.

• यह राष्ट्रपति की पहल 8 अप्रैल को न्यायमूर्ति **जे.बी. पारडीवाला और आर. महादेवन** द्वारा दिए गए निर्णय के बाद आई, जो तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका में राज्यपाल द्वारा 10 पुनः पारित विधेयकों में देरी के खिलाफ थी।

• The Governor had **reserved the Bills** for the **President's consideration**, leading to the legal dispute.

• राज्यपाल ने उन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा, जिससे कानूनी विवाद उत्पन्न हुआ।

• The Reference asked if in the **absence of constitutional time limits**, courts can impose timelines and prescribe the **manner of exercising powers**.

• सिफारिश में पूछा गया कि अगर संविधान में कोई समयसीमा नहीं दी गई है, तो क्या न्यायालय समयसीमा निर्धारित कर सकते हैं और शक्तियों के प्रयोग की प्रक्रिया तय कर सकते हैं?



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• It questioned whether **judicial orders under Article 142** could **substitute the constitutional powers** of the President and Governors.

• इसमें यह पूछा गया कि क्या **अनुच्छेद 142** के तहत **न्यायिक आदेश राष्ट्रपति और राज्यपालों की संवैधानिक शक्तियों का स्थान ले सकते हैं?**

• It also asked whether **Article 142 applies only to procedural law** or can it extend to **contradictory directions** to existing **substantive or procedural provisions** of the Constitution.

• यह भी पूछा गया कि क्या **अनुच्छेद 142 केवल प्रक्रियात्मक कानून** पर लागू होता है या यह संविधान के **मौलिक या प्रक्रियात्मक प्रावधानों के विपरीत निर्देश भी जारी कर सकता है?**

Key Constitutional Questions Raised

प्रमुख संवैधानिक प्रश्न उठाए गए

• The Reference questioned the **validity of “deemed assent”**, asking whether a **State law can be considered valid without the Governor’s assent**.

• सिफारिश में **“स्वीकृति मानी गई” (deemed assent)** की वैधता पर सवाल उठाया गया और पूछा गया कि क्या राज्य का कानून बिना राज्यपाल की स्वीकृति के वैध माना जा सकता है?

• It raised the issue whether the **President’s and Governor’s decisions under Articles 200 and 201 are justiciable before the Bill becomes law**.

• इसमें यह मुद्दा उठाया गया कि क्या **अनुच्छेद 200 और 201** के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल के निर्णय **विधेयक के कानून बनने से पहले ही न्यायिक समीक्षा के योग्य हैं?**

• The Reference argued that the **idea of “deemed assent” was alien to the constitutional scheme**.

• सिफारिश में कहा गया कि **“स्वीकृति मानी गई”** की अवधारणा संविधान की **संरचना में निहित नहीं है।**

• It also raised concerns over a **two-judge Bench** deciding on **substantial constitutional questions** without referring the matter to a **five-judge Bench under Article 145(3)**.

• इसमें चिंता जताई गई कि **दो न्यायाधीशों की पीठ ने गंभीर संवैधानिक प्रश्नों पर निर्णय दिया, जबकि मामला अनुच्छेद 145(3) के तहत पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाना चाहिए था।**

• The Reference asked the Court to clarify what **constitutional options** are available to a **Governor under Article 200** when a Bill is presented.

• सिफारिश में न्यायालय से यह स्पष्ट करने को कहा गया कि **अनुच्छेद 200** के तहत **राज्यपाल के पास कौन-कौन से संवैधानिक विकल्प उपलब्ध होते हैं जब उनके समक्ष कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।**

• It questioned whether the **“constitutional discretion”** of Governors and the President under **Articles 200 and 201 is justiciable**.



• इसमें पूछा गया कि अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति की संवैधानिक विवेकाधिकार शक्तियाँ क्या न्यायिक समीक्षा योग्य हैं?

• It also questioned if **Article 361**, which provides immunity to the President and Governors from legal action while in office, acts as an absolute bar to judicial review of their actions under Article 200.

• इसमें यह भी पूछा गया कि क्या अनुच्छेद 361, जो राष्ट्रपति और राज्यपालों को कार्यकाल के दौरान कानूनी कार्रवाई से छूट देता है, अनुच्छेद 200 के तहत उनके कार्यों की न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध है?

Experts debate if Reference is a ploy to bypass judicial review

An opinion by the Supreme Court under a Presidential Reference is not binding, says senior advocate Kapil Sibal. Justice Kaul, former SC judge, says the President had raised points of law and he was expecting 'something like this to happen'

GS Paper II: Presidential Reference

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The legal fraternity was divided on whether the Presidential Reference to the Supreme Court on its order in the Tamil Nadu Governor case was merely a ploy by the Union government to "bypass" the normal legal process of challenging the Supreme Court verdict.

Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin lashed out on Thursday that the Reference was an attempt to subvert the constitutional position settled by the April 8 Supreme Court judgment and other judicial precedents.

Senior advocate Kapil Sibal agreed with the Chief Minister's viewpoint that the Reference was a clandestine way to reverse the judgment by a two-judge Bench headed by Justice


J.B. Pardiwala. "If you do not like a Supreme Court judgment, you seek a review. If the review gets dismissed, you file a curative petition. That is the only way to set aside a Supreme Court judgment... What you are doing here is, by seeking a Reference, you are trying to get an opinion from the court as to whether the President is bound by a direction that you should decide on a Bill within a specific period of time. This is really bypassing the legal process available to them," Mr. Sibal said.

Former Supreme Court judge Justice Sanjay Kishan Kaul, however, said seeking a review of the judgment would not be decisive. Moreover, the power of the President to make a Reference cannot be taken away by the Supreme Court's review or curative jurisdiction.

"A review, again, would

If you do not like a Supreme Court judgment, you seek a review. If the review gets dismissed, you file a curative petition. That is the only way to set aside a judgment... By seeking a Reference, you are trying to get an opinion from the court as to whether the President is bound by a direction to decide on a Bill within a specific period of time. This is really bypassing the legal process

KAPIL SIBAL, senior advocate



by the Bench of the same two judges who pronounced the judgment. Here, the President is saying there is a constitutional issue involved and needs an opinion from the court," Justice Kaul said.

The former top court judge said he had "grave reservations" about the court's use of Article 142 in the judgment. He said Article 142 was restricted to the parties – State of Tamil Nadu and the Tamil Nadu Go-

vernor – in the dispute, and cannot be used to issue directions against the President and other State Governors who were not part of the litigation.

Mr. Sibal argued that an opinion, whatever it may be, under a Presidential Reference was not binding. A judgment of the apex court, on the other hand, was binding on all. The judgment would prevail despite the opinion. He said the President was in

her right to seek a Reference, but the Supreme Court need not answer it.

But Justice Kaul said an opinion from the Supreme Court, in his personal view, was "good enough". It would end future conflicts. "What else could have been done here other than seek a Reference, unless another Bench of two or three judges of the court would say the issue needed to be looked into by a larger Bench," he reasoned.

Justice Kaul said he was expecting something like this to happen, saying the President had made the Reference on points of law.

Mr. Sibal called the judgment a milestone. "If there is no timeframe, they could sit on Bills for months. This is how they intend to destabilise governments. Governors have been interfering ever since this government came to power," he said.



Experts debate if Reference is a ploy to bypass judicial review

विशेषज्ञों में बहस कि क्या रेफरेंस न्यायिक समीक्षा से बचने की एक चाल है

• The legal fraternity is divided on whether the Presidential Reference to the Supreme Court in the Tamil Nadu Governor case was an attempt by the Union government to bypass the usual legal procedure of challenging the verdict.

• कानूनी समुदाय इस बात पर बंटा हुआ है कि तमिलनाडु राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट को दिया गया राष्ट्रपति रेफरेंस क्या केंद्र सरकार द्वारा फैसले को चुनौती देने की सामान्य कानूनी प्रक्रिया को बायपास करने का प्रयास था।

• Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin criticised the move, calling the Reference an effort to subvert the constitutional position established by the April 8 Supreme Court judgment and other precedents.

• तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे 8 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अन्य मिसालों द्वारा स्थापित संवैधानिक स्थिति को कमजोर करने का प्रयास बताया।

• Senior advocate Kapil Sibal supported the Chief Minister's view, calling the Reference a clandestine method to reverse the judgment delivered by a two-judge Bench headed by Justice J.B. Pardiwala.

• वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए इस रेफरेंस को न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को पलटने की गुप्त विधि बताया।

• Mr. Sibal stated that if someone disagrees with a Supreme Court judgment, the correct process is to seek a review petition and, if rejected, file a curative petition — not to seek an opinion through a Reference.

• श्री सिबल ने कहा कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत है, तो उचित प्रक्रिया रिव्यू पिटीशन दायर करना और अस्वीकृति पर क्यूरटिव पिटीशन दाखिल करना है — न कि रेफरेंस के माध्यम से राय लेना।

• He argued that by seeking a Reference, the government is trying to get an opinion on whether the President is bound to act on a Bill within a specific period, which is an attempt to bypass the legal process.

• उन्होंने तर्क दिया कि रेफरेंस मांगकर सरकार यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या राष्ट्रपति एक निश्चित समय सीमा में किसी विधेयक पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं, जो कि कानूनी प्रक्रिया से बचने का प्रयास है।

• Former Supreme Court judge Justice Sanjay Kishan Kaul disagreed, saying that a review petition by the same two-judge Bench would not be decisive, and the President's power to make a Reference cannot be curtailed.



• पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल ने असहमति जताई और कहा कि वही दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया गया रिव्यू पिटीशन निर्णायक नहीं होगा, और राष्ट्रपति की रेफरेंस भेजने की शक्ति सीमित नहीं की जा सकती।

• Justice Kaul explained that the President had raised a **constitutional issue** and rightly sought the court's **opinion** on it.

• जस्टिस कौल ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति ने एक **संवैधानिक मुद्दा** उठाया है और इस पर अदालत से **राय लेना उचित** है।

• He also expressed **grave reservations** about the court's use of **Article 142**, arguing it was applicable only to the **parties in the case** — i.e., Tamil Nadu and its Governor — and not to the **President** or other **State Governors**.

• उन्होंने **अनुच्छेद 142** के प्रयोग पर **गंभीर आपत्ति** जताई, यह कहते हुए कि यह केवल **मामले के पक्षकारों** — यानी तमिलनाडु और राज्यपाल — पर लागू होता है, न कि **राष्ट्रपति** या अन्य **राज्यपालों** पर।

• Mr. Sibal stressed that an **opinion** under **Presidential Reference** is **not binding**, whereas a **Supreme Court judgment** is binding on all and would **prevail** over the opinion.

• श्री सिबल ने जोर दिया कि **राष्ट्रपति रेफरेंस** के तहत प्राप्त **राय बाध्यकारी नहीं** होती, जबकि **सुप्रीम कोर्ट का निर्णय** सभी पर **बाध्यकारी** होता है और राय पर **हावी** रहेगा।

• He acknowledged the President's right to seek a Reference but maintained that the **Supreme Court is not obliged** to answer it.

• उन्होंने यह स्वीकार किया कि राष्ट्रपति को रेफरेंस भेजने का अधिकार है, लेकिन **सुप्रीम कोर्ट को इसका उत्तर देना आवश्यक नहीं** है।

• On the other hand, **Justice Kaul** said that in his **personal view**, an **opinion** by the court is **good enough** and would help prevent **future conflicts**.

• दूसरी ओर, **जस्टिस कौल** ने कहा कि उनकी **व्यक्तिगत राय** में सुप्रीम कोर्ट की **राय पर्याप्त** है और यह **भविष्य के टकरावों** को रोकने में मदद करेगी।

• He asked what else could be done except a Reference, unless another **two or three-judge Bench** recommended referring the matter to a **larger Bench**.

• उन्होंने पूछा कि रेफरेंस के अलावा और क्या किया जा सकता था, जब तक कि कोई और **दो या तीन जजों की पीठ** यह न कहे कि मामला **बड़ी पीठ** को सौंपा जाए।

• Justice Kaul stated he was **expecting** such a Reference since the President had asked for guidance on **points of law**.

• जस्टिस कौल ने कहा कि वह इस तरह के रेफरेंस की **उम्मीद कर रहे थे**, क्योंकि राष्ट्रपति ने **कानूनी बिंदुओं** पर मार्गदर्शन मांगा था।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



No radiation leak from any nuclear facility in Pak.: IAEA

GS Paper II: IAEA

Press Trust of India

NEW DELHI

The global nuclear watchdog, **International Atomic Energy Agency (IAEA)**, has said there was no radiation leak or release from any nuclear facility in Pakistan during the country's recent military conflict with India.

The IAEA's statement came amid claims being made on social media that Pakistan's nuclear facilities were hit by Indian armed forces during Operation Sindoor.

"Based on information available to the IAEA, there has been no radiation leak or release from any nuclear facility in Pakistan," an IAEA spokesperson said.

Earlier, Air Marshal A.K. Bharti, Director-General of Air Operations, rejected suggestions that India hit Kirana Hills, home to Pakistan's nuclear installations. "We have not hit Kirana Hills, whatever is there," Mr. Bharti had said.

India's strikes hit an airbase in Sargodha and there were some reports that the base is linked to an underground nuclear storage facility in Kirana Hills. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal rejected U.S. President Donald Trump's claims of having averted a nuclear conflict between the two nations. He said India's military action was in the conventional domain and denied speculation about a nuclear war.

• Mr. Sibal, however, maintained that the **April 8 judgment** was a **milestone**, arguing that without a **timeframe**, Governors could **delay Bills for months**, which could be used to **destabilise governments**.

• श्री सिबल ने फिर भी यह कहा कि **8 अप्रैल का निर्णय एक मील का पत्थर है**, यह तर्क देते हुए कि यदि कोई **समय सीमा नहीं होगी**, तो राज्यपाल **विधेयकों को महीनों तक टाल सकते हैं**, जिससे **सरकारों को अस्थिर** किया जा सकता है।

• He accused **Governors of interfering** since the current **government came to power**, calling this a pattern of **political misuse**.

• उन्होंने आरोप लगाया कि **वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद से राज्यपाल हस्तक्षेप कर रहे हैं**, और इसे **राजनीतिक दुरुपयोग** की एक प्रवृत्ति बताया।

No Radiation Leak from Any Nuclear Facility in Pakistan: IAEA

पाकिस्तान की किसी भी परमाणु सुविधा से कोई विकिरण रिसाव नहीं: IAEA

• The International Atomic Energy Agency (IAEA) has stated that there was no radiation leak or release from any nuclear facility in Pakistan during its recent military conflict with India.

• अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने कहा है कि हालिया भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की किसी भी परमाणु सुविधा से कोई विकिरण रिसाव या उत्सर्जन नहीं हुआ।

• The IAEA's statement came amid **social media claims** that **Pakistan's nuclear facilities** were hit by Indian armed forces during **Operation Sindoor**.

• यह बयान ऐसे समय में आया जब **सोशल मीडिया पर दावे** किए जा रहे थे कि **ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान की परमाणु सुविधाओं पर हमला** किया।

• An **IAEA spokesperson** said, "Based on information available to the IAEA, there has been **no radiation leak or release** from any nuclear facility in Pakistan."

• एक **IAEA प्रवक्ता** ने कहा, "IAEA के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर,

पाकिस्तान की किसी भी परमाणु सुविधा से कोई विकिरण रिसाव या उत्सर्जन नहीं हुआ है।"

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• Air Marshal A.K. Bharti, Director-General of Air Operations, rejected suggestions that India had struck **Kirana Hills, where Pakistan's nuclear installations are located.**

• एयर मार्शल ए.के. भारती, वायु संचालन महानिदेशक, ने इस सुझाव को खारिज किया कि भारत ने किराना हिल्स को निशाना बनाया, जहां पाकिस्तान की परमाणु स्थापनाएं स्थित हैं।

• Mr. Bharti said, "We have **not hit Kirana Hills**, whatever is there."

• श्री भारती ने कहा, "हमने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया, जो भी वहां है।"

• **India's airstrikes targeted an airbase in Sargodha**, and there were some reports that the base is linked to an **underground nuclear storage facility in Kirana Hills.**

• भारत के हवाई हमले सरगोधा के एक एयरबेस पर केंद्रित थे, और कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि यह बेस किराना हिल्स में स्थित भूमिगत परमाणु भंडारण सुविधा से जुड़ा हुआ है।

• **External Affairs Ministry** spokesperson **Randhir Jaiswal** rejected **U.S. President Donald Trump's** claim of **averting a nuclear conflict** between India and Pakistan.

• विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जैसवाल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु संघर्ष को टालने में भूमिका निभाई।

• He said that India's **military action** was within the **conventional domain** and dismissed any **speculation of a nuclear war.**

• उन्होंने कहा कि भारत की सैन्य कार्रवाई पारंपरिक दायरे में थी और परमाणु युद्ध की अटकलों को खारिज किया।



Pak. wrote to India about restarting talks on Indus Waters Treaty, say sources

GS Paper II: Indus Water Treaty
The Hindu Bureau
NEW DELHI

Pakistan has said it is willing to restart talks with India on the Indus Waters Treaty (IWT), which India has kept in abeyance following the Pahalgam terror attacks, government sources, on condition of anonymity, told *The Hindu* on Thursday.

A letter from Syed Ali Murtaza, Secretary, Pakistan Ministry of Water Resources, to India's Water Secretary, Debashree Mukherjee, was received "a week ago", sources said. The letter asked for India to nominate representatives who could engage in talks with Pakistan's Indus Commissioner, they added.

The Hindu could not independently confirm the content of the letter as well as whether it was sent following Operation Sindoor. "It was amid all the happenings," a source said but declined to share a finite date.

The External Affairs Ministry declined to comment. *The Hindu* has written to Mr. Murtaza, but has not received a comment.

External Affairs Minister S. Jaishankar told presspersons on Thursday: "The Indus Waters Treaty is held in abeyance and will continue to be held in abeyance until the cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped."



Matter of discussion: India has kept the Indus Waters Treaty in abeyance following the Pahalgam terror attacks. FILE PHOTO

Under the IWT, both India and Pakistan have Indus Commissioners who lead delegations for talks regarding water-sharing aspects governing the treaty which has been in force since 1960.

'Written four times' India, however, said last September that no more meetings of the Permanent Indus Commission would be held till the governments of India and Pakistan meet and discuss the renegotiation of the IWT. The last meeting reportedly happened in Delhi in May 2022. Since January 2023, India has written four times to Pakistan to initiate talks on revising the treaty but, according to sources, not received a "satisfactory response".

"India's position is that re-negotiation of the treaty could be done only government-government and not by Indus Commission representatives. Pakistan offered to meet at a neutral venue but we proposed

that we meet in Islamabad. Following this there was a silence for four of five months and now they have sent us this letter," a person familiar with the content of Mr. Murtaza's latest letter, told *The Hindu*.

The letter, sources said, has Pakistan's objecting to India's action of keeping the IWT in abeyance. However, it says Pakistan was willing to meet and would like to begin the process for arranging the necessary logistics. India has not taken a call on the response to the letter.

Following the Pahalgam attacks, India decided to stall the treaty and declared its intent to "not give a drop of water" to Pakistan. Under the terms of the IWT, India cannot create significant hydel power storage on the western rivers of Indus, Jhelum, Chenab and must maintain water levels at prescribed levels, to ensure no untoward flooding or disruption of Pakistan's agriculture happens.

Talks on Indus Waters Treaty May Restart सिंधु जल संधि पर वार्ता फिर से शुरू हो सकती है

• Pakistan has expressed its willingness to restart talks with India on the Indus Waters Treaty (IWT), which India had kept in abeyance following the Pahalgam terror attacks, according to government sources.

• पाकिस्तान ने सरकार के सूत्रों के अनुसार, पहलगाम आतंकवादी हमलों के बाद भारत द्वारा स्थगित की गई सिंधु जल संधि (IWT) पर बातचीत फिर से शुरू करने की इच्छा जताई है।

• A letter from Syed Ali Murtaza, Secretary of Pakistan's Ministry of Water Resources, was sent to India's Water Secretary Debashree Mukherjee, and was received about a week ago, sources said.

• पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुरतज़ा का एक पत्र भारत की जल सचिव देबाश्री मुखर्जी को भेजा गया था, जो सूत्रों के अनुसार करीब एक सप्ताह पहले प्राप्त हुआ।

• The letter requested India to nominate representatives for talks with Pakistan's Indus Commissioner.



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• पत्र में भारत से अनुरोध किया गया था कि वह पाकिस्तान के सिंधु आयुक्त के साथ बातचीत के लिए प्रतिनिधियों को नामित करे।

• The Hindu could not **independently confirm** the letter's contents or whether it was sent after **Operation Sindoor**.

• द हिंदू पत्र की सामग्री की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका और न ही यह कि यह पत्र ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजा गया था।

• A source said, "It was amid all the **happenings**," but did not provide a **specific date**.

• एक सूत्र ने कहा, "यह सभी घटनाओं के बीच में था," लेकिन कोई विशिष्ट तारीख नहीं बताई।

• The **External Affairs Ministry** declined to comment, and no response was received from Mr. Murtaza.

• विदेश मंत्रालय ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, और श्री मुर्तजा से कोई उत्तर नहीं मिला।

• **External Affairs Minister S. Jaishankar** said, "The **Indus Waters Treaty** is held in **abeyance** and will continue to be until **cross-border terrorism** by Pakistan is **credibly and irrevocably** stopped."

• विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, "सिंधु जल संधि स्थगित है और तब तक बनी रहेगी जब तक पाकिस्तान द्वारा सीमापार आतंकवाद को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से नहीं रोका जाता।"

Background of the Indus Waters Treaty

सिंधु जल संधि की पृष्ठभूमि

• Under the **IWT**, both India and Pakistan have **Indus Commissioners** who lead **delegations** for talks regarding **water-sharing** under the treaty, which has been in effect since **1960**.

• **IWT** के तहत, भारत और पाकिस्तान दोनों के पास **सिंधु आयुक्त** होते हैं जो **जल-वितरण** से संबंधित वार्ताओं के लिए **प्रतिनिधिमंडल** का नेतृत्व करते हैं, यह संधि **1960** से प्रभावी है।

India's Stand on Talks and Renegotiation

वार्ता और पुनः वार्ता पर भारत का रुख

• In **September 2023**, India said that no further meetings of the **Permanent Indus Commission** would be held until **government-level talks** happen for **renegotiation** of the treaty.

• **सितंबर 2023** में भारत ने कहा कि जब तक **सरकार-स्तरीय वार्ता** नहीं होती, तब तक **स्थायी सिंधु आयोग** की आगे की कोई बैठक नहीं होगी, ताकि संधि की **पुनः वार्ता** की जा सके।

• The **last meeting reportedly took place in Delhi in May 2022**.

• आखिरी बैठक **मई 2022** में **दिल्ली** में हुई थी।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• Since **January 2023**, India has written **four times** to Pakistan for starting talks on **revising the treaty**, but did not receive a **satisfactory response**, sources said.

• **जनवरी 2023** से भारत ने **चार बार** पाकिस्तान को **संधि संशोधन वार्ता** शुरू करने के लिए लिखा, लेकिन सूत्रों के अनुसार **संतोषजनक उत्तर** नहीं मिला।

• India maintains that **renegotiation** must be done at a **government-to-government level**, not by **Indus Commission representatives**.

• भारत का कहना है कि **पुनः वार्ता** केवल **सरकार से सरकार** के स्तर पर होनी चाहिए, न कि **सिंधु आयोग** के प्रतिनिधियों द्वारा।

• Pakistan suggested a meeting at a **neutral venue**, but India proposed **Islamabad** instead.

• पाकिस्तान ने किसी **तटस्थ स्थान** पर बैठक का सुझाव दिया, लेकिन भारत ने **इस्लामाबाद** का प्रस्ताव दिया।

• After this, Pakistan remained **silent** for **four to five months**, and now has sent the **latest letter**.

• इसके बाद पाकिस्तान **चार से पाँच महीने** तक चुप रहा और अब **नया पत्र** भेजा है।

Pakistan's Objections and Current Status

पाकिस्तान की आपत्तियाँ और वर्तमान स्थिति

• The letter objects to India's action of **keeping the IWT in abeyance**, but also expresses **willingness** to meet and initiate **logistical arrangements**.

• पत्र में भारत द्वारा IWT को **स्थगित** रखने पर **आपत्ति** जताई गई है, लेकिन **बैठक** के लिए **तत्परता** और **लॉजिस्टिक व्यवस्था** शुरू करने की बात भी कही गई है।

• India has **not yet decided** how to respond to the letter.

• भारत ने पत्र का उत्तर **कैसे देना** है, इस पर अभी **निर्णय** नहीं लिया है।

India's Hardline Post-Pahalgam Attacks

पहलगाम हमलों के बाद भारत का कड़ा रुख

• Following the **Pahalgam attacks**, India decided to **stall** the treaty and declared its intent to **not give a drop of water** to Pakistan.

• **पहलगाम हमलों** के बाद भारत ने **संधि** को **रोकने** और पाकिस्तान को **एक बूँद पानी** भी नहीं देने का **संकल्प** जताया।

• Under the IWT, India **cannot build large hydel storage** on the **western rivers** (Indus, Jhelum, Chenab), and must maintain **prescribed water levels** to avoid **flooding** or disrupting **Pakistani agriculture**.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : info@patrioticias.in

Contact Number : 9971932488

Website : patrioticias.in



• IWT के तहत भारत पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) पर बड़े जल विद्युत भंडारण नहीं बना सकता और उसे निर्धारित जल स्तर बनाए रखने होते हैं ताकि बाढ़ या पाकिस्तानी कृषि में विघटन न हो।

Govt. postpones credentials ceremony featuring new Ambassador of Turkiye

GS Paper II: India-West Asia

Kallol Bhattacharjee

NEW DELHI

Against the backdrop of protests against Turkiye, the protocol division of the Ministry of External Affairs (MEA) on Thursday postponed the credentials ceremony of the new Turkish Ambassador to India.

The MEA, in a brief announcement, said the credentials ceremony at the Rashtrapati Bhavan had been deferred from Thursday due to scheduling issues.

The postponement of the event came as a surprise, said a diplomatic source who was informed just minutes before the event was to take place.



Turkish envoy Ali Murat Ersoy presents his credentials to Anshuman Gaur, Chief of Protocol at the MEA, in April. @TC_YENIDELHIBE

Apart from Turkiye's Ambassador Ali Murat Ersoy, Bangladesh's new High Commissioner Riaz Hamidullah and the envoys of Thailand, Costa Rica, St Kitts and Nevis were to present their credentials to

President Droupadi Murmu in the ceremony that was postponed.

Mr. Ersoy took charge in March after Turkiye's previous envoy, Firat Sunel, was transferred back to Turkiye. Mr. Ersoy earlier

presented a copy of his credentials to Chief of Protocol Anshuman Gaur on April 4. The ceremony at the Rashtrapati Bhavan is part of the formal diplomacy that India-based heads of missions are expected to attend as they represent their head of government to the Indian state.

One of the relevant diplomatic missions said the event was fixed at least 10 days in advance, and said such a pre-fixed credentials event was rarely postponed. Sources, however, refused to pin the postponement to the ongoing difficulties in relations with Turkiye that was impacted after Ankara delivered military support to Pakistan.

Postponement of Credentials Ceremony for New Turkish Ambassador

नए तुर्की राजदूत के लिए क्रेडेंशियल समारोह स्थगित

• The Ministry of External Affairs (MEA) on Thursday postponed the credentials ceremony for the new Turkish Ambassador to India, citing the backdrop of protests against Turkiye.



• विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को भारत में नए तुर्की राजदूत के लिए प्रस्तावित क्रेडेंशियल समारोह को तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के चलते स्थगित कर दिया।

• The MEA stated that the ceremony at **Rashtrapati Bhavan** was deferred due to **scheduling issues**.

• विदेश मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति भवन में होने वाला यह समारोह समय-सारिणी से जुड़ी समस्याओं के कारण टाल दिया गया।

• A **diplomatic source** revealed that the postponement came as a **surprise** and was communicated **just minutes before the event** was to begin.

• एक कूटनीतिक सूत्र के अनुसार यह स्थगन अप्रत्याशित था और इसकी जानकारी कार्यक्रम शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही दी गई।

• The ceremony was meant for the presentation of credentials by ambassadors from **Turkiye, Bangladesh, Thailand, Costa Rica, and St Kitts and Nevis** to **President Droupadi Murmu**.

• यह समारोह तुर्की, बांग्लादेश, थाईलैंड, कोस्टा रिका और सेंट किट्स एंड नेविस के राजदूतों द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने क्रेडेंशियल प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित था।

• **Ali Murat Ersoy**, the new Turkish Ambassador, took charge in **March** after the transfer of previous envoy **Firat Sunel** back to **Turkiye**.

• **अली मुरात एर्साय**, जो नए तुर्की राजदूत हैं, ने **मार्च** में कार्यभार संभाला था जब पूर्व राजदूत **फिरात सुनल** को वापस तुर्की बुला लिया गया था।

• Mr. Ersoy had earlier presented a copy of his credentials to **Chief of Protocol Anshuman Gaur** on **April 4**.

• श्री एर्साय ने इससे पहले **4 अप्रैल** को **प्रोटोकॉल प्रमुख अंशुमान गौर** को अपने क्रेडेंशियल की प्रति सौंपी थी।

• The ceremony at **Rashtrapati Bhavan** is considered a **formal diplomatic process** for newly appointed ambassadors representing their countries in India.

• **राष्ट्रपति भवन** में होने वाला यह समारोह भारत में नियुक्त राजदूतों द्वारा अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक औपचारिक कूटनीतिक प्रक्रिया मानी जाती है।

• A diplomatic mission said that the event was **scheduled at least 10 days in advance**, and such postponements are **very rare**.

• एक कूटनीतिक मिशन ने बताया कि यह कार्यक्रम **कम से कम 10 दिन पहले तय किया गया था**, और इस तरह का स्थगन **बहुत ही दुर्लभ** होता है।

• Although **no official reason** was given, sources said the delay may be linked to **strained India-Turkiye relations** after **Turkiye extended military support to Pakistan**.



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• हालांकि कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया, सूत्रों का मानना है कि यह देरी तुर्की द्वारा पाकिस्तान को सैन्य समर्थन दिए जाने के बाद भारत-तुर्की संबंधों में तनाव के चलते हो सकती है।

Jaishankar speaks with Taliban's Acting Foreign Minister

GS Paper II: India-Afghanistan

Kallol Bhattacharjee

NEW DELHI

Marking the first Minister-level outreach to the Taliban administration in Afghanistan, External Affairs Minister S. Jaishankar on Thursday held a telephone conversation with the 'Acting Afghan Foreign Minister' Amir Khan Muttaqi. The conversation came days after the Taliban administration, which India is yet to officially recognise, condemned the deadly terror strike in Pahalgam of April 22 that left 26 innocents dead and dozens injured.

"Good conversation with Acting Afghan Foreign Minister Mawlawi Amir Khan Muttaqi this evening. Deeply appreciate his condemnation of the Pahalgam terrorist attack," said Mr. Jaishankar in a message on X. Mr. Muttaqi had hosted senior Indian diplomat Anand Prakash in Kabul on April 27 against the backdrop of growing India-Pakistan hostilities following the attack in Pahalgam.

The Taliban administration and India have been intensifying ties since the outfit first came to power in Kabul on August 16, 2021, though India has not yet fully normalised relations with the outfit. India's official policy has fo-

Muttaqi condemns the terror strike in Pahalgam on April 22 that left 26 dead

cused on the wellbeing of the Afghan people and in that direction, the Government of India has allowed the Taliban to gradually take charge of the Afghan missions in Delhi, Mumbai and Hyderabad to cater to the consular requirements of Afghan students, visitors and businesspersons.

'No Taliban link'

Rebutting reports in Pakistan media that attempted to link the Taliban with the developments in Kashmir, Mr. Jaishankar further said, "Welcomed his firm rejection of recent attempts to create distrust between India and Afghanistan through false and baseless reports."

Hafiz Zia Ahmed, director of public communication at the Taliban's "Ministry of Foreign Affairs", made a detailed post on X announcing that Mr. Muttaqi asked Mr. Jaishankar to help in securing more Indian visas for Afghan patients and visitors.

He also urged the Government of India to help in freeing Afghan prisoners in Indian jails.

Jaishankar speaks with Taliban's Acting Foreign Minister

जयशंकर ने तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री से बातचीत की

• Marking the first Minister-level outreach to the Taliban administration in Afghanistan, External Affairs Minister S. Jaishankar held a telephone conversation with the 'Acting Afghan Foreign Minister' Amir Khan Muttaqi on Thursday.

• अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन से यह पहली मंत्री-स्तरीय बातचीत रही, जिसमें विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी से फोन पर बातचीत की।

• The conversation came days after the Taliban administration, which India has not officially recognised, condemned the terror strike in Pahalgam on April 22, which killed 26 innocents and injured many others.

• यह बातचीत उस समय हुई जब भारत ने अभी तक तालिबान प्रशासन को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन उसने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी, की निंदा की थी।

• Mr. Jaishankar posted on X: "Good conversation with Acting Afghan Foreign Minister Mawlawi Amir Khan Muttaqi this evening. Deeply appreciate his condemnation of the Pahalgam terrorist attack."

• श्री जयशंकर ने एक्स पर लिखा: "आज शाम कार्यवाहक अफगान

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी से **अच्छी बातचीत हुई। पहलगाम आतंकवादी हमले की उनकी निंदा की मैं सराहना करता हूँ।**

• Earlier on **April 27**, Mr. Muttaqi had **hosted senior Indian diplomat Anand Prakash** in **Kabul**, amid increasing tensions between **India and Pakistan** following the **Pahalgam attack**.

• इससे पहले **27 अप्रैल** को **काबुल** में श्री मुत्ताकी ने **वरिष्ठ भारतीय राजनयिक आनंद प्रकाश** की मेजबानी की थी, जब **भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा था जो पहलगाम हमले के बाद हुआ।**

• The **Taliban administration and India** have been **intensifying ties** since the Taliban came to power on **August 16, 2021**, although India has not yet **fully normalised relations**.

• **तालिबान प्रशासन और भारत** के बीच **संबंधों में वृद्धि हुई है** जब से तालिबान ने **16 अगस्त 2021** को सत्ता संभाली, हालांकि भारत ने अब तक **संपूर्ण रूप से संबंध सामान्य नहीं किए हैं।**

• India's **official policy** has been focused on the **wellbeing of the Afghan people**.

• भारत की **आधिकारिक नीति** अफगान जनता की **भलाई** पर केंद्रित रही है।

• In that direction, the **Government of India** has allowed the Taliban to gradually **take charge of Afghan missions** in **Delhi, Mumbai, and Hyderabad**, to facilitate **consular services** for **Afghan students, visitors, and businesspersons**.

• इसी दिशा में, भारत सरकार ने तालिबान को **दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद** में अफगान मिशनों की जिम्मेदारी **धीरे-धीरे संभालने** की अनुमति दी है, जिससे अफगान **छात्रों, पर्यटकों और व्यापारियों** को **दूतावास सेवाएं** मिल सकें।

Rebuttal of Taliban-Pakistan-Kashmir Link

तालिबान-पाकिस्तान-कश्मीर संबंध के आरोपों पर खंडन

• **Refuting media reports in Pakistan** that attempted to **link the Taliban with Kashmir unrest**, Mr. Jaishankar said, "Welcomed his **firm rejection** of attempts to **create distrust between India and Afghanistan** through **false and baseless reports**."

• **पाकिस्तान मीडिया** की उन रिपोर्टों को खारिज करते हुए जो **तालिबान को कश्मीर की घटनाओं से जोड़ने** की कोशिश कर रही थीं, श्री जयशंकर ने कहा, "भारत और अफगानिस्तान के बीच **अविश्वास फैलाने** की कोशिशों को लेकर उनकी **दृढ़ अस्वीकृति** का मैंने स्वागत किया।"

Requests from Afghan Side

अफगान पक्ष की मांगें

• **Hafiz Zia Ahmed**, Director of Public Communication at Taliban's "Ministry of Foreign Affairs", posted on X that Mr. Muttaqi requested **more Indian visas** for **Afghan patients and visitors**.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : info@patrioticias.in

Contact Number : 9971932488

Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• तालिबान के "विदेश मंत्रालय" के सार्वजनिक संचार निदेशक हाफिज ज़िया अहमद ने एक्स पर पोस्ट किया कि श्री मुत्ताकी ने अफगान मरीजों और पर्यटकों के लिए अधिक भारतीय वीजा की मांग की।

• Mr. Muttaqi also urged the **Government of India** to help in releasing Afghan prisoners currently lodged in **Indian jails**.

• श्री मुत्ताकी ने भारत सरकार से भारतीय जेलों में बंद अफगान कैदियों की रिहाई में मदद करने का भी आग्रह किया

GS Paper II: West Asia

New beginning

Syria should dismantle armed groups and adopt inclusive constitution

Until six months ago, Abu Mohammad al-Jolani was a specially designated global terrorist, with a \$10 million bounty fixed on his head by the U.S. government. A native of Syria's Golan Heights and a former member of al-Qaeda in Iraq, one of the group's most brutal branches, Jolani founded Jabhat al-Nusra, the al-Qaeda's Syria affiliate, in 2012, during the early stages of the civil war. Thirteen years later, on May 14, Jolani – now known as Ahmed al-Sharaa – met with U.S. President Donald Trump in Riyadh. Mr. Trump, who earlier in the week lifted America's decades-long sanctions on Syria, praised Mr. Sharaa, saying he was "a tough guy. Strong past... Fighter". The meeting was a diplomatic victory for Mr. Sharaa, whose Islamist Hayat Tahrir al-Sham (HTS) captured Damascus in December 2024 by toppling the secular dictatorship of President Bashar al-Assad. Mr. Sharaa met Qatar's Emir in Doha in April, seeking support for his fledgling Islamist regime. He enjoys the strong backing of Türkiye. He was welcomed by French President Emmanuel Macron earlier this month at the Élysée Palace in Paris. And in Riyadh, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman played a key role in facilitating his meeting with Mr. Trump. With regional and international recognition, Ahmed al-Sharaa appears poised to shape Syria's present and future.

The lifting of American sanctions opens the door for Syria to join the global economic mainstream and attract foreign investments. Mr. Sharaa has already invited American companies to invest in Syria's oil and gas. Money could flow from wealthy Arab monarchies to war-torn Syria for reconstruction and other business opportunities. But one question remains: what kind of Syria are Mr. Sharaa and his fellow Islamists planning to build? Mr. Sharaa has promised to uphold the rule of law, respect women's rights and protect religious and ethnic minorities. Yet, ever since the HTS captured power, Syria has seen instances of targeted violence against minority communities. In March, hundreds of Alawites, the sect to which ousted President Assad belongs, were killed by Islamist gunmen in the coastal Latakia region. Sectarian tensions remain high in central Syria, where targeted killings and abductions are frequently reported. In recent weeks, Syria's Druze minority has come under sustained attacks, with community leaders describing the violence as a "genocidal campaign". The Kurds in the northeast have called for a decentralised, democratic Syria, firmly opposing the HTS's centralised style of governance. The removal of sanctions and international recognition present a historic opportunity for Mr. Sharaa to steer Syria toward recovery and prosperity. But to that end, he must first stabilise the country internally, dismantle extremist armed groups and adopt an inclusive constitution that guarantees the rights of all citizens. If not, Syria risks following the path of Libya or Afghanistan.

New Beginning

नया आरंभ

• Until six months ago, Abu Mohammad al-Jolani was a specially designated global terrorist with a \$10 million bounty placed on his head by the U.S. government.

• छह महीने पहले तक, अबू मोहम्मद अल-जोलानी को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी माना जाता था, जिनके सिर पर अमेरिकी सरकार द्वारा 10 मिलियन डॉलर का इनाम रखा गया था।

• Jolani is a native of Syria's Golan Heights and a former member of al-Qaeda in Iraq, one of its most brutal branches.

• जोलानी सीरिया के गोलान हाइट्स के मूल निवासी हैं और इराक में अल-कायदा के पूर्व सदस्य थे, जो समूह की सबसे क्रूर शाखाओं में से एक है।

• In 2012, during the early stages of the Syrian civil war, Jolani founded **Jabhat al-Nusra, al-Qaeda's Syria affiliate**.

• 2012 में, सीरियाई गृहयुद्ध के शुरुआती चरणों के दौरान, जोलानी ने अल-कायदा की सीरिया शाखा जबहत अल-नुसरा की स्थापना की।

• Thirteen years later, on **May 14**, Jolani, now known as **Ahmed al-Sharaa**, met with **U.S. President Donald Trump in Riyadh**.

• तेरह साल बाद, 14 मई को, जोलानी, जो अब अहमद अल-शारा के नाम से जाने जाते हैं, ने रियाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात की।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : info@patrioticias.in

Contact Number : 9971932488

Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- Mr. Trump, who lifted America's **decades-long sanctions on Syria** earlier that week, praised Mr. Sharaa calling him a **"tough guy, strong past... fighter."**
- श्री ट्रम्प, जिन्होंने उस सप्ताह के शुरुआत में अमेरिका की दशकों पुरानी प्रतिबंधों को हटाया, ने श्री शारा की सराहना करते हुए उन्हें **"कठोर आदमी, मजबूत अतीत... योद्धा"** कहा।
- This meeting was a **diplomatic victory** for Mr. Sharaa, whose Islamist group **Hayat Tahrir al-Sham (HTS)** captured **Damascus** in **December 2024** by toppling the **secular dictatorship** of President **Bashar al-Assad**.
- यह बैठक श्री शारा के लिए एक राजनयिक विजय थी, जिनके इस्लामी संगठन **हयात तहरीर अल-शाम (HTS)** ने **दिसंबर 2024** में राष्ट्रपति **बशर अल-असद** की धार्मिक निरपेक्ष तानाशाही को गिराकर दमिश्क पर कब्जा किया।
- Mr. Sharaa met **Qatar's Emir** in **Doha** in April, seeking support for his fledgling Islamist regime.
- श्री शारा ने अप्रैल में **दोहा** में **कतर के अमीर** से मुलाकात की, अपने नवगठित इस्लामी शासन के लिए समर्थन मांगते हुए।
- He enjoys strong backing from **Türkiye** and was welcomed by French President **Emmanuel Macron** in **Paris** earlier this month.
- उन्हें **तुर्की** का मजबूत समर्थन प्राप्त है और इस महीने की शुरुआत में **फ्रांस** के राष्ट्रपति **इमैनुएल मैक्रॉन** ने **पेरिस** में उनका स्वागत किया।
- In **Riyadh**, Saudi Crown Prince **Mohammed bin Salman** played a key role in facilitating the meeting between Mr. Sharaa and Mr. Trump.
- **रियाद** में, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस **मोहम्मद बिन सलमान** ने श्री शारा और श्री ट्रम्प की बैठक को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- With regional and international recognition, Ahmed al-Sharaa appears poised to shape Syria's present and future.
- क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मान्यता के साथ, **अहमद अल-शारा** सीरिया के वर्तमान और भविष्य को आकार देने के लिए तैयार दिखते हैं।
- The lifting of American sanctions opens the door for Syria to join the **global economic mainstream** and attract **foreign investments**.
- अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने से सीरिया को **वैश्विक आर्थिक मुख्यधारा** में शामिल होने और **विदेशी निवेश आकर्षित करने** का रास्ता खुलता है।
- Mr. Sharaa has already invited **American companies** to invest in Syria's **oil and gas sectors**.
- श्री शारा ने पहले ही **अमेरिकी कंपनियों** को सीरिया के **तेल और गैस क्षेत्र** में निवेश के लिए आमंत्रित किया है।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• Wealthy Arab monarchies could invest in Syria's reconstruction and business opportunities.

• धनी अरब राजशाही सीरिया के पुनर्निर्माण और व्यावसायिक अवसरों में निवेश कर सकती हैं।

• However, there is a question about what kind of Syria Mr. Sharaa and his fellow Islamists plan to build.

• हालांकि, एक सवाल यह है कि श्री शारा और उनके सहयोगी इस्लामवादियों किस प्रकार का सीरिया बनाना चाहते हैं।

• Mr. Sharaa has promised to uphold the **rule of law**, respect **women's rights**, and protect **religious and ethnic minorities**.

• श्री शारा ने कानून का शासन बनाए रखने, महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने और धार्मिक व जातीय अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का वादा किया है।

• Yet, since HTS captured power, Syria has witnessed **targeted violence** against **minority communities**.

• फिर भी, HTS के सत्ता में आने के बाद से, सीरिया में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ लक्षित हिंसा देखी गई है।

• In **March**, hundreds of **Alawites**, the sect of ousted President Assad, were killed by Islamist gunmen in the coastal **Latakia region**.

• मार्च में, निकाले गए राष्ट्रपति असद के संप्रदाय अलावाइट्स के सैकड़ों लोग इस्लामी बंदूकधारियों द्वारा तटीय लताकिया क्षेत्र में मारे गए।

• Sectarian tensions remain high in **central Syria**, with frequent reports of **targeted killings and abductions**.

• मध्य सीरिया में सांप्रदायिक तनाव उच्च स्तर पर है, जहां लक्षित हत्याओं और अपहरणों की बार-बार रिपोर्टें आती हैं।

• Recently, **Syria's Druze minority** has faced sustained attacks, with leaders calling the violence a "**genocidal campaign**."

• हाल ही में, सीरिया के द्रुज़ अल्पसंख्यक पर लगातार हमले हुए हैं, जिनके नेता इसे "हत्या अभियान" कह रहे हैं।

• The **Kurds in the northeast** demand a **decentralised, democratic Syria**, opposing HTS's **centralised governance style**.

• पूर्वोत्तर में रहने वाले कुर्दों ने विकेंद्रीकृत, लोकतांत्रिक सीरिया की मांग की है और HTS की केंद्रीकृत शासन शैली का विरोध किया है।

• The removal of sanctions and international recognition offers a **historic opportunity** for Mr. Sharaa to guide Syria towards **recovery and prosperity**.



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• प्रतिबंध हटाने और अंतरराष्ट्रीय मान्यता ने श्री शारा के लिए सीरिया को सुधार और समृद्धि की ओर ले जाने का ऐतिहासिक अवसर प्रदान किया है।

• To succeed, he must first **stabilise the country internally**, **dismantle extremist armed groups**, and adopt an **inclusive constitution** guaranteeing the rights of all citizens.

• सफलता के लिए, उन्हें पहले देश को आंतरिक रूप से स्थिर करना होगा, अत्यंतवादी सशस्त्र समूहों को तोड़ना होगा, और सभी नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देने वाला समावेशी संविधान अपनाना होगा।

• If not, Syria risks following the paths of **Libya or Afghanistan**.

• यदि ऐसा नहीं किया गया, तो सीरिया को **लीबिया या अफगानिस्तान** जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है।

The yearly 'thank you' to nurses is not enough

GS Paper II: Health Sector

May 12 has passed, an annual day where we honour **Florence Nightingale** and celebrate the unsung heroes of health care – nurses. We praised nurses on this day (**International Nurses Day**), but the urgency to truly empower the stars of our health-care system quickly fades.

Nursing beyond tradition

Nurses and midwives form nearly 47% of India's total health workforce, yet remain under-represented in leadership, policymaking, and autonomous clinical roles. The perception of nurses as being mere assistants to doctors still prevails, limiting their potential, despite global trends that prove otherwise. The role of **Nurse Practitioners (NPs)** as independent, advanced care providers capable of addressing health-care gaps has been embraced in Australia, Botswana, Brazil, South Africa, Thailand, the United Kingdom, the United States and Zambia.

NPs are advanced practice registered nurses (such as clinical nurse specialists, certified nurse midwives and certified registered nurse anaesthetists) with specialised training, usually at the master's level. They are certified to **diagnose, treat, and prescribe independently** in many settings. India has recognised the need for NPs, particularly to expand health-care access in underserved areas. The **National Health Policy 2017** has acknowledged that mid-level providers, including NPs, are crucial to primary care. Despite the Indian Nursing Council (INC) initiating structured NP programmes, notably the Nurse Practitioner in Critical Care (NPCC) in 2017 and also the Nurse Practitioner in Primary Health Care (NPPHC), integration remains slow. Initiatives such as the NP in Midwifery programme (2002) in West Bengal and similar efforts in Telangana and Kerala have struggled in the absence of a clear legal framework, defined roles and protected titles. Although some institutions have developed in-house training for extended roles (stoma nurses, diabetes



Meena Putturaj

is an Assistant Professor, DBT/Wellcome Trust India Alliance Fellow at the Institute of Public Health Bengaluru

More needs to be done in India's health system so that nurses are seen not only as caregivers but also as leaders

educators, stroke nurses), these positions lack regulatory backing and national recognition.

India's NP education programmes are designed to focus on advanced clinical skills, diagnosis, treatment, limited prescribing authority, and community engagement. However, there are challenges, a key barrier being the absence of a clear legal framework defining the NP scope of practice, including prescriptive rights. Resistance within some in the medical community, driven by fear of losing power, complicates integration. The curriculum emphasises clinical skills but leaves regulatory frameworks, licensure clarity, and career pathways murky. Who will licence NPs? Will they be recognised legally? Will they be absorbed into public systems or left out? This ambiguity is not just administrative, but is also existential for nurses.

Lessons from Australia

The NP movement in Australia is instructive, having begun with a clear goal to improve access in underserved areas and provide clinical autonomy to qualified nurses. But what made it work was more than just policy; it was politics. Nursing movements were part of the policy dialogues. Legislation protected the NP title. Licensure was formalised. Career ladders were created. Importantly, nurse-led models such as walk-in centres demonstrated that care does not always need a physician's stamp to be effective, safe, and appreciated.

Resistance to nurse autonomy in India stems not only from policy gaps but from entrenched cultural, gender, and hierarchical biases that position nurses, predominantly women, as subordinates to doctors. This mindset influences policy decisions, including opposition to NP roles by the medical community, despite global evidence of their effectiveness. There is also a crisis in the nursing education sector due to lax regulation and corruption. Although the National Nursing and Midwifery Commission Act, 2023,

signals reform, its real impact remains uncertain. Compounding these challenges is the lack of strong, unified nursing movements, limiting the profession's power to engage in policy processes.

Let nurses lead

NPs are formally recognised in a number of high-income, low- and middle-income countries. Ironically, while Indian nurses excel abroad in NP roles, their potential remains untapped at home. Evidence shows NP-led care matches those with physician outcomes, with high patient satisfaction and lower costs. For India, adopting a collaborative, team-based care model, where nurses practise to their full scope, is progressive and essential to delivering equitable and quality health care.

Realising NP roles in India demands urgent reforms in nursing education, regulation and nursing leadership. This includes closing substandard colleges, enhancing faculty competency, bridging the theory-practice gap, and integrating ethics and leadership, and policy engagement components into nursing curricula. Legal recognition of NPs, with defined licensure and accountability, is crucial. Clear career pathways, fair pay and advancement opportunities must replace the stagnation in nursing roles. Addressing the gender-based undervaluation of nursing is also essential. Critically, nurses must lead nursing reforms through sustained policy engagement. Given their lived experiences, nurses are uniquely positioned to advocate change and challenge medical hierarchy. To achieve this, grassroots nursing movements that are bolstered by strategic alliances and driven by courage, commitment, and the capacity to speak truth to power are needed.

A yearly "thank you" is not enough. India needs a health system that sees nurses not just as caregivers but also as leaders. Honouring them means confronting hard truths about power and privilege.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



The yearly 'thank you' to nurses is not enough नर्सों को सालाना 'धन्यवाद' देना पर्याप्त नहीं है

• May 12 is observed annually as International Nurses Day, honoring Florence Nightingale and celebrating the unsung heroes of healthcare — nurses.

• 12 मई को हर साल अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सम्मानित किया जाता है और स्वास्थ्य सेवा के उन अनकहे नायकों — नर्सों का उत्सव मनाया जाता है।

• Although nurses are praised on this day, the urgency to truly **empower** these key healthcare workers quickly fades afterward.

• यद्यपि इस दिन नर्सों की प्रशंसा की जाती है, लेकिन वास्तव में इन्हें **सशक्त** बनाने की आवश्यकता जल्दी ही भूल जाती है।

Nursing beyond tradition

परंपरा से परे नर्सिंग

• Nurses and midwives make up nearly **47%** of India's total **health workforce**, yet they remain under-represented in **leadership**, **policy-making**, and **autonomous clinical roles**.

• भारत की कुल **स्वास्थ्य कार्यबल** में नर्सों और दाइयाँ लगभग **47%** हैं, फिर भी वे **नेतृत्व**, **नीति-निर्माण**, और **स्वायत्त नैदानिक भूमिकाओं** में कम प्रतिनिधित्व रखती हैं।

• The perception that nurses are only **assistants to doctors** still prevails, limiting their potential despite global trends proving otherwise.

• नर्सों को केवल **डॉक्टरों की सहायक** समझा जाना अभी भी प्रचलित है, जो उनकी क्षमता को सीमित करता है, जबकि वैश्विक रुझान इसका विपरीत साबित करते हैं।

• Countries like **Australia**, **Botswana**, **Brazil**, **South Africa**, **Thailand**, **the UK**, **the US**, and **Zambia** have embraced **Nurse Practitioners (NPs)** as independent, advanced care providers who address healthcare gaps.

• **ऑस्ट्रेलिया**, **बोत्सवाना**, **ब्राज़ील**, **दक्षिण अफ्रीका**, **थाईलैंड**, **यूनाइटेड किंगडम**, **अमेरिका** और **ज़ाम्बिया** जैसे देशों ने **नर्स प्रैक्टिशनर (NPs)** को स्वतंत्र, उन्नत देखभाल प्रदाता के रूप में अपनाया है जो स्वास्थ्य सेवा की कमी को पूरा करते हैं।

• Nurse Practitioners are **advanced practice registered nurses** with specialized training, often at the **master's level**, certified to **diagnose**, **treat**, and **prescribe independently** in many settings.



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• नर्स प्रैक्टिशनर वे **उन्नत प्रैक्टिस पंजीकृत नर्स** होती हैं जिनके पास विशिष्ट प्रशिक्षण होता है, अक्सर **मास्टर स्तर** पर, और वे कई क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से **निदान, उपचार और दवा लिखने** के लिए प्रमाणित होती हैं।

• India has recognized the need for NPs to expand healthcare access in **underserved areas**, with the **National Health Policy 2017** acknowledging mid-level providers including NPs as crucial to primary care.

• भारत ने **अल्पसेवित क्षेत्रों** में स्वास्थ्य सेवा पहुंच बढ़ाने के लिए NPs की आवश्यकता को स्वीकार किया है, और **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017** में मध्य-स्तरीय प्रदाताओं, जिनमें NPs भी शामिल हैं, को प्राथमिक देखभाल के लिए आवश्यक माना गया है।

• The Indian Nursing Council (INC) started structured NP programs like **Nurse Practitioner in Critical Care (NPCC) in 2017** and **Nurse Practitioner in Primary Health Care (NPPHC)**, but integration remains slow.

• भारतीय नर्सिंग परिषद (INC) ने **2017 में नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर (NPCC)** और प्राथमिक **स्वास्थ्य देखभाल में नर्स प्रैक्टिशनर (NPPHC)** जैसे कार्यक्रम शुरू किए, लेकिन इन्हें पूरी तरह शामिल करना अभी धीमा है।

• Initiatives such as the **NP in Midwifery program (2002)** in West Bengal and similar efforts in Telangana and Kerala have struggled due to lack of clear **legal framework**, defined roles, and protected titles.

• पश्चिम बंगाल में **मिडवाइफरी में NP प्रोग्राम (2002)** और तेलंगाना तथा केरल में इसी तरह के प्रयास स्पष्ट **कानूनी ढांचे**, परिभाषित भूमिकाओं और सुरक्षित शीर्षकों की कमी के कारण संघर्ष कर रहे हैं।

• Some institutions offer in-house training for extended roles (like **stoma nurses, diabetes educators, stroke nurses**), but these positions lack **regulatory backing** and **national recognition**.

• कुछ संस्थान विस्तारित भूमिकाओं के लिए आंतरिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं (जैसे **स्टोमा नर्स, डायबिटीज शिक्षकों, स्ट्रोक नर्स**), लेकिन इन पदों को **नियामक समर्थन** और **राष्ट्रीय मान्यता** नहीं मिली है।

• India's NP education programs focus on **advanced clinical skills, diagnosis, treatment, limited prescribing authority, and community engagement**.

• भारत के NP शिक्षा कार्यक्रम **उन्नत नैदानिक कौशल, निदान, उपचार, सीमित दवा लिखने का अधिकार, और समुदाय से जुड़ाव** पर केंद्रित हैं।

• Challenges include the absence of a clear **legal framework** defining NP practice scope, including **prescriptive rights**.

• चुनौतियों में स्पष्ट **कानूनी ढांचे** का अभाव शामिल है जो NP के कार्यक्षेत्र और **दवा लिखने के अधिकार** को परिभाषित करे।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- Resistance within parts of the medical community, fearing loss of power, complicates NP integration.
- चिकित्सा समुदाय के कुछ हिस्सों में शक्ति खोने के डर से प्रतिरोध NP को शामिल करने में बाधा डालता है।
- The curriculum emphasizes clinical skills but leaves **regulatory frameworks, licensure clarity, and career pathways** unclear.
- पाठ्यक्रम नैदानिक कौशल पर जोर देता है लेकिन **नियामक ढांचे, लाइसेंसिंग स्पष्टता, और करियर मार्ग** अस्पष्ट छोड़ देता है।
- Questions remain: Who will license NPs? Will they get legal recognition? Will they be absorbed into public health systems or excluded?
- प्रश्न बने हुए हैं: NP को कौन लाइसेंस देगा? क्या उन्हें कानूनी मान्यता मिलेगी? क्या उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में शामिल किया जाएगा या बाहर रखा जाएगा?
- This ambiguity is not just administrative but existential for nurses.
- यह अस्पष्टता केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि नर्सों के लिए **अस्तित्वगत** है।

Lessons from Australia

ऑस्ट्रेलिया से सबक

- The **Nurse Practitioner (NP) movement** in Australia began with a clear goal to **improve access** in underserved areas and to provide **clinical autonomy** to qualified nurses.
- ऑस्ट्रेलिया में **नर्स प्रैक्टिशनर (NP) आंदोलन** की शुरुआत एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ हुई थी, जो अंडरसर्व्ड क्षेत्रों में **सेवा पहुंच बढ़ाना** और योग्य नर्सों को **स्वतंत्र चिकित्सीय अधिकार** प्रदान करना था।
- The success was not only due to policy but also because of **political support**.
- यह सफलता केवल नीति के कारण नहीं बल्कि **राजनीतिक समर्थन** के कारण भी थी।
- Nursing movements were actively included in policy discussions.
- नीति चर्चाओं में नर्सिंग आंदोलनों को सक्रिय रूप से शामिल किया गया।
- Legislation protected the **NP title**.
- **NP पदनाम** को कानूनी संरक्षण मिला।
- Formal **licensure** and clear **career ladders** were established.
- औपचारिक **लाइसेंसिंग** और स्पष्ट **करियर मार्ग** बनाए गए।
- Nurse-led models like **walk-in centres** proved that care can be effective, safe, and appreciated **without a physician's stamp**.
- **वॉक-इन सेंटर** जैसे नर्स-नेतृत्व वाले मॉडल ने साबित किया कि देखभाल प्रभावी, सुरक्षित और सराहनीय हो सकती है बिना डॉक्टर के हस्ताक्षर के।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• Resistance to nurse autonomy in India comes from **policy gaps** and deep-rooted **cultural, gender, and hierarchical biases**.

• भारत में नर्सों की स्वतंत्रता का विरोध नीति में खामियों और गहरे जड़ों वाली सांस्कृतिक, लिंग और पदानुक्रम संबंधी पूर्वाग्रहों से आता है।

• Nurses, mostly women, are seen as subordinates to doctors, affecting policy decisions including opposition to NP roles by the medical community.

• नर्सों को, जो ज्यादातर महिलाएं हैं, डॉक्टरों के अधीनस्थ माना जाता है, जो नीति निर्णयों को प्रभावित करता है और चिकित्सा समुदाय द्वारा NP भूमिकाओं का विरोध करता है।

• There is a **crisis in nursing education** due to lax regulation and corruption.

• कमजोर नियमन और भ्रष्टाचार के कारण नर्सिंग शिक्षा में एक संकट है।

• The **National Nursing and Midwifery Commission Act, 2023** signals reform, but its real impact is still uncertain.

• नेशनल नर्सिंग और मिडवाइफरी कमीशन अधिनियम, 2023 सुधार का संकेत देता है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव अभी अनिश्चित है।

• A lack of strong, unified nursing movements limits the profession's ability to influence policy.

• मजबूत, एकीकृत नर्सिंग आंदोलनों की कमी पेशे की नीति बनाने की क्षमता को सीमित करती है।

Let nurses lead

नर्सों को नेतृत्व करने दें

• NPs are formally recognized in many **high-income, low- and middle-income countries**.

• NP को कई उच्च आय, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में औपचारिक रूप से मान्यता मिली है।

• Ironically, Indian nurses excel in NP roles abroad but remain **untapped** in India.

• विडंबना यह है कि भारतीय नर्सों विदेशों में NP भूमिकाओं में उत्कृष्ट हैं, लेकिन भारत में उनकी संभावनाएं अछूती रह जाती हैं।

• Evidence shows NP-led care achieves outcomes similar to physicians, with **high patient satisfaction and lower costs**.

• सबूत दिखाते हैं कि NP-नेतृत्व वाली देखभाल चिकित्सकों के समान परिणाम देती है, जिसमें उच्च रोगी संतुष्टि और कम लागत होती है।

• India needs a **collaborative, team-based care model** where nurses practice to their full scope to provide **equitable and quality health care**.

• भारत को एक सहयोगात्मक, टीम-आधारित देखभाल मॉडल की आवश्यकता है जहाँ नर्सों अपनी पूरी क्षमता से काम करें ताकि समान और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिल सके।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : info@patrioticias.in

Contact Number : 9971932488

Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- Realizing NP roles in India requires urgent reforms in **nursing education, regulation, and leadership**.
- भारत में NP भूमिकाओं को साकार करने के लिए **नर्सिंग शिक्षा, नियमन, और नेतृत्व** में तुरंत सुधार आवश्यक हैं।
- Reforms include closing **substandard colleges**, enhancing **faculty competency**, bridging the **theory-practice gap**, and integrating **ethics, leadership, and policy engagement** into curricula.
- सुधार में **अधोगुणात्मक कॉलेजों को बंद करना, फैकल्टी की दक्षता बढ़ाना, सिद्धांत-व्यवहार अंतर को पाटना, और पाठ्यक्रम में नीति, नेतृत्व और नैतिकता** को शामिल करना शामिल है।
- Legal recognition of NPs with defined **licensure** and **accountability** is crucial.
- परिभाषित **लाइसेंसिंग** और **जवाबदेही** के साथ NPs की कानूनी मान्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- Clear **career pathways**, fair **pay**, and advancement opportunities must replace stagnation in nursing roles.
- नर्सिंग भूमिकाओं में ठहराव को हटाकर स्पष्ट **करियर मार्ग**, उचित **वेतन**, और उन्नति के अवसर होने चाहिए।
- Addressing the **gender-based undervaluation** of nursing is essential.
- नर्सिंग के प्रति **लिंग आधारित अवमूल्यन** को दूर करना आवश्यक है।
- Nurses must **lead nursing reforms** through sustained **policy engagement**.
- नर्सों को निरंतर **नीति सगाई** के माध्यम से **नर्सिंग सुधारों का नेतृत्व** करना चाहिए।
- Nurses' lived experiences uniquely position them to **advocate change** and challenge medical hierarchy.
- नर्सों के वास्तविक अनुभव उन्हें **परिवर्तन की पैरवी** करने और चिकित्सा पदानुक्रम को चुनौती देने के लिए विशिष्ट स्थिति में रखते हैं।
- Grassroots nursing movements, supported by strategic alliances and driven by courage, commitment, and truth-speaking, are needed.
- रणनीतिक गठजोड़ से समर्थित, साहस, प्रतिबद्धता और सच्चाई बोलने से प्रेरित, **जमीनी स्तर के नर्सिंग आंदोलन** आवश्यक हैं।
- A yearly "thank you" is not enough; India needs a health system that sees nurses not just as caregivers but as **leaders**.
- सालाना एक "धन्यवाद" पर्याप्त नहीं है; भारत को एक ऐसा स्वास्थ्य प्रणाली चाहिए जो नर्सों को सिर्फ देखभाल करने वाले नहीं बल्कि **नेता** के रूप में देखे।
- Honoring nurses means confronting hard truths about **power** and **privilege**.
- नर्सों का सम्मान करने का मतलब है **शक्ति और विशेषाधिकार** के कठिन सच्चाइयों का सामना करना।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



Does Article 21 include right to digital access?

What approach does the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016 take? Why do banks and other financial and government institutions mandate collecting KYC details? How does the current digital KYC framework exclude visually impaired individuals and acid attack survivors?

GS Paper II: Fundamental Rights

EXPLAINER

Kartikey Singh

The story so far:

In April 30, the Supreme Court (SC) directed revisions to Know-Your-Customer (KYC) digital norms to ensure accessibility for 'persons with disabilities' (PwD), reinterpreting Article 21 of the Constitution to encompass the 'right to digital access'.

What laws safeguard rights of PwD?

The Constitution, through its Preamble, Fundamental Rights, and Directive Principles, alongside disability statutes, obligates the state to adapt laws, policies, and infrastructure which allow PwDs to exercise their rights on par with others. Advancing these guarantees and giving effect to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCPRD), India enacted the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016, which adopted a 'social-barrier' approach that defines disability as arising from impairments, along with physical, mental, intellectual, social, and psycho-social obstacles which make full participation in society difficult.

Crucially, Section 42 of the RPwD Act, 2016, mandates 'government measures' to ensure that all audio, print, and electronic media are accessible; that electronic media includes audio description, sign-language interpretation, and captions; and that everyday electronic goods and equipment follow 'universal-design' principles.

Are KYC details mandatory?

To curb illegal finance and money laundering, the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (and its 2005 Rules) mandates every bank and financial institution to verify client identities, maintain comprehensive records, and report relevant information to the Financial Intelligence Unit. Consequently,



GETTY IMAGES

digital KYC verification has become indispensable for a wide range of essential services – from opening a bank, demat or trading account to accessing SIM cards, pension schemes or insurance policies. It also unlocks government benefits – from national scholarships to Aadhaar-linked 'direct benefit transfers'.

Building on this mandate, the RBI's 2016 Master Direction on Know Your Customer (KYC) rules prescribe a Customer Due Diligence (CDD) framework and, via Clause 18, introduces Video-based Customer Identification Process (V-CIP), enabling remote customer verification through secure, real-time video interaction. Customers can prove their identity online by clicking a selfie; signing on a paper physically or digitally; printing and rescanning, or clicking a photo of the filled-in form; verifying OTPs in 30 seconds; and reading

a random code flashed on the screen.

How does it affect PwDs?

Acid-attack survivors left with permanent 'facial disfigurement' and severe eye burns – and individuals with complete blindness or low vision – have filed writ petitions seeking directions to respondents, including RBI, the Department of Telecommunications and SEBI, to devise alternative digital KYC, e-KYC and video-KYC methods to make remote identity checks inclusive for all PwDs as they face significant hurdles under the current framework.

Currently, each 'regulated entity' has to devise its own tests. Methods such as eye-blinking, reading a flashing code, or writing it down and taking a selfie exclude blind users. Despite clear mandates in the 2021 and 2022 Information and Communication Technology (ICT)

Accessibility Standards, most KYC apps and websites flout them – there is no screen-reader prompt for camera alignment, no audio cues for lighting or focus, and no way to differentiate document sides during upload. Additionally, thumb impressions, commonly used by visually impaired users, are not accepted as valid signatures, nor are PAN cards issued with them. Aadhaar-based biometric systems worsen the exclusion. Scanners and interfaces lack basic 'accessibility' features such as 'text-to-speech' or 'self-verification'. As a result, blind applicants are frequently asked to appear in person or are rejected on vague technical grounds. The RBI's Master Directions also bar any form of 'prompting' during KYC verification, leaving users without assistance.

How has the SC intervened?

The SC has consistently held that accessibility for PwDs is a 'constitutional imperative'. In *Rajive Raturi versus Union of India* (2024), it ruled that 'accessibility' is central to the right to life, dignity, and freedom of movement under Article 21. During the COVID-19 vaccination drive, the court emphasised that digital registration must be fully accessible to prevent exclusion. In the instant case, the top court held that 'digital barriers' blatantly violate the rights of PwD under the UNCPRD and India's disability laws. Anchoring its judgment in the principle of 'substantive equality', it directed that digital KYC guidelines be revised with 'accessibility' at their core. It flagged that the digital divide affects not just PwDs, but rural users, senior citizens, the economically disadvantaged, and linguistic minorities.

Relying on Articles 14, 15, 21, and 38, the court affirmed that 'digital access' is inseparable from the 'right to life and liberty'. It mandated the state to ensure that all digital infrastructure is accessible, especially for marginalised communities. *Kartikey Singh is a lawyer based in New Delhi.*

THE GIST

To curb illegal finance and money laundering, the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (and its 2005 Rules) mandates every bank and financial institution to verify client identities, maintain comprehensive records, and report relevant information to the Financial Intelligence Unit.

Methods such as eye-blinking, reading a flashing code, or writing it down and taking a selfie exclude blind users.

The SC has consistently held that accessibility for PwDs is a 'constitutional imperative'.

Right to Digital Access under Article 21

अनुच्छेद 21 के अंतर्गत डिजिटल पहुंच का अधिकार

• On April 30, the Supreme Court directed a revision of digital Know Your Customer (KYC) norms to ensure accessibility for persons with disabilities (PwD).

• 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग व्यक्तियों (PwD) के लिए पहुंच सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल KYC नियमों में संशोधन का निर्देश दिया।

- The Court reinterpreted Article 21 of the Constitution to include the right to digital access.
- न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या डिजिटल पहुंच के अधिकार को भी शामिल करते हुए की।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



Legal Safeguards for **Persons with Disabilities (PwD)**

विकलांग व्यक्तियों (PwD) के लिए कानूनी संरक्षण

- The **Constitution** (through the **Preamble**, **Fundamental Rights**, and **Directive Principles**) and specific **disability laws** obligate the state to create inclusive laws and infrastructure for PwDs.
- **संविधान** (प्रस्तावना, मूल अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से) और विशेष **विकलांगता कानून** राज्य को PwD के लिए समावेशी कानून और ढांचा बनाने के लिए बाध्य करते हैं।
- India enacted the **Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016** to implement the **UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)**.
- भारत ने **विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act)** को **संयुक्त राष्ट्र विकलांगता अधिकार संधि (UNCRPD)** के कार्यान्वयन हेतु लागू किया।
- The RPwD Act adopts a **“social-barrier” approach** where disability is not just medical, but also caused by **physical, mental, intellectual, social, and psycho-social barriers**.
- RPwD अधिनियम एक **"सामाजिक-बाधा"** दृष्टिकोण अपनाता है, जहाँ विकलांगता केवल चिकित्सा नहीं बल्कि **शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और मनो-सामाजिक बाधाओं** के कारण भी मानी जाती है।
- **Section 42** of the Act mandates **government measures** to make **audio, print, and electronic media** accessible.
- अधिनियम की **धारा 42** सरकार को **ऑडियो, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया** को सुलभ बनाने के लिए उपाय करने का निर्देश देती है।
- It also requires **electronic media** to include **audio description, sign-language interpretation, and captions**, and mandates **universal-design** in electronic goods.
- यह **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया** में **ऑडियो विवरण, सांकेतिक भाषा की व्याख्या और कैप्शन** को शामिल करने तथा सभी **इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों** में **यूनिवर्सल डिजाइन** को अनिवार्य बनाता है।

Are KYC Details Mandatory?

क्या KYC विवरण अनिवार्य हैं?

- To prevent **illegal finance and money laundering**, the **Prevention of Money-laundering Act, 2002**, and its **2005 Rules** make it mandatory for banks and financial institutions to verify client identities.
- **अवैध वित्त और मनी लॉन्ड्रिंग** को रोकने के लिए, **धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002** और इसके **2005 नियम**, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ग्राहक पहचान सत्यापित करना अनिवार्य बनाते हैं।
- These institutions must maintain **comprehensive records** and report them to the **Financial Intelligence Unit**.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• इन संस्थानों को व्यापक रिकॉर्ड बनाए रखने और उन्हें वित्तीय खुफिया इकाई को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है।

• **Digital KYC** has become essential for accessing services like **bank accounts, demat/trading accounts, SIM cards, pensions, and insurance policies.**

• डिजिटल KYC सेवाओं जैसे कि बैंक खाता, डीमैट/ट्रेडिंग खाता, सिम कार्ड, पेंशन और बीमा नीतियों तक पहुंच के लिए आवश्यक हो गया है।

• It is also necessary for **government benefits** such as **national scholarships and Aadhaar-linked Direct Benefit Transfers (DBTs).**

• यह राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और आधार से जुड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) जैसी सरकारी लाभ योजनाओं के लिए भी आवश्यक है।

Digital KYC and RBI Framework

डिजिटल KYC और आरबीआई रूपरेखा

• The **RBI's 2016 Master Direction on KYC** outlines a **Customer Due Diligence (CDD)** framework.

• आरबीआई के 2016 मास्टर निर्देश एक ग्राहक सतर्कता (CDD) ढांचे की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं।

• **Clause 18** of these rules introduces the **Video-based Customer Identification Process (V-CIP)**, allowing remote verification through **real-time secure video.**

• इन नियमों की धारा 18 वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (V-CIP) की शुरुआत करती है, जो रीयल-टाइम सुरक्षित वीडियो के माध्यम से दूरस्थ सत्यापन की अनुमति देती है।

• **Customers must complete steps such as:**

- Clicking a **selfie**
- Signing on paper (physically or digitally)
- **Printing, rescanning, or photographing** the filled form
- Verifying **OTPs within 30 seconds**
- Reading a **random code** flashed on screen
- ग्राहकों को निम्नलिखित चरणों को पूरा करना होता है:
 - **सेल्फी क्लिक करना**
 - कागज़ पर हस्ताक्षर करना (भौतिक या डिजिटल रूप से)
 - भरे हुए फॉर्म को **प्रिंट, रीस्कैन या फोटोग्राफ** करना
 - **30 सेकंड के भीतर OTP सत्यापित** करना
 - स्क्रीन पर फ्लैश किए गए **रैंडम कोड** को पढ़ना

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : info@patrioticias.in

Contact Number : 9971932488

Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



How the Current Digital KYC Excludes Certain PwDs

कैसे वर्तमान डिजिटल KYC कुछ विकलांग व्यक्तियों को बाहर करता है

- These steps are often inaccessible to individuals who are **visually impaired** or **acid attack survivors** with facial disfigurements.
 - ये प्रक्रियाएं अक्सर उन व्यक्तियों के लिए **असुलभ** होती हैं जो **दृष्टिहीन** हैं या **तेज़ाब हमले के पीड़ित** हैं जिनका चेहरा विकृत हो चुका है।
- **Facial recognition** and **selfie verification** exclude many PwDs from accessing essential financial and government services.
 - **चेहरे की पहचान** और **सेल्फी सत्यापन** कई विकलांग व्यक्तियों को आवश्यक वित्तीय और सरकारी सेवाओं से वंचित कर देते हैं।
- The Supreme Court's directive aims to **remove these digital barriers** and ensure **equal digital access** for all.
 - सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश **इन डिजिटल बाधाओं को हटाने** और सभी के लिए **समान डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने** का प्रयास है।

Impact on Persons with Disabilities (PwDs)

विकलांग व्यक्तियों (PwDs) पर प्रभाव

- Acid-attack survivors with **permanent facial disfigurement** and **severe eye burns**, along with individuals with **complete blindness** or **low vision**, have filed writ petitions seeking directions for alternative KYC methods.
 - तेज़ाब हमले के पीड़ित जिनके चेहरे पर **स्थायी विकृति** और **गंभीर आंखों की जलन** है, साथ ही **पूर्ण रूप से नेत्रहीन** या **कम दृष्टि** वाले व्यक्तियों ने वैकल्पिक KYC तरीकों के लिए याचिकाएं दायर की हैं।
- Petitions target **RBI**, the **Department of Telecommunications**, and **SEBI**, urging them to create **inclusive digital KYC, e-KYC, and video-KYC methods**.
 - याचिकाएं **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)**, **दूरसंचार विभाग**, और **SEBI** को लक्ष्य बनाते हुए **डिजिटल KYC, ई-KYC और वीडियो-KYC** को समावेशी बनाने की मांग कर रही हैं।
- **Current KYC frameworks** pose significant challenges to PwDs. Each **regulated entity** creates its own tests, like **eye-blinking**, reading or writing a **flashing code**, and taking a **selfie**, which **exclude blind users**.
 - **वर्तमान KYC ढांचे** PwDs के लिए गंभीर बाधाएं उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक **नियंत्रित इकाई** अपनी स्वयं की परीक्षा विधियाँ बनाती है जैसे कि **पलक झपकाना**, **कोड पढ़ना** या **लिखना**, और **सेल्फी लेना**, जो **नेत्रहीन उपयोगकर्ताओं को बाहर कर देती हैं**।
- Despite **2021 and 2022 ICT Accessibility Standards**, most KYC apps and websites violate them — **no screen-reader prompt**, **no audio cues** for camera **lighting** or **focus**, and **no**

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



document-side guidance during uploads.

- 2021 और 2022 की ICT एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स के बावजूद, अधिकांश KYC ऐप और वेबसाइटें उनका उल्लंघन करती हैं — स्क्रीन-रीडर संकेत नहीं होते, कैमरे की लाइटिंग या फोकस के लिए ऑडियो संकेत नहीं, और अपलोड के दौरान दस्तावेज की दिशा बताने वाला कोई संकेत नहीं होता।

- **Thumb impressions**, commonly used by visually impaired users, are not accepted as **valid signatures**, and **PAN cards** are not issued with them.

- दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं द्वारा आमतौर पर उपयोग की जाने वाली अंगूठे की छाप को वैध हस्ताक्षर के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, और इसके साथ **पैन कार्ड** जारी नहीं किए जाते।

- **Aadhaar-based biometric systems** worsen exclusion. Devices lack **text-to-speech** or **self-verification** features.

- आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली बहिष्करण को और बढ़ा देती हैं। उपकरणों में **टेक्स्ट-टू-स्पीच** या **स्व-पुष्टि** जैसी सुविधाएं नहीं होती हैं।

- Blind applicants are often asked to appear **in person** or are **rejected** due to **technical reasons**.

- नेत्रहीन आवेदकों को अक्सर **स्वयं उपस्थित** होने को कहा जाता है या **तकनीकी कारणों** से उन्हें **अस्वीकृत** कर दिया जाता है।

- **RBI's Master Directions** prohibit any form of **prompting** during KYC, leaving PwDs without assistance.

- **RBI के मास्टर निर्देशों** में KYC के दौरान किसी भी प्रकार के **संकेत देने** पर रोक है, जिससे PwDs को **सहायता** नहीं मिल पाती।

Supreme Court's Intervention

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप

- The **Supreme Court** has held that **accessibility** is a **constitutional imperative** for PwDs.

- **सुप्रीम कोर्ट** ने माना है कि PwDs के लिए **सुलभता** एक **संवैधानिक अनिवार्यता** है।

- In **Rajive Raturi vs Union of India (2024)**, the Court ruled that accessibility is vital to **Article 21 rights** — **life, dignity, and freedom of movement**.

- **राजीव रतूरी बनाम भारत संघ (2024)** में अदालत ने फैसला दिया कि **अनुच्छेद 21** के तहत **जीवन, गरिमा और गतिशीलता की स्वतंत्रता** के अधिकारों के लिए **सुलभता** अत्यंत आवश्यक है।

- During the **COVID-19 vaccination drive**, the Court emphasized that **digital registration** must be **fully accessible** to avoid exclusion.

- **कोविड-19 टीकाकरण अभियान** के दौरान, अदालत ने यह जोर दिया कि **डिजिटल पंजीकरण** पूरी तरह **सुलभ** होना चाहिए ताकि किसी को बाहर न किया जाए।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- In this case, the Court ruled that **digital barriers** violate rights under the **UNCRPD** and India's **disability laws**.
- इस मामले में, अदालत ने कहा कि **डिजिटल अवरोध UNCRPD** और भारत के **दिव्यांगता कानूनों** के तहत अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
- The judgment was based on '**substantive equality**', and it directed that **digital KYC guidelines must be revised with accessibility as their core principle**.
- यह निर्णय '**मौलिक समानता**' के सिद्धांत पर आधारित था और अदालत ने निर्देश दिया कि डिजिटल KYC दिशानिर्देशों को **सुलभता को मुख्य आधार** बनाकर संशोधित किया जाए।
- The Court noted that **digital exclusion** affects not only PwDs, but also **rural users, senior citizens, the economically weaker sections, and linguistic minorities**.
- अदालत ने यह भी कहा कि **डिजिटल बहिष्करण** न केवल PwDs को बल्कि **ग्रामीण उपयोगकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, और भाषाई अल्पसंख्यकों** को भी प्रभावित करता है।
- Referring to **Articles 14, 15, 21, and 38**, the Court affirmed that **digital access is inseparable from the right to life and liberty**.
- अनुच्छेद 14, 15, 21 और 38 का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि **डिजिटल पहुंच जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से अलग नहीं की जा सकती**।
- The Court mandated the **state** to ensure **all digital infrastructure** is accessible, especially for **marginalised communities**.
- अदालत ने राज्य को निर्देश दिया कि वह **सभी डिजिटल अवसंरचना** को विशेषकर **हाशिए पर पड़े समुदायों** के लिए सुलभ बनाए।



Should **NOTA** be included in all elections compulsorily?

When was NOTA first introduced? What is the Election Commission's position on NOTA?

GS Paper II: Elections

Sanjay Kumar

The story so far:

Recently, the Vidhi Centre for Legal Policy filed a Public Interest Litigation (PIL) for including NOTA as an option compulsorily in every election, even if there is only one single candidate.

When was NOTA introduced?

NOTA or the 'None of the Above' option was introduced in Indian elections for the first time in 2013 on the PIL filed by the People's Union for Civil Liberties which sought a mechanism to "recognise the right of a voter not to vote, but still the secrecy of his having not voted is not maintained in its implementation..."

Is NOTA relevant in Indian elections?

It is true that not many voters have opted for NOTA during the last national election and the other subsequent State-level

elections. However, not holding an election in a constituency because there is only one candidate, would mean denying voters the chance of expressing their opinion (through NOTA) against that single candidate who will anyhow get elected unopposed. The Election Commission (EC) has argued against NOTA stating that it has not brought in the desired results as not many voters have opted for NOTA in past elections. But one should not forget that NOTA is a way through which our electoral system can become more responsive to people.

What is the EC's argument?

The EC is completely opposed to the idea of making NOTA a compulsory option in all constituencies even if there is only one candidate contesting the election. The Election Commission presented data that in all the Lok Sabha elections held since 1971, there have been only six uncontested elections. Another data point

cited by the EC was that since 1952, there have been only nine cases of candidates getting elected unopposed. The EC's lawyer said that, "the chance of election being uncontested has become a rarity which is also proven by statistical data; hence Supreme Court should not even entertain such a PIL". They went on to argue that "treating NOTA as mandatorily contesting candidate in all direct uncontested elections does not find a place in the statutes and same would require legislative amendments in the provisions of Representation of the People Act 1951, and the conduct of Election Rules 1961".

Since it is such a rarity, the EC should not have its hands full. If the EC can conduct elections in such a large number of constituencies given its resources, holding elections in constituencies, with a NOTA option, even if there is only one candidate, should not amount to a lot of additional work.

Are NOTA voters a minority?

It is true that looking in terms of per cent only little more than 1% of voters, voted for NOTA in the three Lok Sabha elections (2014, 2019 and 2024) held since NOTA was introduced. But given the size of the electorate in one Parliamentary constituency, each having on an average about 25 lakh voters, even these numbers are not small. There are many State assembly elections where little more than 1% opted for NOTA over the last decade, the highest being in Bihar with 2.48% during the 2015 Assembly election, followed by Gujarat with 1.8% during the 2017 Assembly elections. If one looks at the NOTA votes over the years in different States, one sees that it was slightly higher in the very first election held in the State after NOTA was introduced but declined in subsequent elections, although the trend is not linear.

What next?

Some reforms are needed. One can be by fixing the minimum per cent of votes to be polled by the candidate as a benchmark for getting elected depending upon the size of the constituency. The other method could be by giving legitimacy to NOTA votes and voters, by making a provision for re-election if certain percentage of voters opt for NOTA in an election.

Sanjay Kumar is Professor and Co-director Lokniti-CSDS.

THE GIST

NOTA or the 'None of the Above' option was introduced in Indian elections for the first time in 2013.

The EC is completely opposed to the idea of making NOTA a compulsory option in all constituencies even if there is only one candidate contesting the election.

It is true that looking in terms of per cent only little more than 1% of voters, voted for NOTA in the three Lok Sabha elections (2014, 2019 and 2024) held since NOTA was introduced.

Should NOTA be included in all elections compulsorily?

क्या NOTA को सभी चुनावों में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए?

• Recent PIL by Vidhi Centre for Legal Policy

• Recently, the Vidhi Centre for Legal Policy filed a Public Interest Litigation (PIL) demanding that **NOTA should be compulsorily included in every election, even if there is only one candidate.**

• हाल ही में विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने एक जनहित याचिका (PIL) दायर की, जिसमें मांग की गई कि **NOTA को हर चुनाव में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, भले ही वहां केवल एक ही उम्मीदवार हो।**

• **NOTA (None of the Above) was introduced in Indian elections in 2013 following a PIL by the People's Union for Civil Liberties.**

• **NOTA (इनमें से कोई नहीं) को 2013 में भारत के चुनावों में शामिल किया गया था, जो कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा दायर एक PIL के बाद हुआ था।**

• The PIL sought a mechanism to **recognise the right of a voter not to vote, while still maintaining secrecy.**

• याचिका में एक ऐसे तंत्र की मांग की गई थी जिससे मतदाता का मतदान न करने का अधिकार मान्यता प्राप्त हो और गोपनीयता बनी रहे।

Is NOTA relevant in Indian elections?

क्या NOTA भारतीय चुनावों में प्रासंगिक है?



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• Though **few voters** have opted for NOTA in national and state elections, it gives voters the **chance to express disapproval**, especially in **single-candidate** elections.

• हालांकि राष्ट्रीय और राज्य चुनावों में कम मतदाताओं ने NOTA को चुना है, फिर भी यह मतदाताओं को अस्वीकृति व्यक्त करने का अवसर देता है, विशेषकर एकमात्र उम्मीदवार वाले चुनावों में।

• The **Election Commission (EC)** has argued that NOTA has **not achieved the desired impact**, as very **few voters** have chosen it.

• निर्वाचन आयोग (EC) का तर्क है कि NOTA ने अपेक्षित प्रभाव नहीं डाला है क्योंकि बहुत कम मतदाताओं ने इसका उपयोग किया है।

• Despite this, NOTA serves as a **tool to make the electoral system more accountable** to public opinion.

• इसके बावजूद, NOTA हमारे चुनावी प्रणाली को जनता की राय के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने का एक उपकरण है।

What is the EC's argument?

EC का तर्क क्या है?

• The **EC opposes** making NOTA **compulsory** in constituencies with **only one candidate**.

• EC का विरोध है कि जहां केवल एक उम्मीदवार हो, वहां NOTA को अनिवार्य किया जाए।

• Since **1971**, only **six uncontested elections** occurred in **Lok Sabha polls**, and only **nine such cases** since **1952**.

• 1971 से अब तक लोकसभा चुनावों में केवल 6 निर्विरोध चुनाव हुए हैं और 1952 से अब तक केवल 9 मामलों में उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं।

• The EC argued that making NOTA **compulsory** in such cases would **require amendments** to the **Representation of the People Act, 1951** and the **Conduct of Election Rules, 1961**.

• EC का तर्क है कि ऐसे मामलों में NOTA को अनिवार्य बनाना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनाव आचरण नियम, 1961 में संशोधन की मांग करेगा।

• According to the EC, since **uncontested elections are rare**, it is **unnecessary** to make legislative changes for such **exceptional situations**.

• EC के अनुसार, चूंकि निर्विरोध चुनाव बहुत दुर्लभ होते हैं, इसलिए इस तरह की अपवाद स्थितियों के लिए कानूनी बदलाव करना अनावश्यक है।

• Critics argue that if the **EC can manage elections** in thousands of constituencies, it can also **manage NOTA-based elections** in the rare cases of uncontested polls.

• आलोचकों का तर्क है कि यदि EC हजारों क्षेत्रों में चुनाव करवा सकता है, तो वह **NOTA आधारित चुनावों** का भी प्रबंधन कर सकता है, भले ही वे दुर्लभ हों।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : info@patrioticias.in

Contact Number : 9971932488

Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



Are NOTA voters a minority?

क्या NOTA मतदाता अल्पसंख्यक हैं?

- In 2014, 2019, and 2024 Lok Sabha elections, only **slightly more than 1%** of voters chose NOTA.
- 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में केवल थोड़े से अधिक 1% मतदाताओं ने NOTA को चुना।
- In a Parliamentary constituency with **about 25 lakh voters**, even **1% NOTA votes** represent a **large number**.
- एक संसदीय क्षेत्र में जहां लगभग 25 लाख मतदाता होते हैं, वहां 1% NOTA वोट भी एक बड़ी संख्या को दर्शाते हैं।
- **State-level data on NOTA**
 - In Bihar, NOTA reached **2.48%** in the **2015 Assembly elections**, and in Gujarat, it was **1.8%** in **2017**.
 - बिहार में 2015 के विधानसभा चुनावों में NOTA 2.48% तक पहुंचा और गुजरात में 2017 में यह 1.8% रहा।
- Generally, the NOTA share was **slightly higher in the first election** after its introduction in a state and **declined in later elections**, though not in a linear pattern.
- आमतौर पर, किसी राज्य में NOTA का प्रतिशत पहले चुनाव में थोड़ा अधिक होता है और बाद के चुनावों में कम, हालांकि यह स्थिर प्रवृत्ति नहीं है।

What next?

अब आगे क्या?

- One proposed reform is to **fix a minimum percentage of votes** that a candidate must get to be declared elected, depending on the **constituency's size**.
- एक प्रस्तावित सुधार यह है कि उम्मीदवार के निर्वाचन क्षेत्र के आकार के आधार पर एक न्यूनतम प्रतिशत वोट तय किया जाए, जिसे जीतने के लिए आवश्यक माना जाए।
- Another suggestion is to give **legal recognition to NOTA**, and **hold re-elections** if a **certain percentage** of voters opt for NOTA.
- एक और सुझाव यह है कि **NOTA को वैध मान्यता** दी जाए और यदि निर्धारित प्रतिशत मतदाता NOTA को चुनें, तो पुनः चुनाव कराए जाएं।



Account Aggregators: Blueprint for consent managers under the DPDP Act

With the passage of the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023, and the release of the Draft DPDP Rules, 2025, the time is right to expand the Account Aggregator framework to a broader data governance ecosystem by introducing Consent Managers (CMs)

GS Paper II: Governance

NEWS ANALYSIS

B.G. Mahesh
Pranav Narain

India's pioneering Account Aggregator (AA) framework has already demonstrated the transformative potential of consent-driven data-sharing in the financial sector. With the passage of the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023, and the release of the Draft DPDP Rules, 2025, the time is right to expand the AA framework to a broader data governance ecosystem by introducing Consent Managers (CMs).

CMs are envisaged as accessible, transparent, and interoperable platforms that act as a single point of contact for Data Principals (individuals) to give, manage, review, and withdraw their consents across a range of Data Fiduciaries.

Drawing on our learnings from the AA ecosystem, we believe a collaborative and interoperable approach is required while designing and operationalising the consent manager framework under the DPDP Act.

AA framework

The Account Aggregator (AA) framework is a multi-regulatory initiative led by the Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Insurance Regulatory and Development Authority



New normal: The Draft DPDP Rules, 2025 outline various obligations and activities of consent managers. GETTY IMAGES/ISTOCK

of India (IRDAI), Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), and the Ministry of Finance. Operationalised through the RBI's NBFC-AA Master Directions in 2016, this framework empowers individuals to provide, review, manage, and withdraw consent for sharing their financial data.

AAs enable the secure and real-time management of consents for financial information – which includes banking, lending, investment, pension, and tax data – and, consequently, the flow of such financial information directly from source systems.

Financial institutions can access this machine-readable, consent-based data, enabling greater efficiency,



Under the [DPDP] Act, consent managers act as intermediaries through which data principals can give, review, manage, and withdraw consent for sharing their data with the data fiduciaries

productivity, and innovation in delivering customer-centric financial services.

Today, the AA ecosystem operates at a population scale and continues to grow in adoption and utility. The Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023, similarly envisages a consent-manager-led data gover-

nance framework. Under the Act, CMs act as intermediaries through which data principals – the individuals to whom the data relates – can give, review, manage, and withdraw consent for sharing their data with data fiduciaries.

The techno-legal architecture of the consent manager regime aligns closely with the AA model, reinforcing the primacy of explicit and informed consent.

Like AAs, consent managers under the DPDP Act play a critical role in facilitating secure, controlled, and user-centric consent management and data flows across sectors – from healthcare and education to digital commerce and employment.

Need to reconcile

The recently released Draft DPDP Rules, 2025 outline the registration process, obligations, and permitted activities of consent managers. The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has made laudable efforts to clarify the registration and other obligations of consent managers.

Given the significant structural alignment between the AA and CM frameworks and their shared commitment to user empowerment and consent-based data-sharing, we have proposed a few revisions to the Draft Rules, which would help provide clarity

and ensure the continuity of existing sector-specific regulatory frameworks, and enable the effective implementation of the CM framework under the DPDP Act (DPDPA).

1. **Mandatory Registration with the Data Protection Board (DPB):** Entities seeking to operate as consent managers under the DPDP regime must be mandatorily registered with the DPB. This ensures accountability, standardization, and alignment with the regulatory framework.

2. **Enable Sector-Specific Consent Managers:** The DPB should allow for the registration of sector-specific consent managers, provided they operate on common, interoperable APIs and technical specifications as prescribed. This supports innovation while maintaining interoperability and compliance.

For example, in addition to the AA ecosystem already operating at scale, the Financial Health Records (FHR) framework, under the National Health Authority (NHA), is also in advanced stages of development with a comprehensive consent management system and health data schema. Our feedback to MeitY proposes allowing the registration of such sector-specific consent managers as consent managers under the DPDP Act. This would ensure that existing regulatory frameworks are empowered

and remain accountable under the DPDP regime.

3. **Allow Commercial Arrangements with Data Fiduciaries:** To ensure the healthy adoption and sustainable growth of an ecosystem of consent managers, they should be permitted to structure their business models around valid commercial agreements with data fiduciaries.

While consent managers must continue to operate in a fiduciary capacity in relation to data principals, as required under the Draft DPDP Rules, such commercial arrangements, in and of themselves, should not be treated as a conflict of interest, as long as they do not compromise user consent and data protection.

Call for synergy

We advocate for a collaborative approach that leverages the maturity and operational insights of the AA ecosystem to inform the roll-out of the consent manager framework under the DPDP Act.

Rather than building overlapping regulatory architectures, India now has the opportunity to unify its consent-based data-sharing infrastructure, ensuring interoperability, eliminating redundancies, and laying the foundation for a future-ready, user-centric data governance regime.

(B.G. Mahesh is the CEO of Sahamati, and Pranav Narain is the Legal Counsel at Sahamati)

Account Aggregators: Blueprint for Consent Managers under the DPDP Act

खाता संकलक: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के



तहत सहमति प्रबंधकों के लिए खाका

- With the passage of the **Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023**, and the release of the **Draft DPDP Rules, 2025**, it is the right time to expand the **Account Aggregator (AA)** framework into a broader **data governance ecosystem** through **Consent Managers (CMs)**.
- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 के पारित होने और DPDP ड्राफ्ट नियम, 2025 के जारी होने के साथ, खाता संकलक (AA) ढांचे को डेटा शासन पारिस्थितिकी तंत्र में सहमति प्रबंधकों (CMs) के माध्यम से विस्तारित करने का यह सही समय है।
- India's **Account Aggregator (AA)** framework has already demonstrated the **transformative potential** of **consent-driven data sharing** in the **financial sector**.
- भारत के खाता संकलक (AA) ढांचे ने पहले ही वित्तीय क्षेत्र में सहमति आधारित डेटा साझाकरण की परिवर्तनकारी क्षमता को प्रदर्शित किया है।
- **Consent Managers (CMs)** are envisioned as **accessible, transparent, and interoperable platforms** through which **Data Principals** (individuals) can **give, manage, review, and withdraw their consents** across various **Data Fiduciaries**.
- **सहमति प्रबंधकों (CMs)** को सुलभ, पारदर्शी और अंतर-संचालनीय मंचों के रूप में देखा गया है, जिनके माध्यम से **डेटा प्रमुख (व्यक्ति)** विभिन्न **डेटा न्यासियों** के लिए अपनी सहमतियों को प्रदान, प्रबंधित, समीक्षा और वापस ले सकते हैं।
- The consent manager framework under DPDP must be designed with a **collaborative and interoperable approach**, similar to that of the **AA ecosystem**.
- DPDP के तहत सहमति प्रबंधक ढांचे को **सहयोगात्मक और अंतर-संचालनीय दृष्टिकोण** के साथ डिज़ाइन किया जाना चाहिए, जैसा कि **AA पारिस्थितिकी तंत्र** में किया गया है।
- **Overview of the AA Framework**
 - **AA ढांचे का अवलोकन**
 - The **Account Aggregator (AA)** framework is a **multi-regulatory initiative** led by **RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA**, and the **Ministry of Finance**.
 - खाता संकलक (AA) ढांचा एक **बहु-नियामक पहल** है जिसे **RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA** और वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है।
 - It was made operational through **RBI's NBFC-AA Master Directions in 2016**.
 - इसे 2016 में **RBI की NBFC-AA मास्टर निर्देशों** के माध्यम से क्रियाशील किया गया था।
 - This framework empowers individuals to **provide, review, manage, and withdraw their consent** for sharing **financial data**.
 - यह ढांचा व्यक्तियों को **वित्तीय डेटा साझा** करने के लिए अपनी सहमति देने, समीक्षा करने, प्रबंधित करने और वापस लेने के लिए सशक्त बनाता है।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- AAs enable **secure and real-time management** of consents related to **financial information, including banking, lending, investment, pension, and tax data**.
- AA बैंकिंग, उधारी, निवेश, पेंशन और कर डेटा सहित वित्तीय जानकारी के लिए सुरक्षित और वास्तविक समय में सहमति प्रबंधन को सक्षम बनाते हैं।
- Data flows directly from **source systems in a machine-readable and consent-based format**.
- डेटा सोर्स सिस्टम्स से सीधे मशीन-पठनीय और सहमति-आधारित प्रारूप में प्रवाहित होता है।
- Financial institutions access **efficient, productive, and innovative data for delivering customer-centric financial services**.
- वित्तीय संस्थान ग्राहक-केंद्रित वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए कुशल, उत्पादक और नवाचारी डेटा का उपयोग कर सकते हैं।
- The **AA ecosystem** has scaled up to reach the **population level** and is continuously growing in **adoption and utility**.
- AA पारिस्थितिकी तंत्र अब जनसंख्या स्तर पर पहुंच चुका है और इसके अपनाने और उपयोगिता में लगातार वृद्धि हो रही है।
- The **DPDP Act, 2023** envisions a **consent-manager-led data governance framework**.
- DPDP अधिनियम, 2023 एक सहमति प्रबंधक-आधारित डेटा शासन ढांचे की कल्पना करता है।
- Under this Act, **CMs** are intermediaries that enable **Data Principals to give, manage, review, and withdraw** their **consent** for sharing data with **Data Fiduciaries**.
- इस अधिनियम के तहत, **CMs** ऐसे मध्यस्थ हैं जो डेटा प्रमुखों को डेटा न्यासियों के साथ डेटा साझा करने के लिए सहमति देने, प्रबंधित करने, समीक्षा करने और वापस लेने की सुविधा प्रदान करते हैं।
- The **techno-legal architecture** of the consent manager regime closely aligns with the **AA model, reinforcing the primacy of explicit and informed consent**.
- सहमति प्रबंधक प्रणाली की तकनीकी-कानूनी संरचना AA मॉडल से बहुत मिलती-जुलती है, जिससे स्पष्ट और सूचित सहमति की प्राथमिकता को बल मिलता है।
- Like AAs, CMs will enable **secure, controlled, and user-centric consent management and data flows** across sectors such as **healthcare, education, digital commerce, and employment**.
- AA की तरह, CMs विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, डिजिटल वाणिज्य और रोजगार में सुरक्षित, नियंत्रित और उपयोगकर्ता-केंद्रित सहमति प्रबंधन और डेटा प्रवाह को सक्षम बनाएंगे।

Draft DPDP Rules, 2025 and Consent Managers ड्राफ्ट डीपीडीपी नियम, 2025 और सहमति प्रबंधक

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- The recently released **Draft DPDP Rules, 2025** outline the **registration process, obligations, and permitted activities** of consent managers.
- हाल ही में जारी ड्राफ्ट डीपीडीपी नियम, 2025 में सहमति प्रबंधकों की पंजीकरण प्रक्रिया, दायित्वों और अनुमत गतिविधियों को स्पष्ट किया गया है।
- The **Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)** has made commendable efforts to clarify the registration and related obligations of consent managers.
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सहमति प्रबंधकों के पंजीकरण और संबंधित दायित्वों को स्पष्ट करने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं।
- Given the significant **structural alignment between the Account Aggregator (AA) and Consent Manager (CM)** frameworks, and their shared focus on **user empowerment and consent-based data-sharing**, some revisions to the Draft Rules have been proposed.
- खाता एग्रीगेटर (AA) और सहमति प्रबंधक (CM) ढाँचों के बीच मौजूद महत्वपूर्ण संरचनात्मक समानता और उपयोगकर्ता सशक्तिकरण तथा सहमति आधारित डेटा साझाकरण पर उनके संयुक्त ध्यान को देखते हुए, ड्राफ्ट नियमों में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।
- These revisions aim to improve clarity, ensure continuity of **sector-specific regulatory frameworks**, and enable effective implementation of the CM framework under the **DPDP Act (DPDPA)**.
- इन संशोधनों का उद्देश्य स्पष्टता बढ़ाना, क्षेत्र-विशिष्ट नियामक ढाँचों की निरंतरता सुनिश्चित करना और डीपीडीपी अधिनियम (DPDPA) के तहत सीएम ढाँचे के प्रभावी कार्यान्वयन को सक्षम बनाना है।

Mandatory Registration with the Data Protection Board (DPB)

डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (DPB) के साथ अनिवार्य पंजीकरण

- Entities that wish to operate as **consent managers** under the **DPDP regime** must mandatorily register with the **Data Protection Board (DPB)**.
- DPDP व्यवस्था के तहत सहमति प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाली संस्थाओं को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (DPB) में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।
- This will ensure **accountability, standardization, and alignment with the overall regulatory framework**.
- इससे जवाबदेही, मानकीकरण, और समग्र नियामक ढाँचे के साथ तालमेल सुनिश्चित होगा।
- The DPB should allow **sector-specific consent managers** to register, as long as they follow **common, interoperable APIs, and technical specifications**.
- DPB को क्षेत्र-विशिष्ट सहमति प्रबंधकों को पंजीकरण की अनुमति देनी चाहिए, बशर्ते वे सामान्य, इंटरऑपरेबल API और तकनीकी विशिष्टताओं का पालन करें।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- This approach promotes **innovation**, while ensuring **interoperability** and **regulatory compliance**.
- यह दृष्टिकोण नवाचार को प्रोत्साहित करता है, साथ ही इंटरऑपरेबिलिटी और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है।
- For instance, the **Financial Health Records (FHR)** framework under the **National Health Authority (NHA)** is also advancing with a strong **consent management system** and a defined **health data schema**.
- उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के तहत फाइनेंशियल हेल्थ रिकॉर्ड्स (FHR) ढाँचा भी एक मज़बूत सहमति प्रबंधन प्रणाली और एक परिभाषित स्वास्थ्य डेटा स्कीमा के साथ विकसित हो रहा है।
- The feedback proposes that such **sector-specific consent managers** be allowed registration under **DPDPA**, ensuring continuity and accountability of existing frameworks.
- यह सुझाव दिया गया है कि ऐसे क्षेत्र-विशिष्ट सहमति प्रबंधकों को **DPDPA** के तहत पंजीकरण की अनुमति दी जाए, ताकि मौजूदा ढाँचों की निरंतरता और जवाबदेही बनी रहे।

Allow Commercial Arrangements with Data Fiduciaries

डेटा फिड्युशियरी के साथ वाणिज्यिक व्यवस्था की अनुमति

- To support healthy adoption and long-term sustainability of the **consent manager ecosystem**, these entities should be permitted to enter into **valid commercial agreements** with **data fiduciaries**.
- सहमति प्रबंधक पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रूप से अपनाने और दीर्घकालिक रूप से बनाए रखने के लिए, इन संस्थाओं को डेटा फिड्युशियरी के साथ मान्य वाणिज्यिक समझौतों में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- While acting in a **fiduciary capacity** towards **data principals**, consent managers may engage in **commercial arrangements** if such relationships do not compromise **user consent** or **data protection**.
- डेटा प्रिंसिपल्स के प्रति न्यासी क्षमता में कार्य करते हुए, सहमति प्रबंधक वाणिज्यिक व्यवस्था में संलग्न हो सकते हैं, यदि ये व्यवस्थाएँ उपयोगकर्ता की सहमति या डेटा सुरक्षा से समझौता नहीं करती हों।
- Such **commercial models** should not be considered a **conflict of interest**, as long as core duties are not compromised.
- ऐसे वाणिज्यिक मॉडल को हितों के टकराव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, जब तक कि मूल कर्तव्यों से समझौता न किया गया हो।

Call for Synergy

सहयोग की आवश्यकता

- A **collaborative approach** is encouraged that leverages the **mature AA ecosystem** to guide the implementation of the **CM framework** under the **DPDP Act**.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• DPDP अधिनियम के तहत CM ढाँचे को लागू करने के लिए परिपक्व AA पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाते हुए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की सिफारिश की गई है।

• Instead of developing **overlapping regulatory structures**, India now has the chance to **unify its consent-based data-sharing infrastructure**.

• ओवरलैपिंग नियामक संरचनाएँ विकसित करने के बजाय, भारत के पास अब अपनी सहमति-आधारित डेटा-साझाकरण संरचना को एकीकृत करने का अवसर है।

• This unification would ensure **interoperability**, eliminate **redundancies**, and build a **future-ready, user-centric** data governance regime.

• यह एकीकरण इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करेगा, अनावश्यक दोहराव को समाप्त करेगा और एक भविष्य के लिए तैयार, उपयोगकर्ता-केंद्रित डेटा शासन व्यवस्था की नींव रखेगा।

Data Principals डेटा प्रिंसिपल्स

- Individuals to whom the personal data relates.
वे व्यक्ति जिनसे व्यक्तिगत डेटा संबंधित होता है।
- **Rights**
अधिकार
 - **Right to access** information about their data.
अपने डेटा की जानकारी तक पहुंच का अधिकार।
 - **Right to correct and erase** personal data.
व्यक्तिगत डेटा को सुधारने और हटाने का अधिकार।
 - **Right to withdraw consent**.
सहमति वापस लेने का अधिकार।
 - **Right to grievance redressal**.
शिकायत निवारण का अधिकार।
- **Responsibilities**
जिम्मेदारियाँ
 - Ensure the **accuracy of the data** provided.
दिए गए डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना।
 - Not to **impersonate** another individual.
किसी अन्य व्यक्ति की नकल नहीं करना।




Data Fiduciaries डेटा फिड्यूसियरीज

- Entities (including companies and government bodies) that determine the **purpose and means** of processing personal data.
वे संस्थाएँ (जैसे कंपनियाँ और सरकारी निकाय) जो व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने का उद्देश्य और तरीका तय करते हैं।
- **Obligations**
कर्तव्य
 - Obtain **valid consent** from Data Principals before processing data.
डेटा संसाधन से पहले डेटा प्रिंसिपल्स से **वैध सहमति प्राप्त करना**।
 - Implement **security safeguards** to protect personal data.
व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए **सुरक्षा उपाय लागू करना**।
 - Report **data breaches** to the **Data Protection Board of India** and affected Data Principals.
डेटा उल्लंघनों की सूचना **भारत के डेटा संरक्षण बोर्ड** और प्रभावित डेटा प्रिंसिपल्स को देना।
 - Appoint a **Data Protection Officer (DPO)** in certain cases.
कुछ मामलों में **डेटा संरक्षण अधिकारी (DPO)** की नियुक्ति करना।

Consent Managers सहमति प्रबंधक

- Registered entities that act as **intermediaries** between Data Principals and Data Fiduciaries to manage **consent** for data processing.
पंजीकृत संस्थाएँ जो डेटा प्रिंसिपल्स और डेटा फिड्यूसियरीज के बीच **बिचौलियों** के रूप में कार्य करती हैं ताकि डेटा संसाधन के लिए **सहमति** को प्रबंधित किया जा सके।
- **Functions**
कार्य
 - Provide a platform for Data Principals to **give, manage, review, and withdraw consent**.
डेटा प्रिंसिपल्स को **सहमति देने, प्रबंधित करने, समीक्षा करने और वापस लेने** के लिए एक मंच प्रदान करना।
 - Ensure that consent is obtained in a **transparent, informed, and specific** manner.
यह सुनिश्चित करना कि सहमति **पारदर्शी, जानकारीपूर्ण और विशिष्ट** तरीके से प्राप्त की जाए।
 - Maintain **records of consent** for a specified period.
एक निर्दिष्ट अवधि तक **सहमति के रिकॉर्ड बनाए रखना**।



- Facilitate **grievance redressal mechanisms**.

शिकायत निवारण तंत्र को सक्षम करना।

- **Registration:** Consent Managers must be **registered** with the **Data Protection Board of India**.
पंजीकरण: सहमति प्रबंधकों को **भारत के डेटा संरक्षण बोर्ड** के साथ **पंजीकृत** होना आवश्यक है।

Belgium Parliament votes to ditch nuclear power phase-out

GS Paper II: Europe

Agence France-Presse
BRUSSELS

Belgium on Thursday officially abandoned plans to phase out nuclear power, with Parliament voting to scrap a two-decades-old pledge and to allow for the construction of new reactors.

Lawmakers in Brussels backed the new conservative-led government's plan to revive the country's nuclear industry with 102 votes in favour, eight against and 31 abstentions.
"The Federal Parlia-

ment has just turned the page on two decades of blockages and hesitation to pave the way for a resilient energy model," said Energy Minister Mathieu Bihet.

The vote junked a 2003 law under which Belgium had set a calendar for taking its nuclear reactors out of service by the end of 2025 and banned generating new capacity.

The latest move comes as global interest in the nuclear sector is at its highest since the oil crises of the 1970s, according to the International Energy Agency.

Belgium Parliament Votes to Ditch Nuclear Power Phase-Out

बेल्जियम की संसद ने परमाणु ऊर्जा को समाप्त करने की योजना को रद्द किया

- **Belgium** has officially abandoned its plan to phase out nuclear power.

- बेल्जियम ने आधिकारिक रूप से अपनी परमाणु ऊर्जा को समाप्त करने की योजना को छोड़ दिया है।

- The Parliament voted to **scrap a two-decade-old pledge** and allow the construction of **new reactors**.

- संसद ने दो दशक पुराने वादे को रद्द करने और नए रिएक्टरों के निर्माण की अनुमति देने के लिए मतदान किया।

- **Lawmakers in Brussels** supported the conservative-led government's plan to revive nuclear power with **102 votes in favour, 8 against, and 31 abstentions**.

- **ब्रसेल्स के सांसदों** ने परमाणु ऊर्जा को पुनर्जीवित करने की रूढ़िवादी सरकार की योजना का समर्थन **102 वोटों के पक्ष, 8 के विरोध और 31 अनुपस्थितियों** के साथ किया।

- Energy Minister **Mathieu Bihet** said the vote has ended **two decades of blockages and hesitation** and aims to create a **resilient energy model**.



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- ऊर्जा मंत्री **मैथ्यू बिहेट** ने कहा कि इस मतदान ने दो दशकों की रुकावटों और हिचकिचाहट को समाप्त कर दिया है और इसका उद्देश्य एक लचीले ऊर्जा मॉडल का निर्माण करना है।
- The **Parliament overturned a 2003 law** that had set a **deadline of end-2025** for shutting down nuclear reactors and had **banned new capacity** generation.
- संसद ने **2003 के उस कानून को रद्द** कर दिया जिसमें **2025 के अंत तक परमाणु रिएक्टरों को बंद** करने की समयसीमा तय की गई थी और **नई क्षमता के उत्पादन** पर प्रतिबंध लगाया गया था।
- This decision comes at a time when **global interest in nuclear energy** is the **highest since the 1970s oil crises**, according to the **International Energy Agency**.
- यह निर्णय ऐसे समय आया है जब **परमाणु ऊर्जा में वैश्विक रुचि 1970 के दशक की तेल संकट के बाद अब तक की सबसे ऊँचाई पर है**, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार।

International Atomic Energy Agency (IAEA) **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)**

- The **International Atomic Energy Agency (IAEA)** is an **intergovernmental organization** established in **1957** to promote the **peaceful use of nuclear energy** and prevent its use for **military purposes**, including nuclear weapons.

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) एक सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना **1957** में **परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग** को बढ़ावा देने और इसे **सैन्य उद्देश्यों**, जैसे परमाणु हथियारों के उपयोग से रोकने के लिए की गई थी।

- Headquartered in **Vienna, Austria**, the IAEA operates as an **autonomous organization** within the **United Nations system**, reporting to both the **General Assembly** and the **Security Council**.

वियना, ऑस्ट्रिया में मुख्यालय स्थित, IAEA **संयुक्त राष्ट्र प्रणाली** के भीतर एक **स्वायत्त संगठन** के रूप में कार्य करता है, और **सामान्य सभा** तथा **सुरक्षा परिषद** दोनों को रिपोर्ट करता है।

Historical Background **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



- The IAEA was created in response to growing international concern over nuclear weapons, especially amid rising tensions between the **United States** and the **Soviet Union** during the Cold War.

IAEA की स्थापना **संयुक्त राज्य अमेरिका** और **सोवियत संघ** के बीच बढ़ते तनाव के दौरान परमाणु हथियारों को लेकर बढ़ती अंतरराष्ट्रीय चिंता के जवाब में की गई थी।

- The agency's formation was catalyzed by **U.S. President Dwight D. Eisenhower's "Atoms for Peace" speech in 1953**, advocating for an international body to oversee nuclear technology's peaceful applications.

एजेंसी की स्थापना **अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावर** के **1953** में दिए गए "Atoms for Peace" भाषण से प्रेरित थी, जिसमें परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग की निगरानी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय निकाय की वकालत की गई थी।

Functions and Objectives

कार्य और उद्देश्य

- The IAEA serves as a central forum for **scientific and technical cooperation** in the nuclear field, promoting the **safe, secure, and peaceful** use of nuclear technologies.

IAEA परमाणु क्षेत्र में **वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग** के लिए एक केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है, और **सुरक्षित, सुरक्षित, और शांतिपूर्ण** परमाणु तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देता है।

- It implements **safeguards** to verify that nuclear materials are not diverted to weapons programs and promotes **nuclear safety and security standards**.

यह सुनिश्चित करने के लिए **सुरक्षा उपाय** लागू करता है कि परमाणु सामग्री हथियार कार्यक्रमों की ओर मोड़ी न जाए, और **परमाणु सुरक्षा और सुरक्षा मानकों** को बढ़ावा देता है।

- The agency also provides **technical assistance and training** to countries, especially in the **developing world**, to utilize nuclear technology for **medical, agricultural, and industrial** purposes.

एजेंसी देशों, विशेष रूप से **विकासशील देशों** को **चिकित्सा, कृषि, और औद्योगिक** उद्देश्यों के लिए परमाणु तकनीक का उपयोग करने में **तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण** भी प्रदान करती है।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



Role in Non-Proliferation

गैर-प्रसार में भूमिका

- Following the **Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT)** in **1968**, non-nuclear-weapon states are required to negotiate **safeguards agreements** with the IAEA, granting the agency authority to monitor nuclear programs and inspect facilities.

1968 में परमाणु हथियारों के अप्रसार संधि (NPT) के बाद, गैर-परमाणु हथियार राज्यों को IAEA के साथ सुरक्षा समझौतों पर बातचीत करनी होती है, जिससे एजेंसी को परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी और सुविधाओं का निरीक्षण करने का अधिकार मिलता है।

Recognition and Leadership

मान्यता और नेतृत्व

- In **2005**, the IAEA and its then Director General, **Mohamed ElBaradei**, were jointly awarded the **Nobel Peace Prize** for their efforts to prevent nuclear energy from being used for military purposes and to ensure its safe use for peaceful purposes.

2005 में, IAEA और इसके तत्कालीन महानिदेशक **मोहम्मद अलबरदेई** को परमाणु ऊर्जा के सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग को रोकने और इसके शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए संयुक्त रूप से **नोबेल शांति पुरस्कार** से सम्मानित किया गया था।

- As of **2025**, the current Director General is **Rafael Mariano Grossi**, who has been serving since **December 2019**.

2025 तक, वर्तमान महानिदेशक **राफेल मारियानो ग्रोसी** हैं, जो **दिसंबर 2019** से इस पद पर कार्यरत हैं।

Recent Developments

हाल की घटनाएँ

- The IAEA continues to play a crucial role in monitoring nuclear activities worldwide, including in regions with geopolitical tensions, to ensure compliance with international agreements and promote nuclear safety.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : info@patrioticias.in

Contact Number : 9971932488

Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



IAEA दुनिया भर में परमाणु गतिविधियों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें भू-राजनीतिक तनाव वाले क्षेत्र भी शामिल हैं, ताकि अंतरराष्ट्रीय समझौतों का पालन सुनिश्चित किया जा सके और परमाणु सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके।

- The agency also collaborates with various countries to advance nuclear techniques for peaceful purposes, such as in the fields of medicine and agriculture.

एजेंसी विभिन्न देशों के साथ मिलकर चिकित्सा और कृषि जैसे क्षेत्रों में शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करती है।

PATRIOTIC IAS

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



Harvard discovers its stained, faded document is **Magna Carta from 1300**

Researchers use ultraviolet light and spectral imaging to examine the document, comparing handwriting and text word-for-word; the **Magna Carta** matches the 1300 version issued by King Edward I and is believed to be worth millions; there were believed to be only six copies of the 1300 version

GS paper II: Polity

Associated Press
BOSTON

Harvard University for decades assumed it had a cheap copy of the Magna Carta in its collection, a stained and faded document it had purchased for less than \$30.

But two researchers have concluded it has something much more valuable – a rare version from 1300 issued by Britain's King Edward I.

The original Magna Carta, issued in 1215, established the principle that the king is subject to law and formed the basis of constitutions globally. There are four copies of the original, and until now, there were believed to be only six copies of the 1300 version.

"My reaction was one of amazement and, in a way, awe that I should have managed to find a previously unknown Magna Carta," said David Carpenter, a professor of medieval history at King's College London. He was searching the Harvard Law School Library website in December 2023 when he found the digitised document.

"First, I'd found one of the most rare documents and most significant documents in world constitutional history," Mr. Carpenter said. "But secondly, of



Faded glory: The copy of the Magna Carta from 1300 sits in a display case at Harvard Law School in Cambridge on April 15. AP

course, it was astonishing that Harvard had been sitting on it for all these years without realising what it was."

Mr. Carpenter teamed up with Nicholas Vincent, a professor of medieval history at Britain's University of East Anglia, to confirm the authenticity of Harvard's document.

Comparing it to the other six copies from 1300, Mr. Carpenter found that the dimensions matched up. He and Mr. Vincent then turned to images Harvard librarians created using ultraviolet light and spectral imaging. The technology helps scholars see

details on faded documents that are not visible to the human eye. That allowed them to compare the texts word-for-word, as well as the handwriting, which includes a large capital 'E' at the start in 'Edwardus' and elongated letters in the first line.

After the 1215 original printed by King John, five other editions were written in the following decades – until 1300, the last time the full document was set out and authorised by the king's seal.

'Different from others'

The 1300 version of Magna Carta is "different from the

previous versions in a whole series of small ways, and the changes are found in every single one," Mr. Carpenter said.

He said Harvard had to meet a high bar to prove authenticity, and it did so "with flying colors."

Its tattered and faded copy of the Magna Carta is worth millions of dollars, Mr. Carpenter estimated – though Harvard has no plans to sell it. A 1297 version of the Magna Carta sold at auction in 2007 for \$21.3 million.

The other mystery behind the document was the journey it took to Harvard. That task was left to

Mr. Vincent, who was able to trace it all the way back to the former parliamentary borough of Appleby in Westmorland, England.

The Harvard Law School library purchased its copy in 1946 from a London book dealer for \$27.50. At the time, it was wrongly dated as being made in 1327.

'Chain of connection'

Mr. Vincent determined the document was sent to a British auction house in 1945 by a World War I flying ace who also played a role defending Malta in World War II. The war hero, Forster Maynard, inherited the archives from Thomas and John Clarkson, who were leading campaigners against the slave trade. One of them, Thomas Clarkson, became friends with William Lowther, hereditary lord of the manor of Appleby, and he possibly gave it to Clarkson.

"There's a chain of connection there, as it were, a smoking gun, but there isn't any clear proof as yet that this is the Appleby Magna Carta. But it seems to me very likely that it is," Mr. Vincent said. He said he would like to find a letter or other documentation showing the Magna Carta was given to Thomas Clarkson.

Mr. Vincent and Mr. Car-

pen-ter plan to visit Harvard in June to see its Magna Carta firsthand – and they say the document is as relevant as ever at a time when Harvard is clashing with the Donald Trump administration over how much authority the federal government should have over its leadership, admissions, and activism on campus.

"It turns up at Harvard at precisely the moment where Harvard is under attack as a private institution by a state authority that seems to want to tell Harvard what to do," Mr. Vincent said.

It is also a chance for a new generation to learn about the Magna Carta, which played a part in the founding of the U.S. – from the Declaration of Independence to the adoption of the Bill of Rights. Seventeen states have incorporated aspects of it into their laws.

"We think of law libraries as places where people can come and understand the underpinnings of democracy," said Amanda Watson, the assistant dean for library and information services at Harvard Law School. "To think that Magna Carta could inspire new generations of people to think about individual liberty and what that means and what self-governance means is very exciting."

Harvard Discovers Its Stained, Faded Document Is Magna Carta from 1300



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



हार्वर्ड को पता चला कि उसका धुंधला और दागदार दस्तावेज़ 1300 का मैग्ना कार्टा है

- **Harvard University** had long assumed that it possessed only a cheap copy of the **Magna Carta**, which it had acquired for less than \$30.
- हार्वर्ड विश्वविद्यालय लंबे समय से मानता रहा कि उसके पास मैग्ना कार्टा की केवल एक सस्ती प्रति है, जिसे उसने \$30 से कम में खरीदा था।

• However, two researchers discovered that the document is actually a **rare version from 1300**, issued by **King Edward I** of Britain.

• हालांकि, दो शोधकर्ताओं ने पाया कि यह दस्तावेज़ वास्तव में **1300 का एक दुर्लभ संस्करण** है, जिसे ब्रिटेन के राजा एडवर्ड प्रथम ने जारी किया था।

• The original **Magna Carta was issued in 1215**, establishing the principle that the **king is subject to the law**.

• मूल मैग्ना कार्टा **1215** में जारी किया गया था, जिसमें यह सिद्धांत स्थापित किया गया था कि राजा कानून के अधीन होता है।

• Only **four copies** of the original **1215 Magna Carta** exist today.

• मूल 1215 मैग्ना कार्टा की केवल **चार प्रतियाँ** आज मौजूद हैं।

• Until now, it was believed that **only six copies** of the **1300 version** existed.

• अब तक माना जाता था कि 1300 संस्करण की केवल **छह प्रतियाँ** ही मौजूद हैं।

• David Carpenter, a **medieval history professor** at King's College London, found the digitised document in **December 2023** on the **Harvard Law School Library** website.

• डेविड कारपेंटर, जो किंग्स कॉलेज लंदन में **मध्यकालीन इतिहास के प्रोफेसर** हैं, ने **दिसंबर 2023** में हार्वर्ड लॉ स्कूल लाइब्रेरी की वेबसाइट पर इस डिजिटल दस्तावेज़ को पाया।

• He described his reaction as one of **amazement and awe** at discovering an **unknown Magna Carta**.

• उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया को **आश्चर्य और श्रद्धा** से भरा बताया, जब उन्होंने एक **अज्ञात मैग्ना कार्टा** की खोज की।

• Mr. Carpenter said it was incredible that **Harvard had been unknowingly holding** one of the most **significant documents** in world constitutional history.

• श्री कारपेंटर ने कहा कि यह आश्चर्यजनक था कि **हार्वर्ड इतने वर्षों से अनजाने में** विश्व के संविधानिक इतिहास के सबसे **महत्वपूर्ण दस्तावेजों** में से एक को संभाले हुए था।

• He collaborated with **Nicholas Vincent**, another **medieval history professor** from the **University of East Anglia**, to verify the document's authenticity.

• उन्होंने दस्तावेज़ की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए **पूर्व अंग्लिया विश्वविद्यालय** के **मध्यकालीन इतिहास के प्रोफेसर निकोलस विंसेंट** के साथ सहयोग किया।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- The researchers confirmed that the **dimensions matched** those of the known 1300 copies.
- शोधकर्ताओं ने पुष्टि की कि इसके **आकार (डायमेंशन्स)** ज्ञात 1300 संस्करण की प्रतियों से **मेल खाते हैं**।
- Harvard librarians had created **ultraviolet and spectral images** of the document, helping scholars **analyze faded details** not visible to the naked eye.
- हार्वर्ड के पुस्तकालयाध्यक्षों ने दस्तावेज़ की **अल्ट्रावायलेट और स्पेक्ट्रल इमेजिंग** की थी, जिससे विद्वानों को **धुंधले विवरणों का विश्लेषण** करने में मदद मिली जो आम आँखों से नहीं देखे जा सकते।
- The researchers compared **text word-for-word and analyzed handwriting**, including a large capital 'E' in 'Edwardus' and **elongated letters** in the first line.
- शोधकर्ताओं ने **शब्द दर शब्द पाठ** की तुलना की और **हस्तलिपि** का विश्लेषण किया, जिसमें 'Edwardus' में बड़ा 'E' और पहली पंक्ति में **लंबे खिंचे हुए अक्षर** शामिल थे।
- After the **1215 original, five other editions** of Magna Carta were written in the decades that followed, the last being in **1300**, sealed and authorised by the king.
- **1215 के मूल संस्करण** के बाद, अगले कुछ दशकों में मैग्ना कार्टा के **पाँच अन्य संस्करण** लिखे गए, जिनमें आखिरी **1300** में था, जिसे राजा की **सील और अनुमति** प्राप्त थी।

Harvard's Magna Carta Discovery

हार्वर्ड की मैग्ना कार्टा की खोज

- The **1300 version of Magna Carta is different** from the previous versions in a number of **small ways**, and these changes are present in **every single copy**, according to Mr. Carpenter.
- श्री कारपेंटर के अनुसार, **1300 संस्करण** की मैग्ना कार्टा पहले के संस्करणों से कई **छोटे तरीकों** में **अलग** है, और ये बदलाव **हर एक प्रति** में पाए जाते हैं।
- Harvard had to meet a **high standard** to prove the document's **authenticity**, and it succeeded **"with flying colors."**
- हार्वर्ड को इस दस्तावेज़ की **प्रामाणिकता** साबित करने के लिए **उच्च मानदंड** को पूरा करना पड़ा, और उसने यह काम **"पूरी तरह सफलतापूर्वक"** किया।
- The **tattered and faded** Magna Carta held by Harvard is estimated to be worth **millions of dollars**, though Harvard has **no plans to sell** it.
- हार्वर्ड के पास जो **फटी और फीकी** मैग्ना कार्टा है, उसकी कीमत **मिलियन डॉलर** में आंकी गई है, हालांकि हार्वर्ड का इसे **बेचने का कोई इरादा नहीं** है।
- A **1297 version** of the Magna Carta was sold at **auction** in **2007** for **\$21.3 million**.
- **1297 संस्करण** की मैग्ना कार्टा **2007** में **नीलामी** में **\$21.3 मिलियन** में बिकी थी।

Mystery of the Journey to Harvard

हार्वर्ड तक की यात्रा का रहस्य

- The other **mystery** was about how the document **reached Harvard**.
- एक और **रहस्य** यह था कि यह दस्तावेज़ **हार्वर्ड तक कैसे पहुँचा**।
- Mr. Vincent traced the document back to the **former parliamentary borough of Appleby** in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



Westmorland, England.

- श्री विंसेंट ने इस दस्तावेज़ को वेस्टमॉरलैंड, इंग्लैंड के पूर्व संसद क्षेत्र एप्पलबाय तक वापस खोजा।
- The Harvard Law School library bought this copy in 1946 from a London book dealer for \$27.50.
- हार्वर्ड लॉ स्कूल पुस्तकालय ने यह प्रति 1946 में लंदन के एक किताब विक्रेता से \$27.50 में खरीदी थी।
- At the time, it was **incorrectly dated** as from the year 1327.
- उस समय इसे गलत तरीके से 1327 का बताया गया था।

Chain of Connection

संबंधों की श्रृंखला

- Mr. Vincent found that in 1945, the document was sent to a **British auction house** by a **World War I flying ace**, who also defended **Malta in World War II**.
- श्री विंसेंट ने पाया कि 1945 में यह दस्तावेज़ एक ब्रिटिश नीलामी घर को एक प्रथम विश्व युद्ध के पायलट द्वारा भेजा गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध में माल्टा की रक्षा में भी शामिल थे।
- The war hero, **Forster Maynard**, inherited the archives from **Thomas and John Clarkson**, who were **anti-slavery campaigners**.
- यह युद्ध नायक, फॉर्स्टर मेनार्ड, ने थॉमस और जॉन क्लार्कसन से यह संग्रह प्राप्त किया था, जो गुलामी विरोधी अभियानकर्ता थे।
- **Thomas Clarkson** became friends with **William Lowther**, the **hereditary lord of Appleby**, who **may have gifted** the Magna Carta to Clarkson.
- थॉमस क्लार्कसन की दोस्ती विलियम लोथर, एप्पलबाय के वंशानुगत स्वामी, से हुई थी, और संभवतः उन्होंने यह मैग्ना कार्टा क्लार्कसन को दी थी।
- Mr. Vincent said there is a **chain of connection**, but **no clear proof** that this is the **Appleby Magna Carta**.
- श्री विंसेंट ने कहा कि एक संबंधों की कड़ी है, लेकिन कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि यह एप्पलबाय की मैग्ना कार्टा ही है।
- He would like to find a **letter or other documentation** that shows Magna Carta was given to **Thomas Clarkson**.
- वह एक ऐसा पत्र या अन्य दस्तावेज़ ढूंढना चाहते हैं जो यह दिखाए कि मैग्ना कार्टा थॉमस क्लार्कसन को दी गई थी।

Modern-Day Relevance of Magna Carta

आधुनिक समय में मैग्ना कार्टा की प्रासंगिकता

- Mr. Vincent and Mr. Carpenter plan to visit Harvard in **June** to see the Magna Carta **firsthand**.
- श्री विंसेंट और श्री कारपेंटर जून में हार्वर्ड जाकर मैग्ना कार्टा को प्रत्यक्ष रूप से देखने की योजना बना रहे हैं।
- They believe the Magna Carta is still **relevant**, especially as **Harvard is clashing with the Trump administration** over issues like **leadership, admissions, and campus activism**.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



- उनका मानना है कि मैग्ना कार्टा आज भी प्रासंगिक है, विशेष रूप से तब जब हार्वर्ड, ट्रंप प्रशासन के साथ नेतृत्व, प्रवेश और कैम्पस पर सक्रियता जैसे मुद्दों पर टकराव में है।
- “It turns up at Harvard at a time when a state authority wants to control what a private institution like Harvard should do,” Mr. Vincent said.
- श्री विंसेंट ने कहा, “यह दस्तावेज़ हार्वर्ड में ऐसे समय आता है जब राज्य प्राधिकरण यह नियंत्रित करना चाहता है कि एक निजी संस्था जैसे हार्वर्ड को क्या करना चाहिए।”

Educational Value for New Generations

नई पीढ़ियों के लिए शैक्षणिक महत्व

- The Magna Carta played a role in the founding of the United States, influencing the Declaration of Independence and the Bill of Rights.
- मैग्ना कार्टा ने संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना में भूमिका निभाई, और यह स्वतंत्रता की घोषणा और अधिकारों के विधेयक को प्रभावित करती है।
- Seventeen U.S. states have incorporated parts of Magna Carta into their laws.
- संयुक्त राज्य अमेरिका के 17 राज्यों ने मैग्ना कार्टा के कुछ हिस्सों को अपने कानूनों में शामिल किया है।
- “We think of law libraries as places where people learn about the foundations of democracy,” said Amanda Watson, assistant dean of Harvard Law School.
- हार्वर्ड लॉ स्कूल की सहायक डीन अमांडा वॉटसन ने कहा, “हम कानून पुस्तकालयों को वह स्थान मानते हैं जहाँ लोग लोकतंत्र की नींव के बारे में सीखते हैं।”
- She said it is exciting to think that Magna Carta could inspire new generations to reflect on individual liberty and self-governance.
- उन्होंने कहा कि यह विचार रोमांचक है कि मैग्ना कार्टा नई पीढ़ियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वशासन पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकती है।

GS Paper III: Economy, S&T, Environment, DM, IS)

1. Trade Deficit Grows to \$8.65 Billion in April as Merchandise Imports Rise

अप्रैल में व्यापार घाटा बढ़कर \$8.65 बिलियन हुआ क्योंकि वस्तुओं का आयात बढ़ा

2. Trade Unions Defer Strike Against Labour Codes to July 9

श्रम संहिताओं के खिलाफ ट्रेड यूनियनों की हड़ताल 9 जुलाई तक टली



3. Gig Workers' Meeting Demands Minimum Wages, Social Security

गिग वर्कर्स की बैठक ने न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा की मांग की

4. ISRO set to launch earth observation satellite using PSLV rocket on Sunday

इसरो रविवार को PSLV रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार

5. India's Cough Syrup Crackdown — What Prompted It and What Follows

भारत में कफ सिरप पर सखती — इसका कारण क्या था और आगे क्या होगा

6. Raising Healthy Hearts: Reimagining School Nutrition to Tackle Childhood Hypertension

स्वस्थ हृदय को बढ़ावा देना: बचपन के उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए स्कूल पोषण की पुनर्कल्पना

7. Under Control

नियंत्रण में

8. The Paradox of the Approach to the Manipur Issue

मणिपुर मुद्दे के प्रति दृष्टिकोण का विरोधाभास



Trade deficit grows to \$8.65 billion in April as merchandise imports rise

GS Paper III: External Sector

The Hindu Bureau
NEW DELHI


India's total trade deficit, counting both merchandise and services, widened to \$8.65 billion in April, compared with \$5.77 billion in April last year, according to the data from the Ministry of Commerce and Industry released on Thursday.

While briefing the media, Commerce Secretary Sunil Barthwal also mentioned that India's total exports, including merchandise and services, stood at \$824.9 billion in 2024-25, the highest-ever, up 6% from 2023-24.

Merchandise exports

Widening gap

The government said merchandise exports stood at **\$38.49 billion** in April, while imports were at **\$64.91 billion**



grew 9% to \$38.49 billion in April 2025, while the imports of goods grew at a significantly faster 19.1% to \$64.91 billion, as compared to the same month of last year. The merchandise trade deficit, there-

fore, widened to \$26.4 billion in April this year, as compared to \$19.19 billion last year. Exports of tobacco (66.43%), coffee (47.85%), electronic goods (39.51%), mica, coal other ores and minerals

(34.43%), fruits and vegetables (30.72%), and marine products (17.81%) marked a growth in April 2025.

The services sector, however, witnessed the opposite trend, with exports widening their lead over imports. Services exports for April, an estimation because the final data from the Reserve Bank of India arrives with a month's lag, grew 17% in April 2025 to \$35.31 billion. Services imports, on the other hand, grew just 4.6% to \$17.54 billion in April, taking the services trade surplus to \$17.77 billion.

RELIEF IN SERVICE
» PAGE 12

GS Paper III: S&T

A blanket of dust hangs in the sky over Karyavya Path in New Delhi on Thursday, as a mirage forms on a hot afternoon. SUSHIL KUMAR VERMA

Trade Deficit Grows to \$8.65 Billion in April as Merchandise Imports Rise

अप्रैल में व्यापार घाटा बढ़कर \$8.65 बिलियन हुआ क्योंकि वस्तुओं का आयात बढ़ा

• India's total **trade deficit**, including both merchandise and services, widened to \$8.65 billion in April, compared to \$5.77 billion in April last year, according to data from the **Ministry of Commerce and Industry**.

• वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत का कुल व्यापार घाटा



(वस्तुएं और सेवाएं मिलाकर) अप्रैल में \$8.65 बिलियन हो गया, जबकि पिछले साल अप्रैल में यह \$5.77 बिलियन था।

• While briefing the media, **Commerce Secretary Sunil Barthwal** stated that **India's total exports**, including merchandise and services, reached **\$824.9 billion in 2024-25**, the **highest-ever**, marking a **6% increase** from 2023-24.

• मीडिया को जानकारी देते हुए वाणिज्य सचिव **सुनील बर्थवाल** ने बताया कि **भारत का कुल निर्यात** (वस्तुएं और सेवाएं मिलाकर) **2024-25 में \$824.9 बिलियन** रहा, जो अब तक का **सबसे अधिक** है और **2023-24 की तुलना में 6% अधिक** है।

• **Merchandise exports grew 9% to \$38.49 billion in April 2025.**

• **अप्रैल 2025 में वस्तु निर्यात में 9% की वृद्धि हुई और यह \$38.49 बिलियन तक पहुंच गया।**

• However, **merchandise imports grew faster by 19.1% to \$64.91 billion**, compared to the same month last year.

• हालांकि, **वस्तु आयात में 19.1% की तेजी आई और यह \$64.91 बिलियन** हो गया, जो पिछले साल अप्रैल की तुलना में अधिक है।

• Therefore, the **merchandise trade deficit widened to \$26.4 billion in April 2025**, compared to **\$19.19 billion** last year.

• इस प्रकार, **अप्रैल 2025 में वस्तु व्यापार घाटा बढ़कर \$26.4 बिलियन** हो गया, जबकि पिछले साल यह **\$19.19 बिलियन** था।

• Major growth was seen in the exports of **tobacco (66.43%)**, **coffee (47.85%)**, **electronic goods (39.51%)**, **mica, coal and other ores and minerals (34.43%)**, **fruits and vegetables (30.72%)**, and **marine products (17.81%)** in April 2025.

• **अप्रैल 2025 में तंबाकू (66.43%), कॉफी (47.85%), इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं (39.51%), अभ्रक, कोयला और अन्य खनिज (34.43%), फल और सब्जियां (30.72%), तथा समुद्री उत्पाद (17.81%) के निर्यात में प्रमुख वृद्धि दर्ज की गई।**

• The **services sector** showed the opposite trend, with **exports surpassing imports significantly**.

• **सेवाओं के क्षेत्र में विपरीत रुझान देखा गया, जहां निर्यात ने आयात को काफी पीछे छोड़ दिया।**

• **Services exports in April 2025 (estimated) grew by 17% to \$35.31 billion.**

• **अप्रैल 2025 में (अनुमानित) सेवाओं का निर्यात 17% बढ़कर \$35.31 बिलियन** हो गया।

• **Services imports**, however, grew by just **4.6% to \$17.54 billion**, leading to a **services trade surplus of \$17.77 billion.**



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• वहीं, सेवाओं का आयात केवल 4.6% बढ़कर \$17.54 बिलियन हुआ, जिससे सेवाओं का व्यापार अधिशेष \$17.77 बिलियन हो गया।

Trade unions defer strike against Labour Codes to July 9

GS Paper III: Employment

The Hindu Bureau
NEW DELHI

A meeting of the joint platform of Central Trade Unions (CTUs) in the Opposition camp held here on Thursday decided to postpone the general strike earlier announced to be held on May 20. The CTUs said in a statement that considering the prevailing situation throughout the country after the Pahalgam terror attack, they had decided to reschedule the strike against the implementation of the **four Labour Codes** to July 9.

The CTUs have urged the Centre to ensure measures against those who were resorting to divisive hate campaigns at such a critical time. "However, most appallingly, even in the midst of such a critical situation prevailing in the country owing to terrorist massacre and consequent developments, the employers' class, actively supported by the governments

कार्रवाई करे।

The decision was made considering the prevailing situation after the Pahalgam attack: CTUs

at the Centre and in many States, is carrying on its onslaughts on workers and employees across establishments. Working hours are being unilaterally increased; statutory minimum wages and social security benefits are being flouted," they said.

It added that the Union government had not bothered to meet the CTUs or to hold the Indian Labour Conference despite receiving notices to strike from all corners of the country across sectors. The CTUs asked working people to continue preparations for the general strike on July 9. It asked the Centre to reciprocate the positive approach of the CTUs and desist from implementing the Labour Codes.

Trade Unions Defer Strike Against Labour Codes to July 9

श्रम संहिताओं के खिलाफ ट्रेड यूनियनों की हड़ताल 9 जुलाई तक टली

• A meeting of the joint platform of Central Trade Unions (CTUs) from the Opposition was held on Thursday.

• विपक्ष से संबंधित केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (CTUs) के संयुक्त मंच की बैठक गुरुवार को आयोजित की गई।

• It was decided to **postpone** the general strike that was earlier announced for **May 20**.

• पहले घोषित **20 मई** की आम हड़ताल को **स्थगित** करने का निर्णय लिया गया।

• The strike has been **rescheduled** to **July 9**, in view of the prevailing situation in the country after the **Pahalgam terror attack**.

• **पहलगाम आतंकवादी हमले** के बाद देश में बनी स्थिति को देखते हुए, हड़ताल की नई तारीख **9 जुलाई** तय की गई है।

• The CTUs urged the Centre to act against those who are promoting **divisive hate campaigns** during such a **critical time**.

• CTUs ने केंद्र से अपील की कि वह ऐसे **नाजुक समय** में **विभाजनकारी घृणा अभियानों** को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- The CTUs stated that even during such a **serious national crisis**, the **employers' class**, supported by governments at the **Centre and States**, continues its attacks on workers.
- CTUs ने कहा कि इस तरह की **गंभीर राष्ट्रीय आपदा** के दौरान भी, **केंद्र और राज्य सरकारों** के समर्थन से **नियोक्ता वर्ग** श्रमिकों पर हमला जारी रखे हुए है।
- **Working hours** are being increased **unilaterally**, and **statutory minimum wages** and **social security benefits** are being **violated**.
- **कार्य के घंटे** एकतरफा बढ़ाए जा रहे हैं, और **वैधानिक न्यूनतम वेतन** तथा **सामाजिक सुरक्षा लाभों** का **उल्लंघन** किया जा रहा है।
- The CTUs alleged that the **Union government** has not held any meetings with them, nor has it convened the **Indian Labour Conference**, despite receiving strike notices from across the country.
- CTUs ने आरोप लगाया कि **केंद्र सरकार** ने उनसे कोई बैठक नहीं की है और न ही **भारतीय श्रम सम्मेलन** बुलाया है, जबकि देशभर से हड़ताल की सूचनाएं दी जा चुकी हैं।
- The CTUs appealed to the working class to **continue preparations** for the **general strike on July 9**.
- CTUs ने श्रमिक वर्ग से अपील की कि वे **9 जुलाई** की आम हड़ताल की **तैयारियों** को जारी रखें।
- They urged the Centre to **respond positively** and stop the **implementation** of the **four Labour Codes**.
- उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया कि वह **सकारात्मक रवैया** अपनाए और **चार श्रम संहिताओं** के **कार्यान्वयन** को रोक दे।

The Four Labour Codes

चार श्रम संहिता

- The Four Labour Codes represent a major reform in India's **labour law regime**, aiming to **simplify, consolidate, and rationalize** over **29 central labour laws** into **four broad categories**.
चार श्रम संहिताएं भारत के श्रम कानून व्यवस्था में एक प्रमुख सुधार को दर्शाती हैं, जिनका उद्देश्य 29 से अधिक केंद्रीय श्रम कानूनों को चार व्यापक श्रेणियों में सरलीकृत, एकीकृत और तर्कसंगत बनाना है।
- These Codes were introduced to ensure **ease of compliance**, promote **labour welfare**, and facilitate **greater formalization** of the workforce and **flexibility** for industries.
इन संहिताओं को **अनुपालन में आसानी**, **श्रम कल्याण** को बढ़ावा देने और **कार्यबल** के



अधिक औपचारिकीकरण व उद्योगों के लिए लचीलापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पेश किया गया था।

Historical Background

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- India had a **complex web** of **44 central** and over **100 state labour laws**, leading to **regulatory overlap, inefficiencies, and compliance burdens** for businesses.
भारत में 44 केंद्रीय और 100 से अधिक राज्य श्रम कानूनों का एक जटिल ढांचा था, जिससे नियामक अतिक्रमण, अक्षमता, और व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ उत्पन्न होता था।
- To simplify and modernize these laws, the **Second National Commission on Labour (2002)** recommended **consolidation** of central labour laws into **five groups**, later reorganized into **four Codes** by the **Ministry of Labour and Employment**.
इन कानूनों को सरल और आधुनिक बनाने के लिए, **द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002)** ने केंद्रीय श्रम कानूनों को पांच समूहों में एकीकृत करने की सिफारिश की थी, जिसे बाद में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा चार संहिताओं में पुनर्गठित किया गया।
- The Codes were passed by **Parliament** between **2019 and 2020**, but as of **May 2025**, they are yet to be implemented as **final rules** are still awaited from some states.
इन संहिताओं को 2019 से 2020 के बीच संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन मई 2025 तक इनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है क्योंकि कुछ राज्यों से अभी भी अंतिम नियमों की प्रतीक्षा है।

Code on Wages, 2019

वेतन संहिता, 2019

- **Enacted on:** 8 August 2019
- **प्रवर्तित:** 8 अगस्त 2019
- **Objective:** To regulate **wage and bonus payments** in all employment sectors.
- **उद्देश्य:** सभी रोजगार क्षेत्रों में वेतन और बोनस भुगतान को विनियमित करना।

Key Features

प्रमुख विशेषताएं

- **Consolidates four laws:**
- **चार कानूनों को एकीकृत करता है:**
 - The Payment of Wages Act, 1936



- वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
- The Minimum Wages Act, 1948
- न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
- The Payment of Bonus Act, 1965
- बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
- The Equal Remuneration Act, 1976
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

• Introduces a **uniform definition of "wages"**, helping in calculation of **PF, ESI, and gratuity**.

• "वेतन" की एक समान परिभाषा प्रस्तुत करता है, जिससे पीएफ, ईएसआई, और ग्रेच्युटी की गणना में सहायता मिलती है।

• Ensures **universal minimum wage coverage**, extending even to the **unorganised sector**.

• सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन कवरेज सुनिश्चित करता है, जो असंगठित क्षेत्र तक भी विस्तृत है।

• **Floor wage** to be fixed by the **Central Government** after consultation with the **Central Advisory Board**.

• न्यूनतम आधार वेतन को केंद्रीय सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा।

• **Example:** If a worker earns ₹15,000/month, under the new code, a larger portion of this income (around **50% or more**) will be treated as "wages", ensuring **greater contributions to PF, ESI**.

• **उदाहरण:** यदि कोई श्रमिक ₹15,000/माह कमाता है, तो नए कोड के तहत उसकी आय का बड़ा हिस्सा (लगभग 50% या अधिक) "वेतन" माना जाएगा, जिससे पीएफ, ईएसआई में अधिक अंशदान सुनिश्चित होगा।

Industrial Relations Code, 2020

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

• **Enacted on:** 29 September 2020

• **प्रवर्तित:** 29 सितंबर 2020

• **Objective:** To consolidate laws related to **trade unions, conditions of employment, and industrial disputes**.



• उद्देश्य: ट्रेड यूनियनों, रोजगार की शर्तों, और औद्योगिक विवादों से संबंधित कानूनों को एकीकृत करना।

Key Features

प्रमुख विशेषताएं

• Consolidates three laws:

• तीन कानूनों को एकीकृत करता है:

- The Trade Unions Act, 1926
- ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926
- The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946
- औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
- The Industrial Disputes Act, 1947
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

• Introduces a new concept of **Fixed-Term Employment (FTE)** with **pro-rata benefits**.

• **नियत अवधि रोजगार (Fixed-Term Employment - FTE)** की नई अवधारणा को प्रस्तुत करता है, जिसमें **अनुपातिक लाभ** शामिल हैं।

• Makes it **mandatory** for establishments with **300+ workers** to seek **government approval** before **lay-offs, retrenchments, or closure** (previously 100).

• ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए जिनमें **300 से अधिक कर्मचारी** हैं, **छंटनी, सेवा समाप्ति, या बंद करने** से पहले **सरकारी स्वीकृति** लेना अनिवार्य कर दिया गया है (पहले यह सीमा 100 थी)।

• Encourages **conciliation** before strikes, and requires **notice of 14 days** before strikes or lockouts.

• हड़तालों से पहले **मध्यस्थता** को बढ़ावा देता है, और **हड़ताल या तालाबंदी** से **14 दिन पहले नोटिस** देना अनिवार्य बनाता है।

• **Example:** Under the new law, a worker hired for a **6-month project** in a factory will be eligible for **leave and gratuity proportionate to their service duration**.

• **उदाहरण:** नए कानून के तहत, यदि किसी कारखाने में किसी श्रमिक को **6 महीने की परियोजना** के लिए रखा जाता है, तो वह **सेवा अवधि के अनुपात में अवकाश और ग्रेच्युटी** के लिए पात्र होगा।



Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSH) Code, 2020 व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020

- Enacted on: 29 September 2020
- प्रवर्तित किया गया: 29 सितंबर 2020
- Objective: To ensure **safety, health, and welfare** of workers in all establishments.
- उद्देश्य: सभी प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की **सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण** सुनिश्चित करना।
- Consolidates 13 labour laws, including:
 - 13 श्रम कानूनों का संहिताकरण करता है, जिनमें शामिल हैं:
 - The Factories Act, 1948
 - कारखाना अधिनियम, 1948
 - The Mines Act, 1952
 - खदान अधिनियम, 1952
 - The Contract Labour Act, 1970
 - ठेका श्रम अधिनियम, 1970
 - The Inter-State Migrant Workmen Act, 1979
 - अंतर-राज्य प्रवासी कार्यmen अधिनियम, 1979
- Applicable to establishments with 10 or more workers and all mines and docks.
- यह 10 या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों और सभी खदानों व गोदियों पर लागू होता है।
- Mandates **free annual health check-ups** for workers.
- श्रमिकों के लिए **निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच** अनिवार्य करता है।
- Requires employers to provide **working hours, hygiene, and ventilation standards**.
- नियोक्ताओं को कार्य समय, स्वच्छता और वेंटिलेशन मानकों का पालन अनिवार्य बनाता है।
- Includes **inter-state migrant workers** in welfare measures like **travel allowance, registration, and access to PDS** in destination states.
- अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों को कल्याण उपायों में शामिल करता है, जैसे कि यात्रा भत्ता, पंजीकरण और गंतव्य राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) तक पहुंच।
- **Example:** A construction firm employing 50 migrant workers from Bihar in Kerala must ensure **medical check-ups, safe working conditions, and registration on the government portal**.



• उदाहरण: केरल में बिहार से 50 प्रवासी श्रमिकों को नियुक्त करने वाली एक निर्माण फर्म को चिकित्सा जांच, सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ, और सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा।

Code on Social Security, 2020

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

- Enacted on: 29 September 2020
- प्रवर्तित किया गया: 29 सितंबर 2020
- Objective: To provide a **comprehensive social security net** to workers, especially in the **unorganised sector**.
- उद्देश्य: श्रमिकों, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों को **समग्र सामाजिक सुरक्षा जाल** प्रदान करना।
- Consolidates nine labour laws, including:
 - 9 श्रम कानूनों का संहिताकरण करता है, जिनमें शामिल हैं:
 - The Employees' Provident Funds Act, 1952
 - कर्मचारियों का भविष्य निधि अधिनियम, 1952
 - The Employees' State Insurance Act, 1948
 - कर्मचारियों का राज्य बीमा अधिनियम, 1948
 - The Maternity Benefit Act, 1961
 - मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
 - The Building and Other Construction Workers' Welfare Cess Act, 1996
 - निर्माण और अन्य श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996
- Proposes creation of a **Social Security Fund** for **gig, platform and unorganised workers**.
- गिग, प्लेटफॉर्म और असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि के निर्माण का प्रस्ताव।
- Introduces **Universal Account Number (UAN)** for **portability of benefits**.
- लाभों की पोर्टेबिलिटी के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) की शुरुआत करता है।
- Allows **registration of unorganised and gig workers via Aadhaar-linked self-declaration on digital platforms**.



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• असंगठित और गिग श्रमिकों को आधार-लिंकड स्व-घोषणा के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण की अनुमति देता है।

• **Example:** Delivery partners working for apps like Zomato or Swiggy may be included under Social Security Schemes like accident insurance or maternity benefits.

• उदाहरण: जोमैटो या स्विगी जैसी ऐप्स के लिए काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स को दुर्घटना बीमा या मातृत्व लाभ जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया जा सकता है।

PATRIOTIC IAS

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



Gig workers' meeting demands minimum wages, social security

GS Paper III: Employment

The Hindu Bureau

NEW DELHI

A roundtable held here on Thursday on platform work in the country recommended minimum wages, social security and legal protections for gig and platform workers. The meeting demanded a tripartite welfare Board for gig workers in all States and at the Central level comprising representatives from employees, employers and governments.

The meeting, titled "Current developments, challenges and way forward", organised by a non-governmental organisation, Janpahal, and the Gig Workers Association decided to foster dialogue between stakeholders to identify the way forward in ensuring gig workers' rights within the context of existing policy develop-



Voicing concerns: At the roundtable held in Delhi on Thursday, gig workers highlighted the 'harsh realities' they face in the sector. PTI

ments. Janpahal secretary Dharmendra Kumar said the outcome of the meeting would be sent to the policymakers so that a more equitable gig economy could be created in the country.

Representatives from the Union and State governments and international organisations addressed the meeting.

The testimonies shared by workers in the meeting pointed towards "harsh realities of work" in the sector. "The dictatorial and insensitive attitude of the companies is a regular feature in their life. There are no avenues of redress. Their IDs are blocked, and they are thrown out of work for the smallest mistakes or no mistakes. So-

ciety also looks at them with disrespect. Most of these workers are not yet organised, and there are only a few initiatives to organise them. Companies are thwarting any attempts by the workers to organise and unionise themselves. Any initiative for organising, protesting and raising demands is met with termination of work," a statement issued after the meeting said.

The meeting demanded a minimum wage/income for the workers based on their logged-in hours. "The continuous reduction in the rate cards for workers should be stopped," it demanded adding that surcharge collected from consumers should be properly shared with the workers.

It also urged the Centre to declare a social security policy for online platform workers.

Gig Workers' Meeting Demands Minimum Wages, Social Security

गिग वर्कर्स की बैठक ने न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा की मांग की

• A roundtable on platform work held on Thursday recommended minimum wages, social security, and legal protections for gig and platform workers.

• गुरुवार को आयोजित प्लेटफॉर्म वर्क पर एक गोलमेज बैठक में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, और कानूनी सुरक्षा की सिफारिश की गई।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- The meeting demanded a **tripartite welfare board** for gig workers in all **States** and at the **Central level**, consisting of representatives from **employees, employers, and governments**.
- बैठक ने सभी राज्यों और केंद्र में गिग वर्कर्स के लिए एक त्रिपक्षीय कल्याण बोर्ड की मांग की, जिसमें कर्मचारी, नियोक्ता और सरकार के प्रतिनिधि शामिल हों।

- The meeting, titled “**Current developments, challenges and way forward**”, was organised by **Janpahal** and the **Gig Workers Association** to foster dialogue between stakeholders.
- “वर्तमान घटनाक्रम, चुनौतियाँ और आगे की राह” नामक यह बैठक जनपहल और गिग वर्कर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई थी ताकि हितधारकों के बीच संवाद को प्रोत्साहित किया जा सके।

- The objective was to ensure **gig workers' rights** within the context of **existing policy developments**.

- इसका उद्देश्य वर्तमान नीति विकास के संदर्भ में गिग श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना था।

- **Janpahal secretary Dharmendra Kumar** said the outcome would be sent to **policymakers** to help build a **more equitable gig economy**.

- जनपहल के सचिव धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि बैठक के निष्कर्षों को नीति निर्माताओं को भेजा जाएगा ताकि एक अधिक न्यायसंगत गिग अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सके।

- Representatives from the **Union and State governments** and **international organisations** also addressed the meeting.

- केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी बैठक को संबोधित किया।

- Workers' testimonies shared in the meeting highlighted the **harsh realities** of the sector.

- बैठक में साझा की गई श्रमिकों की गवाही ने इस क्षेत्र की कठोर वास्तविकताओं को उजागर किया।

- They spoke of the **dictatorial and insensitive attitude** of companies, **lack of grievance redressal**, and being **blocked or terminated for minor or no mistakes**.

- उन्होंने कंपनियों के तानाशाही और असंवेदनशील रवैये, शिकायत निवारण की कमी, और छोटी या बिना गलती के आईडी ब्लॉक या नौकरी से निकाले जाने की बात कही।

- Workers also face **social disrespect**, and most of them are **not organised**.

- श्रमिकों को सामाजिक अपमान का भी सामना करना पड़ता है, और उनमें से अधिकांश संगठित नहीं हैं।

- Companies are actively **thwarting unionisation efforts**, and any protest or demand often results in **termination of work**.

- कंपनियाँ संगठन बनाने की कोशिशों को रोकती हैं, और किसी भी विरोध या मांग के जवाब में काम से निकाल दिया जाता है।

- The meeting demanded a **minimum wage/income** based on **logged-in hours**.

- बैठक ने लॉग-इन घंटों के आधार पर न्यूनतम वेतन/आय की मांग की।



- It said the **continuous reduction in rate cards** must be stopped.
- बैठक में कहा गया कि रेट कार्ड्स में लगातार की जा रही कटौती को रोका जाना चाहिए।
- It also stated that **surcharge collected from consumers** must be fairly shared with **workers**.
- यह भी कहा गया कि उपभोक्ताओं से वसूला गया अतिरिक्त शुल्क को उचित रूप से श्रमिकों के साथ साझा किया जाना चाहिए।
- The meeting urged the **Centre** to declare a **social security policy** for **online platform workers**.
- बैठक ने केंद्र सरकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा नीति घोषित करने का आग्रह किया।

ISRO set to launch earth observation satellite using PSLV rocket on Sunday

ISRO set to launch earth observation satellite using PSLV rocket on Sunday

इसरो रविवार को PSLV रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार

• **The Indian Space Research Organisation (ISRO) is preparing for its**

GS Paper III: S&T

The Hindu Bureau
BENGALURU

The Indian Space Research Organisation (ISRO) is all geared up for its 101st launch with the PSLV-C61 / EOS-09 mission to be launched at 5.59 a.m. on Sunday from the Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota.

The ISRO on Thursday said the PSLV was moved from the Payload Integration Facility to the Mobile Service Tower at the spaceport in Sriharikota for further integration.

EOS-09 is an earth observation satellite which is expected to boost India's surveillance capabilities in all-weather conditions. The satellite is equipped with C-band synthetic aperture radar enabling capturing of high-resolution images of earth's surface under all-weather con-



Collaboration on: Participants at a meet of the ISRO and JAXA in Bengaluru on May 13 and 14 for the Chandrayaan-5 mission. ISRO

ditions round the clock.

Chandrayaan-5 meet

The ISRO and the JAXA, the space agency of Japan, jointly conducted the third face-to-face Technical Interface Meeting (TIM-3), for the Chandrayaan-5/Lunar Polar Exploration (LUPEX) mission at the ISRO Headquarters in Bengaluru on May 13 and 14.

The meeting was attended by senior officials, pro-

ject executives, and technical team members from the ISRO, JAXA, and Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Japan.

"Following the legacy of Chandrayaan-1, Chandrayaan-2 (orbiter-based lunar exploration), Chandrayaan-3 (lander-rover based in-situ exploration) and the forthcoming Chandrayaan-4 (India's first lunar sample return mission), the Chandrayaan-5/

LUPEX mission will be the fifth mission in the Chandrayaan series of lunar missions, in collaboration with JAXA, to study the lunar volatile materials, including lunar water, in the vicinity of a Permanently Shadowed Region in the lunar south pole," ISRO said.

The mission will be launched by JAXA onboard its H3-24L launch vehicle, carrying the ISRO-made lunar lander, which will carry the MHI, Japan-made lunar rover. ISRO, apart from developing the lunar lander, is also responsible for developing a few scientific instruments for the mission. The scientific instruments for this mission would be contributed by ISRO, JAXA, ESA and NASA, all thematically connected with the exploration and in-situ analysis of the volatiles reserved in the lunar polar region.

101st launch with the PSLV-C61 / EOS-09 mission, scheduled for 5:59 a.m. on Sunday from the Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota.

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अपना 101वां प्रक्षेपण PSLV-C61 /



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



EOS-09 मिशन के साथ रविवार सुबह 5:59 बजे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से करने की तैयारी कर रहा है।

- On **Thursday**, ISRO stated that the **PSLV** was moved from the **Payload Integration Facility** to the **Mobile Service Tower** at the **Sriharikota spaceport** for further integration.
- गुरुवार को इसरो ने बताया कि **PSLV** को **पेलोड इंटीग्रेशन फैसिलिटी** से निकालकर श्रीहरिकोटा स्थित **मोबाइल सर्विस टॉवर** में अंतिम एकीकरण के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है।
- **EOS-09** is an **earth observation satellite** designed to enhance **India's surveillance capabilities in all-weather conditions**.
- **EOS-09** एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे सभी मौसमों में भारत की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।
- The satellite is equipped with **C-band Synthetic Aperture Radar (SAR)** to capture **high-resolution images** of Earth's surface in **all-weather conditions** and at **all times**.
- यह उपग्रह **सी-बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR)** से सुसज्जित है, जो सभी मौसमों और समय में पृथ्वी की सतह की **उच्च-रिज़ॉल्यूशन तस्वीरें** लेने में सक्षम है।

Chandrayaan-5 Meet

चंद्रयान-5 बैठक

- **ISRO and JAXA (Japan's space agency)** conducted the **third face-to-face Technical Interface Meeting (TIM-3)** for the **Chandrayaan-5 / Lunar Polar Exploration (LUPEX) mission** at **ISRO Headquarters in Bengaluru** on **May 13 and 14**.
- इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी **JAXA** ने **13 और 14 मई** को **बेंगलुरु** स्थित इसरो मुख्यालय में **चंद्रयान-5 / लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन (LUPEX) मिशन** के लिए तीसरी प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक (**TIM-3**) आयोजित की।
- The meeting was attended by **senior officials, project executives, and technical team members** from **ISRO, JAXA, and Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Japan**.
- बैठक में इसरो, **JAXA** और जापान की **मिम्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज (MHI)** के वरिष्ठ अधिकारी, परियोजना प्रबंधक, और तकनीकी टीम के सदस्य उपस्थित थे।
- **ISRO** stated that, following the legacy of **Chandrayaan-1, Chandrayaan-2** (orbiter-based lunar exploration), **Chandrayaan-3** (lander-rover based in-situ exploration), and the upcoming **Chandrayaan-4** (India's **first lunar sample return mission**), the **Chandrayaan-5 / LUPEX** mission will be the **fifth** in the **Chandrayaan series**.
- इसरो ने बताया कि **चंद्रयान-1, चंद्रयान-2** (ऑर्बिटर आधारित), **चंद्रयान-3** (लैंडर-रोवर आधारित स्थल परीक्षण), और आगामी **चंद्रयान-4** (भारत का पहला चंद्र सैंपल वापसी मिशन) की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, **चंद्रयान-5 / LUPEX मिशन** चंद्रयान श्रृंखला का पाँचवाँ मिशन होगा।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- This mission, in collaboration with **JAXA**, aims to study **lunar volatile materials**, including **lunar water**, near a **Permanently Shadowed Region** in the **lunar south pole**.
- यह मिशन, **JAXA** के साथ मिलकर, चंद्रमा के अस्थिर तत्वों जैसे कि चंद्र जल का अध्ययन चंद्र दक्षिणी ध्रुव के स्थायी रूप से छायायुक्त क्षेत्र में करेगा।
- The mission will be launched by **JAXA** using its **H3-24L launch vehicle**, carrying the **ISRO-made lunar lander** and **MHI, Japan-made lunar rover**.
- इस मिशन को **JAXA** अपने **H3-24L प्रक्षेपण यान** से लॉन्च करेगा, जिसमें **इसरो द्वारा निर्मित चंद्र लैंडर** और **जापान की MHI द्वारा निर्मित चंद्र रोवर** शामिल होंगे।
- Apart from developing the **lunar lander**, ISRO is also responsible for designing a few **scientific instruments** for the mission.
- चंद्र लैंडर के विकास के अलावा, इसरो इस मिशन के लिए कुछ **वैज्ञानिक उपकरणों** को भी विकसित कर रहा है।
- These **scientific instruments** will be contributed by **ISRO, JAXA, ESA (European Space Agency)**, and **NASA**, all focused on **exploring and analyzing volatiles** in the **lunar polar region**.
- ये **वैज्ञानिक उपकरण** **ISRO, JAXA, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA)** और **NASA** द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जो सभी चंद्र ध्रुवीय क्षेत्र में अस्थिर तत्वों की खोज और विश्लेषण पर केंद्रित होंगे।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



India's cough syrup crackdown – what prompted it and what follows

Paediatricians across the country welcome the move to restrict use of a **common cold drug combination for children under the age of four**, while pharmacists flag confusion over whether prescriptions can be honoured and what should be done with existing stock

CS Paper III: S&T

Zubeda Hamid

Last month, the Central government restricted the use of a common cold drug combination for children under the age of four, and also asked manufacturers to include a warning on the label, in package insert or the promotional literature of these drugs. This fixed drug combination (FDC), present in several popular brands of cough syrups for children, consists of chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride. While chlorpheniramine is an antihistamine, used to relieve allergy-like conditions such as a runny nose, watery eyes and sneezing, phenylephrine is a decongestant that works by narrowing small blood vessels, providing temporary relief from inflammation.

In a gazette notification issued on April 15, the Union Ministry of Health stated that this FDC was likely to involve risk to children below four years of age and safer alternatives to this drug are available. The matter was examined by a Subject Expert Committee, following which the restrictions were imposed.

Good news for paediatricians

For paediatricians across the country, the ban is a welcome move. Rajath Athreya, lead neonatologist and senior consultant paediatrician at Rainbow Children's Hospital, Sarjapur Road in Bengaluru said the combination of a sedative antihistamine like chlorpheniramine maleate along with phenylephrine was irrational in the first place.

"Phenylephrine, which is a decongestant, can also have effects on heart beat and blood pressure. These effects are unpredictable in young children and hence, there has been concern about the use of the drug in this age group," he said.

T.U. Sukumaran, a specialist in paediatric pulmonology and behavioural medicine from Kerala, pointed out that first-generation antihistamines – drugs that block the action of histamines that can cause a fever, itching, runny nose, and watery eyes – such as chlorpheniramine should not be given to children aged less than four in any case, as they could produce complications in this age category.

Explaining further, Vibhu Kawatra, paediatrician, pulmonologist and allergy specialist based in New Delhi said that the main issue with first generation antihistamines is that of respiratory depression and apnoea. Many over-the-counter syrups and drops however, contain chlorpheniramine due to its antihistamine properties as well as its side effect of drowsiness to calm the child, despite the risk of sudden death that could occur with its use. Over a period of time, he said, a newer



Strict instructions: After restricting the use of a common cold drug combination, the Centre has also directed asked manufacturers to include a warning on the label, in package insert or the promotional literature of these drugs. GETTY IMAGES

generation of antihistamines evolved making chlorpheniramine redundant. Paediatricians pointed out that second-generation antihistamines such as cetirizine and fexofenadine were safer alternatives.

For pharmacists however, some amount of confusion has prevailed over whether or not prescriptions can be honoured and what can be done with existing stock. This was complicated by petitions moved by several pharma companies in the Delhi High Court praying for the quashing of the gazette notification. The court however ruled on April 24 that the restriction would apply prospectively, and not retrospectively, and also directed the pharma companies to issue notices in national newspapers and issue advisories to doctors, chemists and retailers with regard to the ban. However, no coercive action would be taken with respect to the stock manufactured and/or in circulation on or before April 15, the court stated.

B. Thirunavukkarasu, president, Bangalore District Chemists and Druggists Association, raised serious concerns over the communication of the ban to pharmacies, "While we welcome the government's move to protect children's health, the way this ban has been communicated and managed has caused widespread confusion and risk within the pharmaceutical supply chain," he said. Pointing out that there was a lack of formal communication from manufacturers and wholesalers to retailers, Mr. Thirunavukkarasu said retail chemists, who are expected to comply immediately, have not even received circulars from many companies or the

State Drugs Controllers' office. As a result, stocks are still available in pharmacies.

"It is the responsibility of manufacturers to collect the banned stock through their medical representatives or to officially instruct their authorised distributors to retrieve the same. Retailers cannot bear the financial or legal brunt for holding stocks they procured legally before the ban," he added.

A.N. Mohan, president, All Kerala Chemists and Druggists Association, however said that chemists have been allowed to sell their existing stock of this FDC, in line with the Delhi High Court judgement. M. Anandan, general secretary of Tamil Nadu Pharmacists Welfare Association, pointed to a wider problem: inadequate drug inspectors to enforce regulations. In T.N., for instance, where there are 90,000 pharmacies, the State has just 200 drug inspectors, he said. He also noted that many pharmacies were not run by qualified pharmacists which contributed to the problem of proper drug dispensation.

Paediatricians said it is important to know what is causing the cough or cold rather than rushing to medicate the child. Mohandas Nair, professor, department of paediatrics, Government Medical College Hospital, Kozhikode, explained that the most common type of cough in children is associated with viral upper respiratory tract infections that only last for a few days. In such cases, symptomatic treatment was not essential – the FDC would only add to the cost of treatment apart from its undesirable potential side effects, he said.

Other causes of a cough could be: asthma, gastro-oesophageal reflux, or

post-nasal drip – secretion in the back of the throat or nose. For asthma, doctors recommend inhaled salbutamol, while occasionally inhalers or nebulisers are prescribed, while for post-nasal drip, proper positioning while sleeping could help. Across the board, doctors say simple home remedies such as warm water and honey can go a long way.

Colds too, could be caused by viral infections, and in most cases, do not require aggressive treatment, they said. As a senior paediatrician in Chennai noted: "The coughing disturbs the parent more than the child. We have tried to reduce prescribing medicines wherever possible." Dr. Kawatra said that parents must also be responsible: they must refrain from buying cough syrups without prescriptions.

Disseminating information

While the restriction has been welcomed, doctors also point to the need for widely disseminating information about it. Madap Karuna, a paediatrician based in Hyderabad said that professional bodies should use their continuing medical education programme platforms to share updated protocols and it was essential for information to be circulated to all associations of doctors and pharmacists. She also noted that there needed to be stringent protocols in place to ensure no banned medications were available in the market at all.

(With inputs from Afshan Yasmeen in Bengaluru, A.S. Jayanth in Kerala, R. Sujatha in Chennai, Bindu Shajan Perappadan in Delhi and Siddharth Kumar Singh in Hyderabad.)
(health@thehindu.co.in)

THE GIST

▼ A fixed drug combination (FDC), present in several popular brands of cough syrups for children, consists of chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride. The Union Ministry of Health stated that this FDC was likely to involve risk to children below four years of age and restrictions were imposed

▼ Paediatricians pointed out that second-generation antihistamines such as cetirizine and fexofenadine were safer alternatives. While the restriction has been welcomed, doctors also point to the need for widely disseminating information about it. Pharmacists too raised similar concerns

▼ Paediatricians said it is important to know what is causing the cough or cold rather than rushing to medicate the child. They advice parents to be responsible and refrain from buying cough syrups without prescriptions

India's Cough Syrup Crackdown — What Prompted It and What Follows

भारत में कफ सिरप पर सख्ती — इसका कारण क्या था और आगे क्या होगा



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



Government Restriction on Cough Syrup for Children

सरकार द्वारा बच्चों के लिए कफ सिरप पर प्रतिबंध

- The Central government has **restricted the use of a common cold drug combination** for children **under the age of four**.
- केंद्र सरकार ने चार वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सामान्य सर्दी की एक दवा संयोजन के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है।
- The combination includes **chlorpheniramine maleate** and **phenylephrine hydrochloride**, used in **popular cough syrups**.
- यह संयोजन लोकप्रिय कफ सिरपों में पाया जाता है, जिसमें क्लोरफेनीरामिन मालेएट और फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड शामिल हैं।
- **Chlorpheniramine** is an **antihistamine** for allergy-like symptoms; **phenylephrine** is a **decongestant** that reduces inflammation by narrowing blood vessels.
- क्लोरफेनीरामिन एक एंटीहिस्टामिन है जो एलर्जी जैसे लक्षणों में राहत देता है; फिनाइलएफ्रिन एक डिंकजेस्टेंट है जो रक्त वाहिकाओं को संकीर्ण कर सूजन को कम करता है।
- The Health Ministry, in its **April 15 gazette notification**, stated that this combination poses a **risk to children below four**, and **safer alternatives** are available.
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 अप्रैल की गजट अधिसूचना में कहा कि यह संयोजन चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जोखिमपूर्ण है और इसके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।
- The decision followed a review by a **Subject Expert Committee**.
- यह निर्णय एक विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया।

Paediatricians Support the Move

बाल रोग विशेषज्ञों का समर्थन

- Dr. Rajath Athreya, neonatologist at Rainbow Children's Hospital, Bengaluru, said this combination was **irrational** from the start.
- डॉ. रजत अत्रेय, रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, बेंगलुरु के नवजात रोग विशेषज्ञ ने कहा कि यह संयोजन शुरू से ही अविवेकपूर्ण था।
- He added that **phenylephrine** can **affect heartbeat and blood pressure**, and is **unpredictable** in **young children**.
- उन्होंने कहा कि फिनाइलएफ्रिन दिल की धड़कन और रक्तचाप को प्रभावित कर सकता है और यह छोटे बच्चों में अनपेक्षित प्रभाव डाल सकता है।


Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• Dr. T.U. Sukumaran from Kerala stated that **first-generation antihistamines** like **chlorpheniramine** should **not be given to children under four** due to possible **complications**.

• केरल के डॉ. टी.यू. सुब्रमण्यम ने कहा कि **प्रथम पीढ़ी के एंटीहिस्टामिन**, जैसे कि **क्लोरफेनीरामिन**, **चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिए जाने चाहिए**, क्योंकि इससे **जटिलताएं** हो सकती हैं।

• Dr. Vibhu Kawatra from Delhi highlighted the risk of **respiratory depression and apnoea** with first-generation antihistamines, sometimes leading to **sudden death**.

• दिल्ली के डॉ. विभु कवात्रा ने **प्रथम पीढ़ी के एंटीहिस्टामिन** के कारण **सांस लेने में कमी और श्वास रुकने** के जोखिम की बात कही, जो कभी-कभी **अचानक मृत्यु** का कारण बन सकते हैं।

• He noted that these drugs are still used for their **drowsiness effect**, despite newer, **safer second-generation antihistamines** like **cetirizine and fexofenadine** being available.

• उन्होंने बताया कि **नींद लाने वाले प्रभाव** के कारण ये दवाएं अब भी इस्तेमाल होती हैं, जबकि अब **सेटिरिज़िन और फेक्सोफेनाडिन** जैसे **दूसरी पीढ़ी के सुरक्षित एंटीहिस्टामिन** उपलब्ध हैं।

Pharmacists Raise Concerns Over Confusion

फार्मासिस्टों ने भ्रम को लेकर चिंता जताई

• Pharmacists are confused about whether they can **honour prescriptions** and what to do with **existing stock**.

• फार्मासिस्ट यह समझ नहीं पा रहे हैं कि वे **प्रिस्क्रिप्शन पूरा कर सकते हैं या नहीं**, और **मौजूदा स्टॉक** के साथ क्या किया जाए।

• Several pharmaceutical companies filed **petitions in Delhi High Court** seeking to quash the notification.

• कई फार्मा कंपनियों ने **दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाएं** दायर कीं ताकि इस अधिसूचना को **रद्द** कराया जा सके।

• On **April 24**, the Delhi High Court ruled that the **restriction would apply prospectively**, not **retrospectively**.

• **24 अप्रैल** को दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यह **प्रतिबंध भविष्य में लागू होगा**, **पिछली तारीख से नहीं**।

• The court directed pharma companies to **issue public notices and advisories** to doctors, chemists, and retailers.

• अदालत ने फार्मा कंपनियों को निर्देश दिया कि वे **डॉक्टरों, केमिस्टों और रिटेलरों को सार्वजनिक सूचना और सलाह जारी करें**।

• No **coercive action** will be taken for stock manufactured **on or before April 15**.

• **15 अप्रैल या उससे पहले** निर्मित स्टॉक के लिए कोई **दंडात्मक कार्रवाई नहीं** की जाएगी।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : info@patrioticias.in

Contact Number : 9971932488

Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



Communication Gap in Pharma Supply Chain

फार्मा आपूर्ति श्रृंखला में संचार की कमी

- B. Thirunavukkarasu, president of **Bangalore District Chemists and Druggists Association**, said the **ban was poorly communicated** to pharmacies.
- बी. थिरुनवुक्कारासु, अध्यक्ष, बेंगलोर जिला केमिस्ट एंड ड्रुगिस्ट एसोसिएशन ने कहा कि यह प्रतिबंध फार्मेशियों तक सही तरीके से नहीं पहुंचाया गया।
- He welcomed the move for **child safety**, but said it has caused **confusion and risk** in the **pharmaceutical supply chain**.
- उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के लिए इस कदम का स्वागत किया, लेकिन कहा कि इससे फार्मा आपूर्ति श्रृंखला में भ्रम और जोखिम उत्पन्न हो गया है।
- He added that **retail chemists have not received circulars** from many companies or **State Drugs Controllers**.
- उन्होंने कहा कि कई कंपनियों या राज्य औषधि नियंत्रकों से रिटेल केमिस्टों को सर्कुलर नहीं मिले हैं।
- As a result, these **cough syrup stocks are still available** in pharmacies.
- परिणामस्वरूप, ये कफ सिरप का स्टॉक अभी भी फार्मेशियों में उपलब्ध है।



Raising healthy hearts: reimaging school nutrition to tackle childhood hypertension

GS Paper III: S&T

Anuja Agarwala

It is easy to think of high blood pressure as something that happens later in life. But in India, that assumption is starting to look dangerously outdated. **More and more children are being diagnosed with elevated blood pressure**, and many of them do not even know it. It is not until adolescence or adulthood that the signs become too loud to ignore.

The numbers tell a worrying story. The **Comprehensive National Nutrition Survey (CNNS) from 2016-18 found that 7.3% of Indian adolescents had hypertensive blood pressure levels**. That number climbs to 9.1% in urban areas. Then there is the **National Family Health Survey-5 (NFHS-5)**, which shows that **12% of teens aged 15-19 already have elevated blood pressure**. These are not isolated cases. This is a trend. And it points to one very clear takeaway: if we want to tackle hypertension, we have to start early. Really early.

There are a few things feeding into this trend – rising childhood obesity, less physical activity, and a lifestyle that has shifted indoors and online. But if we had to name the biggest culprit, it would



Structured food education and balanced menus can transform lunch into a launchpad for lifelong health. FILE PHOTO

probably be the food our children are eating.

Walk into any grocery store or school canteen, and the reality hits you. Processed snacks that promise flavour and convenience in seconds. And they are taking a toll. On average, Indian adolescents are consuming more than 8 grams of salt a day. That is almost double the World Health Organization's recommended limit for adults. Most of it comes from packaged snacks, fast foods, and street-side treats that are heavy on salt and low on nutrition.

Over time, children develop a

preference for these hyper-palatable foods, while their tolerance for healthier options drops. They create habits, and those habits are forming early.

India's mid-day meal scheme (PM POSHAN) can become a pathway to break these habits early. As of 2025, the scheme now feeds approximately 120 million children across over 1.27 million schools, making it the largest school meal programme globally.

As the programme scales, there's an opportunity to evolve beyond basic nutrition. Can these meals also be a gateway to healthier food habits and greater food literacy? For many children, these meals are not just their main source of nourishment but also their first exposure to structured eating.

What if the next phase of PM POSHAN combined nutritional targets with efforts to cultivate a more joyful, educational relationship with food? Could we introduce regionally-inspired menus, fresh produce, or even involve students in food preparation and learning?

For inspiration, we can look to Japan, where the concept of *ShoKuiku*, food education, is woven into school life. Children

help plan meals, learn where their food comes from, and serve lunch to their classmates. They study nutrition and food origins. It is a simple yet powerful approach, which helps children understand how to make better choices. And the results speak for themselves: lower rates of childhood obesity and a healthier relationship with eating. If Japan seems too far removed from India's realities, consider Vietnam. Their Ministry of Education teamed up with Ajinomoto to improve school lunches by adapting the *ShoKuiku* model in 2012.

We need to bring that same ambition into our schools. We can do this by elevating PM POSHAN scheme into a food-literacy engine, and reshaping habits, palates, and minds.

(Dr. Anuja Agarwala is a senior genetic metabolic nutrition consultant and national vice-president, Indian Dietetic Association anujaiims@gmail.com)

For feedback and suggestions for 'Science', please write to science@thehindu.co.in with the subject 'Daily page'

Raising Healthy Hearts: Reimagining School Nutrition to Tackle Childhood Hypertension

स्वस्थ हृदय को बढ़ावा देना: बचपन के उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए स्कूल पोषण की पुनर्कल्पना

• High blood pressure is no longer a problem just for adults — Indian children are increasingly being diagnosed with it.

• उच्च रक्तचाप अब केवल वयस्कों की समस्या नहीं है — भारत में बच्चों में इसकी पहचान तेजी से हो रही है।

• Often, children are unaware of their condition until adolescence or adulthood.


• अक्सर बच्चे किशोरावस्था या वयस्क होने तक अपनी स्थिति से अनजान रहते हैं।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- The **Comprehensive National Nutrition Survey (CNNS) 2016–18** found that **7.3% of Indian adolescents had hypertensive blood pressure levels.**
 - समग्र राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण (CNNS) 2016–18 के अनुसार, 7.3% भारतीय किशोरों में उच्च रक्तचाप के स्तर पाए गए।
 - In urban areas, this number rises to 9.1%.
 - शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा बढ़कर 9.1% हो जाता है।
 - According to National Family Health Survey-5 (NFHS-5), 12% of teens aged 15–19 have elevated blood pressure.
 - राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के अनुसार, 15–19 वर्ष आयु वर्ग के 12% किशोरों में उच्च रक्तचाप पाया गया है।
 - **This is not a set of isolated cases but a worrying national trend.**
 - यह कुछ अलग-अलग मामले नहीं बल्कि एक चिंताजनक राष्ट्रीय प्रवृत्ति है।
 - **Rising childhood obesity, reduced physical activity, and sedentary digital lifestyles are key contributors to this trend.**
 - इस प्रवृत्ति में बढ़ता हुआ बचपन का मोटापा, शारीरिक गतिविधि में कमी, और घर के अंदर बैठकर बिताई जाने वाली डिजिटल जीवनशैली मुख्य कारण हैं।
 - However, the biggest culprit is the type of food that children consume.
 - हालांकि, सबसे बड़ा कारण वह खाद्य पदार्थ हैं जो बच्चे नियमित रूप से खाते हैं।
 - **Supermarkets and school canteens are filled with processed snacks that are high in salt and low in nutrition.**
 - सुपरमार्केट और स्कूल कैंटीन प्रोसेस्ड स्नैक्स से भरे हुए हैं जो नमक में अधिक और पोषण में कम होते हैं।
 - **Indian adolescents consume over 8 grams of salt per day, which is nearly double the WHO's recommended adult limit.**
 - भारतीय किशोर प्रतिदिन 8 ग्राम से अधिक नमक का सेवन करते हैं, जो WHO द्वारा वयस्कों के लिए अनुशंसित सीमा से लगभग दोगुना है।
 - Most of this salt comes from packaged foods, fast food, and street snacks.
 - इस नमक का अधिकांश हिस्सा पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड, और सड़क किनारे मिलने वाले खाद्य पदार्थों से आता है।
 - Over time, children develop a strong preference for these highly palatable unhealthy foods and lose the taste for healthy options.



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• समय के साथ, बच्चे इन बेहद स्वादिष्ट लेकिन अस्वस्थ खाद्य पदार्थों के आदी हो जाते हैं और स्वस्थ विकल्पों के प्रति रुचि खो देते हैं।

• These habits are developing early in life, which makes them harder to break later.

• ये आदतें जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बन रही हैं, जिससे इन्हें बाद में तोड़ना मुश्किल हो जाता है।

• **The mid-day meal scheme (PM POSHAN) can be a powerful intervention to reshape food habits early.**

• मध्याह्न भोजन योजना (PM POSHAN) प्रारंभिक चरण में खाद्य आदतों को बदलने का एक प्रभावशाली माध्यम हो सकता है।

• **As of 2025, PM POSHAN serves around 120 million children in over 1.27 million schools, making it the largest school meal programme in the world.**

• 2025 तक, PM POSHAN योजना 1.27 मिलियन से अधिक स्कूलों में लगभग 120 मिलियन बच्चों को भोजन प्रदान करती है, जिससे यह दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल भोजन योजना बन गई है।

• This programme provides not just nourishment, but also children's first exposure to structured eating.

• यह कार्यक्रम केवल पोषण ही नहीं, बल्कि बच्चों को संरचित भोजन प्रणाली से पहली बार परिचित कराता है।

• **The next phase of PM POSHAN can combine nutrition goals with food education to encourage healthier eating habits.**

• PM POSHAN का अगला चरण पोषण लक्ष्यों को खाद्य शिक्षा के साथ जोड़कर अधिक स्वस्थ भोजन आदतों को बढ़ावा दे सकता है।

• Regional menus, use of fresh produce, and involving students in meal preparation can make meals more meaningful.

• क्षेत्रीय व्यंजन, ताजा सब्जियाँ और फलों का उपयोग, और छात्रों की भोजन निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी भोजन को अधिक सार्थक बना सकती है।

• **In Japan, the concept of ShoKuiku (food education) is integrated into school life, where students help plan meals, study nutrition, and serve food.**

• जापान में ShoKuiku (खाद्य शिक्षा) की अवधारणा स्कूल जीवन में शामिल है, जहाँ छात्र भोजन योजना बनाते हैं, पोषण का अध्ययन करते हैं, और भोजन परोसते हैं।

• This approach fosters healthier food choices, lower childhood obesity, and a positive relationship with food.

• यह तरीका स्वस्थ भोजन विकल्पों, कम बचपन मोटापे, और भोजन के प्रति सकारात्मक संबंध को प्रोत्साहित करता है।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : info@patrioticias.in

Contact Number : 9971932488

Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



- Vietnam adapted the ShoKuiku model in 2012 in collaboration with Ajinomoto, improving school lunches through education.
- वियतनाम ने 2012 में Ajinomoto के साथ मिलकर ShoKuiku मॉडल को अपनाया और शिक्षा के माध्यम से स्कूल भोजन को बेहतर बनाया।
- India must bring similar ambition and innovation to its schools by making PM POSHAN a food literacy engine.
- भारत को भी अपने स्कूलों में ऐसी ही महत्वाकांक्षा और नवाचार लाना चाहिए और PM POSHAN को एक खाद्य साक्षरता इंजन बनाना चाहिए।
- This can help reshape not just food habits, but also palates and minds of future generations.
- यह केवल भोजन की आदतों को ही नहीं, बल्कि स्वाद और सोच को भी आकार देने में मदद कर सकता है।

PATRIOTIC IAS



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



GS Paper III: Inflation

Under control

Low retail inflation is good news for consumers and policymakers

April's 69-month low retail inflation and 13-month low wholesale inflation should come as a relief to the public and policymakers alike. For the public, it shows that the easing of prices in the first few months of the year is continuing. For policymakers, it goes a step further in confirming that last year's alarming levels of inflation are well and truly under control, and that the Reserve Bank of India (RBI) was right to cut interest rates twice in a row. The fall in retail inflation was driven by a contraction of nearly 11% in vegetable prices, and 5.2% in the price of pulses. However, it is important to note that although vegetable prices are lower than last year, this contraction is mainly due to a very high base – vegetable inflation was in the 27%-30% range in the February-April period of last year. Inflation at the wholesale level, too, was driven down by easing vegetable prices, which contracted 18.26% in April. This, too, was on a relatively high base of nearly 12% last April. The base effect aside, it does look like the government's efforts to bolster buffer stocks of essential food items, conduct open market releases, and ease imports during supply shortages have helped in easing inflation. The other – less positive – factor could have been the liquidity crunch that banks were facing in the first few months of the year. Lower liquidity results in lower amounts left to lend, which squeezes money with companies and the public, and thus can lower inflation. As things stand, even though retail inflation has been decreasing for six consecutive months, its trajectory for the rest of the year will significantly be determined by the monsoon and its vagaries. Similarly, the ongoing tariff uncertainty and threats of retaliation by India will also play a part.

The latest inflation data does have some policy implications. The first and most obvious one is that it will likely encourage the RBI's Monetary Policy Committee to cut interest rates again in June. However, an important consideration for it will also be how the latest GDP growth data – to be released this month end – will look. The other, more immediate step for public sector oil marketing companies is to finally cut fuel prices in line with crude oil inflation in the WPI coming in at a 22-month low. If not, then the government should officially abandon its dynamic pricing policy, where prices are supposedly revised daily. That fuel prices have been virtually unchanged in three years, despite oil prices falling 42% over the period, means the policy is a sham in any case.

Under Control नियंत्रण में

Low retail inflation is good news for consumers and policymakers

कम खुदरा महंगाई उपभोक्ताओं और नीति-निर्माताओं के लिए अच्छी खबर है

• April's 69-month low retail inflation and 13-month low wholesale inflation offer relief to both the general public and policymakers.

• अप्रैल की 69 महीने की सबसे कम खुदरा महंगाई और 13 महीने की सबसे कम थोक महंगाई जनता और नीति-निर्माताओं दोनों के लिए राहत लेकर आई है।

• For the public, it confirms that the decline in prices seen in the early months of the year is continuing.

• जनता के लिए यह पुष्टि करता है कि साल की शुरुआत में देखी गई कीमतों में गिरावट जारी है।

• For policymakers, it confirms that last year's high inflation is now under control and that the Reserve Bank of India (RBI) was correct in cutting interest rates twice consecutively.

• नीति-निर्माताओं के लिए यह पुष्टि करता है कि पिछले वर्ष की उच्च महंगाई अब नियंत्रण में है और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा दो बार लगातार ब्याज दरों में कटौती करना उचित था।

Factors Behind the Inflation Drop महंगाई में गिरावट के कारण

• The drop in retail inflation was led by a nearly 11% fall in vegetable prices and a 5.2% decline in pulse prices.

• खुदरा महंगाई में गिरावट का मुख्य कारण सब्जियों की कीमतों में लगभग 11% की गिरावट और दालों की कीमतों में 5.2% की कमी रही।

• However, this drop is due to a very high base from last year when vegetable inflation was between 27% to 30% during February-April.

• हालांकि, यह गिरावट पिछले वर्ष के बहुत उच्च आधार के कारण है जब फरवरी-अप्रैल के दौरान सब्जियों की महंगाई 27% से 30% के बीच थी।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : info@patrioticias.in

Contact Number : 9971932488

Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• Wholesale inflation also declined due to falling vegetable prices, which contracted by **18.26%** in April.

• थोक महंगाई में भी गिरावट आई क्योंकि अप्रैल में सब्जियों की कीमतों में **18.26%** की कमी देखी गई।

• Last year's base for wholesale vegetable inflation was **nearly 12%**, which contributed to this year's fall.

• पिछले वर्ष थोक सब्जी महंगाई का आधार लगभग **12%** था, जिसने इस वर्ष की गिरावट में योगदान दिया।

Government Measures and Other Contributors

सरकारी उपाय और अन्य कारण

• Government steps such as **boosting buffer stocks, open market releases, and easing imports during shortages** helped control inflation.

• सरकार द्वारा बफर स्टॉक्स बढ़ाना, ओपन मार्केट में खाद्य वस्तुओं की बिक्री, और आयात को आसान बनाना जैसे कदमों ने महंगाई को नियंत्रित करने में मदद की।

• A **liquidity crunch in banks** earlier this year also contributed; **less liquidity means less lending**, which **reduces spending** and thus **lowers inflation**.

• साल की शुरुआत में बैंकों में तरलता की कमी भी एक कारण रही; कम तरलता से ऋण वितरण घटता है, जिससे खर्च कम होता है और महंगाई घटती है।

Future Outlook

भविष्य की स्थिति

• Despite six straight months of decline, the inflation trend ahead will depend on the **monsoon** and its **uncertainties**.

• लगातार छह महीने की गिरावट के बावजूद, आगे की महंगाई की प्रवृत्ति **मॉनसून** और उसकी **अनिश्चितताओं** पर निर्भर करेगी।

• **Tariff uncertainty** and the possibility of **India's retaliatory measures** will also influence inflation trends.

• टैरिफ अस्थिरता और भारत की जवाबी कार्रवाई की संभावना भी महंगाई को प्रभावित करेगी।

Policy Implications

नीतिगत प्रभाव

• This inflation data is likely to encourage the **RBI's Monetary Policy Committee** to consider **another interest rate cut** in June.

• यह महंगाई आंकड़ा संभवतः **भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति** को जून में एक और ब्याज दर में कटौती करने के लिए प्रेरित करेगा।

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : info@patrioticias.in

Contact Number : 9971932488

Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• However, the **GDP growth data** expected at the **end of the month** will also be an important factor in that decision.

• हालांकि, माह के अंत में आने वाला GDP वृद्धि आंकड़ा भी इस निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Fuel Pricing and Policy Credibility

ईंधन मूल्य निर्धारण और नीति की विश्वसनीयता

• Public sector oil companies should now **cut fuel prices**, as **crude oil inflation** in the WPI is at a **22-month low**.

• सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को अब **ईंधन की कीमतें घटानी चाहिए**, क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक (WPI) में कच्चे तेल की महंगाई 22 महीने के न्यूनतम स्तर पर है।

• If fuel prices are not reduced, the government should officially **abandon the dynamic pricing policy**, which is supposed to revise prices daily.

• यदि ईंधन की कीमतों में कटौती नहीं होती है, तो सरकार को **डायनामिक प्राइसिंग पॉलिसी को आधिकारिक रूप से समाप्त कर देना चाहिए**, जिसके तहत कीमतें रोजाना बदली जानी थीं।

• **Fuel prices have remained nearly unchanged for three years**, despite a **42% fall in oil prices**, showing that the policy has not been implemented genuinely.

• **पिछले तीन वर्षों से ईंधन की कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई हैं**, जबकि तेल की कीमतों में 42% की गिरावट आई है, जो दिखाता है कि यह नीति वास्तव में लागू नहीं की गई है।



The paradox of the approach to the Manipur issue

GS Paper III: Internal Security

As the stalemated conflict in Manipur completes two years, the veritable wait for the Godot of political settlement continues to remain elusive. Despite unleashing a trail of devastation, the loss of over 250 lives and an unfolding human tragedy which compelled thousands of internally displaced persons to live in sub-human makeshift relief centres for over two years, Manipur's violence has not secured a high-order-of-national-priority. This is gallingly evident as Prime Minister Narendra Modi maintains his stoic refusal to visit the State and offer a definitive road map to break the impasse. This compares starkly with the topmost-priority accorded by him to the Pahalgam terror strike on April 22, which led to the curtailment of his official visit to Saudi Arabia and the announcement of policy measures.

The very short military stand-off between India and Pakistan and the swift response made eminent sense given the overwhelming and dominant mood of the nation that something decisive had to be done not only to decimate terrorist infrastructure across the Line of Control, but also penalise Pakistan for its alleged sponsorship of cross-border terrorism. As the stand-off and the terms of the understanding/ceasefire likely to be agreed upon by the two nuclear powers continue to take centre-stage, it is highly unlikely that Manipur's continuing human tragedy and political impasse will get the serious attention it deserves.

The approach to the northeast

What explains this paradox? And in what way does this follow a broader pattern of New Delhi's engagement with Manipur, and, by extension, Northeast India?

A clue lies in making a long-term assessment of New Delhi's approach to the Northeast, and for that matter Manipur, which is underscored by its obsession with national security and regime consolidation. Unlike Kashmir, which is the focus in a series of triangular conflicts with Pakistan and China, Manipur's case does not present an imminent threat to India's national security despite concerted efforts over the past two years to make this as such. Although both of India's adversaries were involved in the training of armed independentist groups such as the Naga National Council and its progeny, the NSCN-IM, the Mizo National Front, the United Liberation Front of Assam, and the United National Liberation Front, in the 1960s, 1970s and 1980s, their support to these groups remains remote and diminished.

However, because the policy mandarins in Delhi best understand the language of national security, concerted attempts had been made by certain quarters of valley-based civil society groups and self-professed national security experts to squarely blame Manipur's violence on 'lungi-clad' Kuki armed militants across the India-Myanmar border. A case in point is the failed attempt to amplify this threat by the then



Kham Khan Suan Hausing

is a Professor and former Head of the Department of Political Science, University of Hyderabad. He is also an Honorary Senior Fellow, Centre for Multilevel Federalism, Institute of Social Sciences, New Delhi

Chief Minister's office in mid-September 2024 by invoking credible 'intelligent inputs' which forewarned imminent crossover and attack by over '900 Kuki militants' based in Myanmar with the capabilities to launch rocket launchers against Meitei villages. On hindsight, this security bluster was a half-clever ploy to whip up a majoritarian sense of insecurity and used that as a pretext to prepare the grounds for a series of offensive strikes against Kuki-Zomi-Hmar villages beyond the 'buffer zone' on the pretext of combing operations.

Interestingly, the protagonists of national security remain conspicuously muted on the more serious threat posed by the large-scale mobilisation of valley-based insurgent groups, or VBIGs and their foot soldiers in the wake of this violence since May 3, 2023. One immediate consequence of this is the outsourcing of law and order to these groups on the pretext that the State fails to protect villages which remained exposed to transgressions and offensive attacks across the buffer zone. This zone, ideated and enforced by the Indian paramilitary forces after Home Minister Amit Shah visited the State towards the end of May 2023, lies in the foothills and marks the point of territorial and demographic separation between the Meiteis and Kuki-Zomi-Hmars.

Such a problematic stance on a national security issue has also effectively neutralised the security gains obtained by India since it successfully flushed out VBIGs from their safe havens in the valley areas in Operation All-Clear (2004). Instead of prioritising substantive security issues such as an upscaling of intelligence-gathering capabilities, counterinsurgency skills, modernisation and professionalisation of the Indian Army and police, the Indian security policy continues to be stuck in a time-warp of political optics.

The case of fencing as an obsolete outlook

The unusual zeal with which New Delhi pushes the agenda of revoking the free movement regime and spending over ₹31,000 crore for fencing the 1,643 kilometre India-Myanmar border, including the 398 kilometre-long Manipur-Myanmar border, is clearly an instance of an obsolete security overdrive. While this may simultaneously cater to the perceived sense of insecurity whipped up by majoritarian groups based in the valley and eminently suit the pork-barrel brand of politics with promissory collateral benefits to contractors and brokers, the lines of divide are clearly apparent as the Naga, and Mizo, among others, have registered their staunch opposition. Unless such a policy framework is tailored to win the hearts and the minds of transborder people – which seems to be the case here – it is neither likely to augment India's national security nor promote India's neighbourhood first policy via the Act East policy across the India-Myanmar border and beyond.

Unfortunately, a longitudinal assessment of

India's national security policy framework across political regimes demonstrates that it is driven more by political optics in ways which help consolidate political regimes, rather than being hard-wired in upskilling security infrastructure. This explains why beyond the public spectacle of holding piecemeal arms surrender events, no sincere effort is made to recover sophisticated arms (numbering over 6,000) and ammunition (numbering over 5,00,000) given away to armed groups since the outbreak of violence. Notwithstanding this, barely around 4,000 of the 6,020 arms snatched away from the State armouries have so far been deposited in response to the State government's call. Interestingly, 894 of these were deposited in response to two deadlines – announced by Governor Ajay Kumar Bhalla, on February 28, which was extended to March 6, 2025.

The self-congratulatory and nonchalant way in which voluntary arms surrender was pressed for political optics became evident on February 27, a day before the first deadline, when a cavalcade of the Arambai Tenggol, an armed militia accused of perpetrating atrocities against several Kuki-Zomi-Hmar villages, marched across the streets and surrendered 246 weapons at a police station in Imphal. Even though many of these so-called surrendered arms are country-made guns, there is neither a persistent follow-up action after the second deadline passed on March 6, nor any serious attempt to nab and prosecute defaulting individuals under the Arms Act.

An incremental approach such as this may be the key to gradually stabilising law and order. However, the easy and abundant availability of arms and ammunition in the hands of armed groups in the State is likely to perpetuate the ethnic security dilemma even as there is no sustained and credible security guarantee from the State. The reluctant imposition of President's Rule on February 13, 2025 as a convenient escape route to an imminent and inglorious fall of the Bharatiya Janata Party government, after an open revolt within its ranks, and the change of political guard in the State seems to have signalled a subtle, yet stern, message to armed groups across the divide that violence is not going to be tolerated.

Looking ahead

A halting, yet incremental return to normalcy may, however, impel serious political engagements with rival stakeholders in ways that simultaneously accommodate legitimate demands and promote trust and legitimacy to state institutions. As rival parties respectively commemorated May 3 as 'separation day' and a 'day of remembrance and reflection' to push their divergent political agendas, breaking the political impasse and stabilising law and order require substantive policy reorientations that transcend political optics and regime consolidation.

The views expressed are personal

The stance on what is also a national security issue is problematic

The Paradox of the Approach to the Manipur Issue

मणिपुर मुद्दे के प्रति दृष्टिकोण का विरोधाभास

- Two years of Stalemate in Manipur
- मणिपुर में गतिरोध के दो वर्ष
- As the conflict in Manipur completes two years, a meaningful political settlement still



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



remains elusive.

- जैसे ही मणिपुर में संघर्ष के दो वर्ष पूरे होते हैं, एक ठोस राजनीतिक समाधान अब भी दूर की कौड़ी बना हुआ है।
- The situation has caused **over 250 deaths** and **mass internal displacement**, with people living in **sub-human conditions** in relief centres.
- इस स्थिति ने **250 से अधिक लोगों की मौत** और **भीतरी विस्थापन** को जन्म दिया है, जहां लोग **अमानवीय हालात** में राहत शिविरों में रह रहे हैं।
- Yet, the crisis has not received **top national priority**.
- फिर भी, इस संकट को **राष्ट्रीय प्राथमिकता** नहीं मिल पाई है।
- Prime Minister **Narendra Modi** has not visited the State nor proposed a **clear roadmap** to resolve the issue.
- प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी** ने न तो राज्य का दौरा किया और न ही इस संकट के समाधान के लिए कोई **स्पष्ट खाका** प्रस्तुत किया।
- In contrast, the **Pahalgam terror strike** on **April 22** received immediate attention, including **cancellation of the Saudi visit** and policy announcements.
- इसके विपरीत, **22 अप्रैल** को हुए **पहलगाम आतंकी हमले** को त्वरित प्राथमिकता दी गई, जिसमें **सऊदी दौरे को रद्द** कर नीतिगत घोषणाएं की गईं।

• National Security Response in Other Regions

- **अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रतिक्रिया**
- The brief military stand-off with **Pakistan** was responded to swiftly, reflecting national consensus on the need to **destroy terrorist infrastructure** and **punish Pakistan** for **cross-border terrorism**.
- **पाकिस्तान** के साथ अल्पकालिक सैन्य तनाव का त्वरित जवाब दिया गया, जिससे यह संकेत मिला कि देश में **आतंकी ढांचे को खत्म करने** और **सीमा पार आतंकवाद** के लिए **पाकिस्तान को दंडित करने** की ज़रूरत पर आम सहमति थी।
- However, the prolonged **Manipur crisis** continues to be **ignored**.
- लेकिन लंबे समय से जारी **मणिपुर संकट** को अब भी **नज़रअंदाज़** किया जा रहा है।

The Approach to the Northeast

पूर्वोत्तर के प्रति दृष्टिकोण

- **National Security and Regime Focus**
- **राष्ट्रीय सुरक्षा और सत्ता केंद्रित दृष्टिकोण**
- New Delhi's long-term policy toward the **Northeast**, including **Manipur**, is driven by a focus on **national security** and **regime consolidation**.



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• नई दिल्ली की पूर्वोत्तर (विशेषकर मणिपुर) के प्रति दीर्घकालिक नीति राष्ट्रीय सुरक्षा और सत्ताकेंद्रित मजबूती पर आधारित रही है।

• Unlike **Kashmir**, which involves strategic conflicts with **Pakistan** and **China**, **Manipur** does not pose an **imminent national security threat**.

• **कश्मीर** के विपरीत, जहाँ **पाकिस्तान** और **चीन** से रणनीतिक टकराव शामिल है, **मणिपुर** कोई तत्काल राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा नहीं प्रस्तुत करता।

• Earlier support from China and Pakistan to **insurgent groups** such as **NSCN-IM**, **ULFA**, **MNF**, and **UNLF** has now significantly **diminished**.

• पहले **चीन** और **पाकिस्तान** से **NSCN-IM**, **ULFA**, **MNF**, और **UNLF** जैसे उग्रवादी संगठनों को मिला समर्थन अब बहुत हद तक कम हो गया है।

• Blaming the 'Kuki Militants' Narrative

• 'कुकी उग्रवादियों' को दोष देने की रणनीति

• Policymakers and civil society groups have attempted to frame **Kuki armed groups** along the **India-Myanmar border** as a primary threat.

• नीति-निर्माताओं और कुछ नागरिक समूहों ने **भारत-म्यांमार सीमा** पर स्थित **कुकी उग्रवादी समूहों** को मुख्य खतरे के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है।

• In **September 2024**, the **Chief Minister's Office** cited '**credible intelligence inputs**' warning that **over 900 Kuki militants** were preparing rocket launcher attacks on **Meitei villages**.

• **सितंबर 2024** में **मुख्यमंत्री कार्यालय** ने '**विश्वसनीय खुफिया जानकारी**' के हवाले से दावा किया कि **900 से अधिक कुकी उग्रवादी रॉकेट लॉन्चर** से **मैतेई गांवों** पर हमला करने की योजना बना रहे हैं।

• In hindsight, this threat was exaggerated to stir **majoritarian insecurity** and justify **attacks on Kuki-Zomi-Hmar villages** beyond the **buffer zone**.

• बाद में यह स्पष्ट हुआ कि यह खतरा **बहुसंख्यक असुरक्षा** को भड़काने और **बफर जोन के बाहर कुकी-जोमी-हमार गांवों** पर हमलों को उचित ठहराने की रणनीति थी।

• Silence on Valley-Based Insurgent Groups (VBIGs)

• घाटी आधारित उग्रवादी समूहों (VBIGs) पर चुप्पी

• National security advocates have been **silent** on the real threat of mobilization of **valley-based insurgent groups (VBIGs)** since **May 3, 2023**.

• **3 मई 2023** से घाटी आधारित उग्रवादी समूहों (VBIGs) की **बड़ी संख्या में लामबंदी** पर राष्ट्रीय सुरक्षा समर्थक चुप्पी साधे हुए हैं।

• Law and order has been **outsourced** to these groups on the pretext that the state failed to protect **exposed villages** near the **buffer zone**.



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• राज्य सरकार द्वारा **बफर जोन** के पास स्थित **असुरक्षित गांवों** की रक्षा में असफल रहने के बहाने से, कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी इन समूहों को सौंप दी गई है।

• Buffer Zone Creation and Its Effects

• बफर जोन की रचना और उसका प्रभाव

• The **buffer zone** was created by **Indian paramilitary forces** after **Home Minister Amit Shah's** visit in **late May 2023**.

• गृह मंत्री **अमित शाह** के **मई 2023** के अंत में दौरे के बाद **भारतीय अर्धसैनिक बलों** द्वारा **बफर जोन** बनाया गया।

• It marked the **territorial and demographic separation** between the **Meitei** and **Kuki-Zomi-Hmar** communities.

• यह **मैतेई** और **कुकी-जोमी-हमार** समुदायों के बीच **भौगोलिक और जनसांख्यिकीय विभाजन** का प्रतीक बन गया।

• The zone became the center of **militarized violence, communal insecurity, and lawless retaliation**.

• यह क्षेत्र **सैन्य हिंसा, सामुदायिक असुरक्षा, और बिना कानून के प्रतिशोध** का केंद्र बन गया।

Security Policy and Ethnic Conflict in Manipur

मणिपुर में सुरक्षा नीति और जातीय संघर्ष

Erosion of Security Gains Post Operation All-Clear (2004)

ऑपरेशन ऑल-क्लियर (2004) के बाद सुरक्षा लाभों का क्षरण

• Such a problematic stance on a **national security** issue has effectively neutralised the gains India achieved after successfully flushing out **VBIGs** during **Operation All-Clear (2004)**.

• राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे पर ऐसा समस्यात्मक रुख, **ऑपरेशन ऑल-क्लियर (2004)** के दौरान **VBIGs** को सफलतापूर्वक बाहर निकालने के बाद भारत द्वारा प्राप्त सुरक्षा लाभों को निष्प्रभावी कर चुका है।

• Instead of prioritising **intelligence-gathering, counterinsurgency, modernisation, and professionalisation** of forces, India's security policy remains focused on **political optics**.

• **खुफिया जानकारी एकत्र करने, विद्रोह-रोधी रणनीति, आधुनिकीकरण, और बलों के पेशेवर विकास** को प्राथमिकता देने के बजाय भारत की सुरक्षा नीति अब भी **राजनीतिक दिखावे** में अटकी हुई है।

Obsolete Approach: The Case of Border Fencing

पुरानी सोच: सीमा पर बाड़ लगाने का मामला

• New Delhi's zeal to revoke the **Free Movement Regime** and spend over **₹31,000 crore** to fence the **1,643 km India-Myanmar border** (including **398 km of Manipur-Myanmar border**) reflects an outdated security mindset.

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur

Email Id : info@patrioticias.in

Contact Number : 9971932488


Website : patrioticias.in



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• फ्री मूवमेंट रेजीम को रद्द करने और ₹31,000 करोड़ से अधिक खर्च कर 1,643 किमी भारत-म्यांमार सीमा (जिसमें 398 किमी मणिपुर-म्यांमार सीमा शामिल है) पर बाड़ लगाने के लिए नई दिल्ली का उत्साह एक पुरानी सुरक्षा सोच को दर्शाता है।

• This move appeals to the **majoritarian insecurities** in the valley and supports **pork-barrel politics**, benefiting **contractors and brokers**, while ignoring opposition from **Naga and Mizo** communities.

• यह कदम घाटी में फैली **बहुसंख्यक असुरक्षा** को संतुष्ट करता है और **पॉक बैरल राजनीति** को बढ़ावा देता है जिससे **ठेकेदारों और दलालों** को लाभ मिलता है, जबकि **नगा और मिजो** समुदायों की **कड़ी आपत्ति** की अनदेखी करता है।

• Without winning the **trust of transborder communities**, such fencing will neither enhance **national security** nor aid the **Act East Policy**.

• **सीमा पार समुदायों का विश्वास** प्राप्त किए बिना, ऐसी बाड़बंदी न तो **राष्ट्रीय सुरक्षा** को बढ़ाएगी और न ही **एक्ट ईस्ट नीति** को समर्थन देगी।

security Framework Dominated by Political Optics

राजनीतिक दिखावे से प्रभावित सुरक्षा ढांचा

• India's national security policies across regimes have been more about **regime consolidation** than **upskilling security infrastructure**.

• भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियाँ विभिन्न सरकारों में **सुरक्षा ढांचे के सशक्तिकरण** की बजाय **राजनीतिक सुदृढ़ीकरण** पर केंद्रित रही हैं।

• Events like **piecemeal arms surrenders** are public spectacles, not part of a **sincere arms recovery** initiative.

• **छिटपुट हथियार समर्पण** जैसे आयोजन **प्रामाणिक हथियार पुनर्प्राप्ति** की पहल नहीं, बल्कि **सार्वजनिक प्रदर्शन** हैं।

• Over **6,000 arms** and **5,00,000 rounds of ammunition** given to armed groups since the start of violence have not been effectively recovered.

• हिंसा की शुरुआत के बाद से सशस्त्र समूहों को दिए गए **6,000 से अधिक हथियार** और **5,00,000 गोлияं** प्रभावी रूप से वापस नहीं ली गई हैं।

Arms Surrender Deadlines and Lack of Follow-up

हथियार समर्पण की समयसीमा और अनुवर्ती कार्रवाई की कमी

• Only about **4,000 of 6,020 arms** looted from state armouries have been returned in response to surrender calls.

• राज्य के शस्त्रागारों से लूटे गए **6,020 हथियारों** में से केवल लगभग **4,000 हथियार** ही समर्पण आह्वानों के जवाब में वापस किए गए हैं।



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• Of these, **894 weapons** were returned following deadlines by **Governor Ajay Kumar Bhalla** on **February 28**, later extended to **March 6, 2025**.

• इनमें से **894 हथियार**, **28 फरवरी** को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला द्वारा घोषित और बाद में **6 मार्च 2025** तक बढ़ाई गई **समयसीमा** के तहत वापस किए गए।

• On **February 27**, just before the deadline, **Arambai Tenggol militia**, accused of violence, surrendered **246 weapons**, many of which were **country-made guns**.

• **27 फरवरी** को, समयसीमा से एक दिन पहले, **अरंबाई तेंगगोल मिलिशिया** (जिस पर हिंसा के आरोप हैं) ने **246 हथियार** समर्पित किए, जिनमें से कई **स्थानीय रूप से बनाए गए** थे।

• After the **March 6 deadline**, there has been **no follow-up** or action under the **Arms Act** against non-complying individuals.

• **6 मार्च** की समयसीमा के बाद **कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं हुई** और **आर्म्स एक्ट** के तहत **उल्लंघन करने वालों के खिलाफ** कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई।

Persistent Arms Presence and Ethnic Security Dilemma

लगातार हथियारों की उपस्थिति और जातीय सुरक्षा संकट

• Despite minor progress, the **easy availability of arms** among groups continues to fuel the **ethnic security dilemma**.

• कुछ प्रगति के बावजूद, समूहों में **हथियारों की आसान उपलब्धता** अब भी **जातीय सुरक्षा संकट** को बढ़ा रही है।

• The **reluctant imposition of President's Rule** on **February 13, 2025**, was a response to the **imminent fall of BJP government** after internal revolt.

• **13 फरवरी 2025** को राष्ट्रपति शासन की **अनिच्छुक घोषणा**, **भाजपा सरकार के आसन्न पतन** और **पार्टी में आंतरिक विद्रोह** के कारण की गई।

• This change signalled a **stern warning** to armed groups that **violence would not be tolerated**.

• यह परिवर्तन **सशस्त्र समूहों के लिए एक सख्त संदेश** था कि **हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी**।

Looking Ahead: Rebuilding Trust and Engagement

आगे की राह: विश्वास और संवाद का पुनर्निर्माण

• A **slow but steady return to normalcy** can pave the way for **serious political dialogues** that respect **legitimate demands** and rebuild **institutional trust**.

• **धीमी लेकिन स्थिर सामान्य स्थिति की वापसी** से **गंभीर राजनीतिक संवाद** का रास्ता बन सकता है जो **वैध मांगों का सम्मान** करे और **संस्थागत विश्वास** को बहाल करे।

• On **May 3**, rival parties commemorated the day as either '**separation day**' or '**day of remembrance and reflection**', showing **divergent political agendas**.



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>

YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

CONTACT: 9971932488



• 3 मई को विरोधी दलों ने इस दिन को 'विभाजन दिवस' या 'स्मरण और चिंतन दिवस' के रूप में मनाया, जो उनके भिन्न राजनीतिक एजेंडे को दर्शाता है।

• To resolve the **political impasse** and ensure **law and order**, there is a need for **substantive policy shifts** beyond political grandstanding.

• राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, राजनीतिक दिखावे से परे ठोस नीति परिवर्तनों की आवश्यकता है।

PATRIOTIC IAS

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in